




# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 12]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 1996 (चैत्र 3, 1918)

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 1996 (CHAITRA 3, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given in this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग 1 खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc., of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

(वित्त प्रभाग)

(डी. आर. डी. एन)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 1996

सं. 126, दिनांक 13 फरवरी 1996—राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल सेवा (चयन ग्रेड) चयन सूची 1993 के अधिकारी श्री श्रीम पाल सिंह को वित्त मंत्रालय से स्थानान्तरण होने पर रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में 2-2-1996 अपराह्न से उपा वित्तीय सलाहकार के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री एम. एम. शर्मा, महाराष्ट्र को इस प्रभाग में 6-2-96 के पदार्हण से 31-3-1996 तक या अगला आदेश होने तक या इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजेंद्र मोहन

सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सं. 127, दिनांक 9 फरवरी 1996—रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा के नियम 8(2) के अंतर्गत आयोजित मूल्यांकन समिति की संस्मृति के आधार पर, राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक 'वी' को दिनांक 01 जुलाई 1995 (प्रातः) से वैज्ञानिक 'सी' के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्रीमती के शान्ता

श्री डी सुधाकर

श्री एस धन्या श्री

श्री एन उषय शंकर

श्री एन विद्या सागर

श्रीमती सी नागालक्ष्मी

श्री टी टी रामन्ना राव

श्री डी एल सिद्धालिंगप्पा

श्री के राजशेखरम

श्री डी वी सिवा शंभु

श्री टी वी एस अन्जान्युल्  
श्री एम मन्निक्कावासामागम  
श्री बी के सराफ  
श्रीमती टी सूनिता देवी  
श्री पी सुन्दा राजन  
श्री पी पी कुमारगुरु  
श्री जी राम किशोर  
श्री पी वी सुरेश  
श्री पी रामाकृष्णा  
श्री वी श्रीहरि बाबू  
श्री सी एच विजय सराधी

मूलांकन समिति, 1995 की संस्तुति के आधार पर, राष्ट्र-पति निम्नलिखित जे. एस. ओ. को रक्षा अनुसंधान और विकास काय प्रयोगशाला, हैदराबाद में दिनांक 31 जुलाई, 1995 (प्रातः) से वैज्ञानिक "बी" के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री वाहें नरसिम्हाराव  
श्री एस. वी. सुबाह्मण्यम  
श्री एम थिरुपथि  
श्री डी विष्णू  
राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखित तारीख से तथा स्थापना में दो वर्ष की परखाधि पर अस्थाई वैज्ञानिक "बी" के पद पर :—

क्रम सं., नाम, स्थापना एवं तारीख

क. पी एस विजया एन पी ओ एल, कोच्चिन—22-09-95 (पूर्व.) ।

श्री जे गोपीनाथ जी टी आर ई, बंगलोर—30-09-93 (पूर्व.) ।

क. गीता ए जी टी आर ई, बंगलोर—23-09-94 (पूर्व.) ।

श्री एम हर्षवरमूर्ति डी आर् पी आर, दिल्ली—03-08-94 (पूर्व.) ।

क. फरास असीस अनमारी एस सी ई, इलाहाबाद—17-08-94 (पूर्व.) ।

श्री अशोक कुमार आर् आर डी ई, हैदराबाद—29-09-95 (पूर्व.) ।

श्री सुनिल सागर आर् एन एम, शिवाजी—12-09-94 (पूर्व.) ।

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखित तारीख से तथा स्थापना में दो वर्ष की परखाधि पर अस्थाई वैज्ञानिक "बी" के पद पर :—

क्रम सं., नाम, स्थापना एवं तारीख

1. क. एस भारती जी टी आर ई बंगलोर—25-03-91 (पूर्व.) ।

2. क. एन भाला एल. आर. डी. ई. बंगलोर—29-10-90 (पूर्व.) ।

श्री सन्तोष को दिनांक 25-09-92 (पूर्वदिन) से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली) में दो वर्ष की परखाधि पर अस्थाई वैज्ञानिक "बी" ("ए" श्रेणी राजपत्रित पद) पर ।

इस हमारे सम संस्थापक राजपत्र अधिसूचना के प्राक्तन दिनांक 17-12-92 को अतिक्रमित करता है ।

आर के. शर्मा

सहायक निदेशक (कार्यक-8)

(सेना शाखा)

सं. 128, दिनांक 13 फरवरी, 1996—राष्ट्रपति निम्नलिखित को महर्षि नियुक्त करने हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(2/ले. के पद पर दिनांक 10 जून 1995 से)

सत्येन्द्रा सिंह (आर् सी-53494 डब्ल्यू) ए पी ।

राकेश कुमार मिश्रा (आर् सी-53495 वाई) इंजिनियर्स ।

धीरेन्द्र सिंह सडयान (आर् सी-53496 एफ) ए सी ।

अशीश कश्यप (आर् सी-53497के) इन्फैंट्री ।

संजीव दहिया (आर् सी-53499 पी) ए सी ।

प्रशान्त सिंह कंवर (आर् सी-53500 वाई) ए सी ।

रविन्द्र पाल सिंह (आर् सी-53501 एफ) इंजिनियर्स ।

मनप्रीत सिंह दिल्ली (आर् सी-53502 के) ए सी ।

सुखदिन्द्र सिंह (आर् सी-53503 एम) मिग्स ।

अशीष वामदेवा (आर् सी-53504 पी) ई एम ई ।

प्रेम सिंह पंचान (आर् सी-53505 एक्स) आर्टी ।

नवजीत सिंह मन्ध (आर् सी-53506 ए) ए सी ।

गिरधारी नाल शर्मा (आर् सी-53507 एस) ए डी ।

विश्वेक अहलावत (आई सी-53508 एल) ए एस सी ।  
 राहुल सरोन (आई सी-53509 एन) ए ओ सी ।  
 रविन्द्र सिंह बीमा (आई सी-53510 एच) ए डी ।  
 मूनरा चन्द्रा तमंग (आई सी-53511 एल) इन्फैंट्री ।  
 कं आनन्द (आई सी-53512 एन) इन्फैंट्री ।  
 विक्रान्त पाटिल (आई सी-53514 वाई) इन्फैंट्री ।  
 आमत रावत (आई सी-53515 एफ) ई एम ई ।  
 विजेन्द्रा प्रताप सिंह यावध (आई सी-52516 के) इन्फैंट्री ।  
 नितीन मंहत्ता (आई सी-53517 एम) ई एम ई ।  
 राकेश सिंह राणा (आई सी-53518 पी) इन्फैंट्री ।  
 संजय शर्मा (आई सी-53519 एक्स) सिग्स ।  
 विश्वेक भाटरा (आई सी-53520 एम) आर्टी ।  
 संदीप सिंह साठ्ठी (आई सी-53521 पी) इंजिनियर्स ।  
 विश्वेक चौहान (आई सी-53522 एक्स) मकै ।  
 रविन्द्र कुमार चौहान (आई सी-53523 ए) इन्फैंट्री ।  
 हरजीत प्रित पाल सिंह (आई सी-53524 एच) इन्फैंट्री ।  
 दिनेश कुमार राव (आई सी-53525 एल) आर्टी ।  
 के. के. सुनील (आई सी-53526 एन) इन्फैंट्री ।  
 रिषी शर्मा (आई सी-53527 डब्ल्यू) इन्फैंट्री ।  
 योगेश कुमार गतिम (आई सी-53528 वाई) इन्फैंट्री ।  
 मनाज कुमार राय्या (आई सी-53529 एफ) इन्फैंट्री ।  
 सुखविन्द्र सिंह पालीवाल (आई सी-53530 डब्ल्यू) इन्फैंट्री ।  
 हृतेष दुग्गल (आई सी-53531 वाई) इन्फैंट्री ।  
 समीर कतवाल (आई सी-53532 एफ) इन्फैंट्री ।  
 रणजीथ जाँ (आई सी-53533 के) ई एम ई ।  
 मरुत शुक्ला (आई सी-53534 एम) आर्टी ।  
 विश्वेक मलिक (आई सी-53535 पी) ए ओ सी ।  
 अनुराग अस्थाना (आई सी-53536 एक्स) आर्टी ।  
 वैभव अग्रवाल (आई सी-53537 ए) आर्टी ।  
 रणजीत गिल (आई सी-53539 एल) आर्टी ।  
 श्री हर्षा (आई सी-53540 ए) सिग्स ।  
 तजेंद्र सिंह बाधा (आई सी-53541 एच) ए डी ।  
 दवंद्रा पांडे (आई सी-53542 एल) आर्टी ।  
 जसमिन्द्र पाल सिंह जाँहल (आई सी-53543 वाई) ए ओ सी ।  
 सनवाल शाह कालिया (आई सी-53544 डब्ल्यू) आर्टी ।

सुनील कशिक (आई सी-53545 वाई) ए ओ सी ।  
 के विक्रम पाल सिंह सम्भवाल (आई सी-53546 एफ) ई एम ई ।  
 अमन यावध (आई सी-53547 के) ए ओ सी ।  
 विनाय सिंह नेगी (आई सी-53548 एम) इन्फैंट्री ।  
 प्रवीन कुमार तिवारा (आई सी-53549 पी) ए एस सी ।  
 चंद्रा प्रकाश कांठारी (आई सी-53550 के) सिग्स ।  
 विक्रम मंहता (आई सी-53551 एम) इन्फैंट्री ।  
 तपास कुमार राय्या (आई सी-53553 एक्स) इन्फैंट्री ।  
 मनाज कुमार शर्मा (आई सी-53554 ए) आर्टी ।  
 शौनक भट्टाचाजी (आई सी-53555 एच) ए डी ।  
 अब्राहम एन (आई सी-53556 एल) आर्टी ।  
 कथिरप्पा एम एस (आई सी-53557 एन) ए एस सी ।  
 राजेश के. कृष्ण (आई सी-53558 डब्ल्यू) इंजिनियर्स ।  
 प्रविन्द्र कुमार (आई सी-53559 वाई) आर्टी ।  
 रोहित झा (आई सी-53560 एन) आर्टी ।  
 अधर आनन्द पण्डहारीनाथ (आई सी-53561 डब्ल्यू) ए एस सी ।  
 संदीप वर्मा (आई सी-53562 वाई) इन्फैंट्री ।  
 पदम देव ठाकुर (आई सी-53563 एफ) इन्फैंट्री ।  
 विनाय कुमार तिवारा (आई सी-53564 के) ई एम ई ।  
 संतोष समुल (आई सी-53565 एम) ई एम ई ।  
 गाखोर सरोर मोहन (आई सी-53566 पी) इन्फैंट्री ।  
 हर्ष वर्धन सिंह (आई सी-53567 एक्स) मकै ।  
 प्रवीन कुमार गणपत राव नामवालकर (आई सी-53568 ए) ए सी ।  
 सौरभ अरविन्द्र शिन्दे (आई सी-53569 एच) इन्फैंट्री ।  
 देवेन्द्र सिंह वर्मा (आई सी-53570 एक्स) आर्टी ।  
 अक्षय शर्मा (आई सी-53571 ए) सिग्स ।  
 दीपक साहरावत (आई सी-53572 एच) ए ओ सी ।  
 पारितोष विशु (आई सी-53573 एल) इन्फैंट्री ।  
 धर्मन्द्र कुमार तिवारी (आई सी-53574 एन) आर्टी ।  
 मुनीष शर्मा (आई सी-53575 डब्ल्यू) इन्फैंट्री ।  
 बलराज गुरंग (आई सी-53576 वाई) इन्फैंट्री ।  
 अशीष नेहरा (आई सी-53577 एफ) इन्फैंट्री ।  
 मनीष गुप्ता (आई सी-53578 के) इंजिनियर्स ।  
 अनुज लाल मनी (आई सी-53579 एम) इन्फैंट्री ।  
 प्रशान्त पांडे (आई सी-53580 एम) इन्फैंट्री ।

धर्मेश चन्द्रा (आर्. सी-53581 के) इन्फैन्ट्री ।  
 चन्दन सिंह पठानिया (आर्. सी-53582 एम) इन्फैन्ट्री ।  
 संधीष शर्मा (आर्. सी-53583 पी) आर्टी ।  
 नवनीत कांटनाला (आर्. सी-53584 एक्स) सिग्स ।  
 शंकर थपलियाल (आर्. सी-53585 ए) आर्टी ।  
 बांगेश श्रीनिवासन मुद्दालियार (आर्. सी-53586 एच) आर्टी ।  
 ब्रिजेश नारायण शुक्ला (आर्. सी-53587 एल) इन्फैन्ट्री ।  
 नवीन रेड्डी (आर्. सी-53588 एन) ए डी ।  
 निरतिन भाटिया (आर्. सी-53589 डब्ल्यू) आर्टी ।  
 एस. अन्दीयपन (आर्. सी-53590 एल) इ एम इ ।  
 संजीव खर्खिदा (आर्. सी-53591 एन) इन्फैन्ट्री ।  
 विष्णुशु गोयल (आर्. सी-53592 डब्ल्यू) इन्जिनियर्स ।  
 अरुण कुमार दाहिया (आर्. सी-53593 वाई) आर्टी ।  
 रविन्द्र खत्री (आर्. सी-53594 एफ) ए डी ।  
 मोहित सक्सेना (आर्. सी-53595 के) इन्फैन्ट्री ।  
 दीपक शर्मा (आर्. सी-53596 एम) इन्फैन्ट्री ।  
 ऋषि वियांरा (आर्. सी-53597) मैक ।  
 रविन्द्र सिंह (आर्. सी-53598 एक्स) आर्टी ।  
 अरुनी पुडौर (आर्. सी-53600 के) ए ओ सी ।  
 सुरवीकित खंडा (आर्. सी-53603 एक्स) आर्टी ।  
 पंकज धवानी (आर्. सी-53604 ए) इन्फैन्ट्री ।  
 दत्तेश सिंह (आर्. सी-53605 एच) ए एस सी ।  
 कुलदीप मंगेशा (आर्. सी-53606 एल) ए एस सी ।  
 अनुपम गड्डे (आर्. सी-53607 एन) इन्फैन्ट्री ।  
 प्रवीक (आर्. सी-53608 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री ।  
 आकाश सिंह (आर्. सी-53609 वाई) इन्फैन्ट्री ।  
 एराग भागवती (आर्. सी-53610 एन) ए एस सी ।  
 रणदीप सिंह (आर्. सी-53611 डब्ल्यू) इन्जिनियर्स ।  
 चन्द्रा देओ सिंह असवान (आर्. सी-53612 वाई) ए एस सी ।  
 अमरजीत मेहता (आर्. सी-53614 के) इन्जिनियर्स ।  
 अमन चौधरी (आर्. सी-53615 एम) इ एम इ ।  
 सनील किश्ट (आर्. सी-53616 पी) ए एस सी ।  
 अवनीष सेतू नाथ (आर्. सी-53617 एक्स) ए सी ।  
 वरुन्द्र सिंह (आर्. सी-53618 ए) इन्जिनियर्स ।  
 कुमार पराक्रम (आर्. सी-53619 एच) इ एम इ ।  
 पत्रे अविनाश दयानन्द (आर्. सी-53620 एक्स) इन्फैन्ट्री ।  
 संजय खण्डरी (आर्. सी-53621 ए) आर्टी ।

अदित्या कुमार मिश्रा (आर्. सी-53622 एच) इन्फैन्ट्री ।  
 अजय सिंह पुडौर (आर्. सी-53623 एल) इन्फैन्ट्री ।  
 अजय रतन अग्रवाल (आर्. सी-53624 एन) सिग्स ।  
 कुमार बी. एस. (आर्. सी-53625 डब्ल्यू) आर्टी ।  
 नवीन कपूर (आर्. सी-53626 वाई) सिग्स ।  
 अजय कश्यप (आर्. सी-53628 के) आर्टी ।  
 सुनील सिंह (आर्. सी-53629 एम) इन्फैन्ट्री ।  
 राजेश्वर सिंह (आर्. सी-53630 एफ) सिग्स ।  
 संदीप बाहो (आर्. सी-53631 के) ए सी ।  
 दिनेश (आर्. सी-53632 एम) इन्जिनियर्स ।  
 जसजीव सिंह बक्शी (आर्. सी-53633 पी) इन्जिनियर्स ।  
 अंशुधर दास (आर्. सी-53634 एक्स) इन्फैन्ट्री ।  
 संजीव कुमार यादव (आर्. सी-53635 ए) ए एस सी ।  
 राजन अग्निहोत्री (आर्. सी-53636 एच) आर्टी ।  
 विनय क्षेत्रपाल (आर्. सी-53637 एल) इन्जिनियर्स ।  
 रवि चन्द्रा (आर्. सी-53638 एन) इन्फैन्ट्री ।  
 प्रकाश सिंह राणा (आर्. सी-53639 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री ।  
 कृपा पठानिया (आर्. सी-53641 एन) ए एस सी ।  
 मूकूल गुप्ता (आर्. सी-53642 डब्ल्यू) इ एम इ ।  
 मराठे हितेंद्रा उत्तमगाव (आर्. सी-53643 वाई) इन्फैन्ट्री ।  
 राजेश कुमार वर्मा (आर्. सी-53644 एफ) ए ओ सी ।  
 शफी शंख (आर्. सी-53645 के) आर्टी ।  
 समुता मुखर्जी (आर्. सी-53646 एम) आर्टी ।  
 कुलभूपण भारद्वाज (आर्. सी-53647 पी) आर्टी ।  
 विक्रम महन्दीरला (आर्. सी-53648 एक्स) इ एम इ ।  
 नवनीत डायर (आर्. सी-53649 ए) ए सी ।  
 विशाल सिंह राखेर (आर्. सी-53650 पी) मैक ।  
 कौशिक गोमनाथी (आर्. सी-53651 एक्स) इन्फैन्ट्री ।  
 अरविन्द्र कुमार धीमरी (आर्. सी-53652 ए) इन्फैन्ट्री ।  
 गी. एच. शिवा बंकर (आर्. सी-53653 एच) सिग्स ।  
 समण कुमार (आर्. सी-53655 ए) मैक ।  
 परमिन्द्र सिंह मरवाह (आर्. सी-53656 डब्ल्यू) ए एस सी ।  
 नीलेश आनन्द पाण्डेय (आर्. सी-53657 वाई) इन्फैन्ट्री ।  
 राजेंद्र डोगेरा (आर्. सी-53658 एफ) ए एस सी ।  
 मृत्युंजय कुमार (आर्. सी-53660 वाई) ए ओ सी ।  
 हर्षेन सज्जद परशेज अफजल (आर्. सी-53661 एफ) आर्टी ।  
 संजय मंदिल (आर्. सी-53662 के) ए सी ।

- प्रशान्त महाजन (आई सी-53663 एम) ई एम ई ।  
 नगेंद्र शर्मा (आई सी-53675 एफ) सिम्स ।  
 अतुल कुमार सिंह (आई सी-53665एक्स) ई एम ई ।  
 उरूण भट्ट (आई सी-53666ए) इजीनियर्स ।  
 राजगुरु जयन्त जनार्दन (आई सी-53668एल) आर्टी ।  
 नाथ नीरेन्द्रा विरेन्द्रा (आई सी-53670एन) इन्फैन्ट्री ।  
 योगेन्द्रा दूहन (आई सी-53671एल) इन्फैन्ट्री ।  
 भास्कर चक्रवर्ती (आई सी-53672एन) इन्फैन्ट्री ।  
 जी श्रीधर रेड्डी (आई सी-53674आई) आर्टी ।  
 नागेंद्र शर्मा (आई सी-53675एफ) सिम्स ।  
 मंगोज भधुकर दोसघाण्डे (आई सी-53677एफ) इन्फैन्ट्री ।  
 संदीप गुलिया (आई सी-53678पी) ए एस सी ।  
 वारय नोटियल (आई सी-53679एक्स) इन्फैन्ट्री ।  
 राजेश खुराना (आई सी-53680एम) इन्फैन्ट्री ।  
 राकेश मोहन (आई सी-53681पी) ए सी ।  
 कृष्ण एन (आई सी-53682एक्स) इजीनियर्स ।  
 सत्यवीर सिंह (आई सी-53683ए) आर्टी ।  
 रोहित दास (आई सी-53685एल) ए डी ।  
 शिवके शर्मा (आई सी-53686एन) मैक ।  
 देसाई विक्रान्त अविभाषा (आई सी-53687 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री ।  
 ऋषि मोहन नंगी (आई सी-53688आई) इन्फैन्ट्री ।  
 वारवाटकर सत्यजीत लक्ष्मण (आई सी-53689एफ) ई एम ई ।  
 प्रमनाथ पाण्डे (आई सी-53690डब्ल्यू) ए आ सी ।  
 पराग मुखर्जी (आई सी-53691आई) इन्फैन्ट्री ।  
 अनूप कुमार गाजान बारबरे (आई सी-53692एफ) आर्टी ।  
 अनजय सिंह (आई सी-53693के) इन्फैन्ट्री ।  
 अनुभव राज (आई सी-53694एम) आर्टी ।  
 एम रवि शंकर (आई सी-53695 पी) इन्फैन्ट्री ।  
 नीरज सिंह (आई सी-53696एक्स) आर्टी ।  
 अभिलेश शक्ला (आई सी-53698एच) ए एम सी ।  
 सनील प्रसाद (आई सी-53699एल) ए डी ।  
 कुलदीप सिंह (आई सी-53700पी) ई एम ई ।  
 जोनी फिलिप (आई सी-53702 ए) आर्टी ।  
 अन्ज जैन (आई सी-53703एच) इन्फैन्ट्री ।  
 विरज बी. कामथ (आई सी-53704एल) आर्टी ।  
 अभिजीत अशोक कुमार नैयर (आई सी-53705एन) मैक ।  
 सुराजीत बांस (आई सी-53706 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री ।  
 राबी टॉम (आई सी-53707आई) ए डी ।  
 संजय जी (आई सी-53708एफ) इन्फैन्ट्री ।  
 नावा कुमार चक्रवर्ती (आई सी-53709के) इन्फैन्ट्री ।  
 संदीप शर्मा (आई सी-53710आई) ए ओ सी ।  
 वाई विजय कुमार (आई सी-53711एफ) इन्फैन्ट्री ।  
 करन साजुरिया (आई सी-53712के) ए सी ।  
 गरीब चौधरी (आई सी-53713एम) ई एम ई ।  
 सुनील ए. (आई सी-53714पी) आर्टी ।  
 रविन्द्र सिंह उडवाल (आई सी-53715एक्स) आर्टी ।  
 रमेश बी. पी. (आई सी-53717एच) ई एम ई ।  
 राजेंद्र सिंह (आई सी-53718एल) ए ओ सी ।  
 पुरानिक अमोच सुरेश (आई सी-53720 एच) सिम्स ।  
 जयदीप चन्ना (आई सी-53721एल) इन्फैन्ट्री ।  
 अनिल कुमार यादव (आई सी-53722 एन) आर्टी ।  
 रमण शर्मा (आई सी-53723 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री ।  
 अनिरुद्ध प्रसाद (आई सी-53725एफ) ए डी ।  
 हिमांशु पासडाला (आई सी-53726 के) इजीनियर्स ।  
 राकेश कुमार झा (आई सी-53728पी) इन्फैन्ट्री ।  
 राजेंद्र पाल सिंह (आई सी-53729एक्स) इजीनियर्स ।  
 दिवक गुप्ता (आई सी-53730एम) ए ओ सी ।  
 प्रशान्त कुमार (आई सी-53781 पी) इन्फैन्ट्री ।  
 धर्मपाल (आई सी-53734एस) ए डी ।  
 मनुज मजूमवार (आई सी-53735एल) इन्फैन्ट्री ।  
 अलोक कुमार सिंह (आई सी-53736एन) आर्टी ।  
 संसदीर (आई सी-53737डब्ल्यू) ई एम ई ।  
 इमरान, मौसावी (आई सी-53738आई) इन्फैन्ट्री ।  
 राउण कुमार (आई सी-53739एक्स) ए डी ।  
 चण्डेक राजीव भांडन (आई सी-53740 डब्ल्यू) ए आ सी ।  
 पंकज बनीवाल (आई सी-53741आई) आर्टी ।  
 रघुराज सिंह (आई सी-53742 एफ) ए एम सी ।  
 कमल किशोर मिश्रा (आई सी-53743के) इन्फैन्ट्री ।  
 अरविन्द्र मोहन सिंह (आई सी-53744 एम) आर्टी ।  
 अमीत मेह (आई सी-53745पी) आर्टी ।  
 नीरज सिंह (आई सी-53747ए) इन्फैन्ट्री ।  
 कुबाल किशोर (आई सी-53748एच) आर्टी ।  
 उरूण एस. मैनन (आई सी-53750ए) इजीनियर्स ।

- रवि कुमार सैनी (आई सी-53751एच) इन्फैन्ट्री ।  
 राजन कुमार राजन (आई सी-53752एल) ए एस सी ।  
 समीर चौधरी (आई सी-53753एन) इन्फैन्ट्री ।  
 प्रभासाजन सिंह संधु (आई सी-53754डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री ।  
 अभिनव डायरा (आई सी-53755वाई) आर्टी ।  
 वरुन्द्र यादव (आई सी-53756एफ) आर्टी ।  
 एस. अदिन्या (आई सी-53757के) मंक ।  
 परुषा गोसाई (आई सी-53758एम) इन्फैन्ट्री ।  
 सचिन सुब्रह्मण्य (आई सी-53759पी) ए एस सी ।  
 अशोक पुनिया (आई सी-53760के) ए डी ।  
 अमित श्रीवास्तव (आई सी-53761एम) आर्टी ।  
 सुनील के. जकारिया (आई सी-53762पी) ई एम ई ।  
 पंकज सक्सेना (आई सी-53763एक्स) ए एस सी ।  
 आर. श्रीनिवासन (आई सी-53764ए) ए डी ।  
 एम. ए. राजमनर (आई सी-53765एच) आर्टी ।  
 अवि चन्द्र सूद (आई सी-53767एन) ई एम ई ।  
 नवीन सिंह (आई सी-53768डब्ल्यू) आर्टी ।  
 इन्द्रशंकर माधुर (आई सी-53770डब्ल्यू) आर्टी ।  
 राजेश कुमार (आई सी-53771डब्ल्यू) ए एस सी ।  
 राहुल सुदेश बानी (आई सी-53772वाई) इन्फैन्ट्री ।  
 एस. सुमीर कुमार (आई सी-53773एफ) ए एस सी ।  
 संदीप बत्रा (आई सी-53775एम) इन्फैन्ट्री ।  
 भलेन्द्रा गोबर (आई सी-53776पी) इंजीनियरी ।  
 नंदन बोरा (आई सी-53777एक्स) इंजीनियरी ।  
 गुणपाल सिंह (आई सी-53778ए) इन्फैन्ट्री ।  
 कर्पल जयसवाल (आई सी-53780एक्स) सिग्नल ।  
 अमितभ कुमार (आई सी-53783 एल) ए सी ।  
 विशाल सिंह गालीवाल (आई सी-53784एन) सिग्नल ।  
 मानक शर्मा (आई सी-53785डब्ल्यू) ई एम ई ।  
 कौशिक ठाकुर (आई सी-53786वाई) इन्फैन्ट्री ।  
 वी. सुब्रह्मण्य (आई सी-53787एच) ए एस सी ।  
 मकसूद अली खान एम. हजीर (आई सी-53789एम) आर्टी ।  
 शंकर यादव (आई सी-53790एफ) ई एम ई ।  
 एस. श्रीनिवासा श्रीराम (आई सी-53791के) ई एम ई ।  
 अरुण धर्माचार्य (आई सी-53792एम) आर्टी ।  
 योगेश बत्रा (आई सी-53793पी) आर्टी ।  
 कौशल दार (आई सी-53794एक्स) आर्टी ।  
 वारुण बलेंद्रा राज कुमार (आई सी-53795ए) मंक ।  
 वेंकटेश मिश्रा (आई सी-53797एल) ए डी ।  
 कोका सजय (आई सी-53798एन) सिग्नल ।  
 राजीव सहान (आई सी-53800ए) सिग्नल ।  
 जियंत जोशी (आई सी-53801एच) ए सी ।  
 माकम करण कुमार (आई सी-53802एल) सिग्नल ।  
 ए.ए. चन्ना उपाध्याय (आई सी-53803एन) आर्टी ।  
 परमजीत सिंह (आई सी-53804डब्ल्यू) ए एस सी ।  
 अलाक विमलेश मिश्रा (आई सी-53805वाई) ई एम ई ।  
 कुमार मनाज सिंह (आई सी-53806एफ) इन्फैन्ट्री ।  
 संदीप धर (आई सी-53807के) इंजीनियरी ।  
 राजेश सिंह जसराजिया (आई सी-53809पी) आर्टी ।  
 मलिक बंस (आई सी-53810के) इन्फैन्ट्री ।  
 संजीव सिंह (आई सी-53812पी) इंजीनियरी ।  
 राजीव भवन (आई सी-53814ए) आर्टी ।  
 सुनील नाथर (आई सी-53815एच) ए डी ।  
 जेम्स थामस (आई सी-53818डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री ।  
 बलेंद्रा सिंह (आई सी-53819वाई) इन्फैन्ट्री ।  
 शशांक कौशल (आई सी-53820एन) मंक ।  
 संदीप माथर (आई सी-53821डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री ।  
 कुलकर्णी पराग प्रफूला (आई सी-53822वाई) आर्टी ।  
 अशोक कुमार सिंह (आई सी-53823एच) आर्टी ।  
 मिल्टन प्रसादी (आई सी-53824के) इंजीनियरी ।  
 मुनीष बहुगुण (आई सी-53825एम) ।  
 शशी कान्त शर्मा (आई सी-53826पी) ए सी ।  
 अरविन्द रावत (आई सी-53828ए) इन्फैन्ट्री ।  
 उषय प्रताप (आई सी-53830एक्स) ए एस सी ।  
 संजय कटहार (आई सी-53831ए) आर्टी ।  
 मनीष शर्मा (आई सी-53832एच) इन्फैन्ट्री ।  
 एम. पी. दिनेश (आई सी-53833एन) इन्फैन्ट्री ।  
 जंतराकर सिंह (आई सी-53835डब्ल्यू) ए सी ।  
 गोपाल मिश्रा (आई सी-53836वाई) इन्फैन्ट्री ।  
 विक्रान्त परमार (आई सी-53837एफ) इन्फैन्ट्री ।  
 ललित कुमार जाशी (आई सी-53838के) इन्फैन्ट्री ।  
 सुरेंद्र सिंह (आई सी-53839एम) ए एस सी ।

रविन्द्र सिंह सन्धु (आई सी-53840एफ) ई एम ई ।	इन्द्र मनीष (आई सी-53853आई) ए सी ।
संदीप सिंह सिधू (आई सी-53841के) ए एस सी ।	सत्येन्द्रा त्रिपाठी (आई सी-53854एफ) इन्फैन्ट्री ।
महेश हरेमन्त विरणा (आई सी-53842एम) ए सी ।	रजनीश किशोर (आई सी-53855के) सिग्स ।
जेफीरिन गिलवर्ट अरनेहा (आई सी-53843पी) इंजी- नियर्स ।	गोली श्रीनिवासन पहाणी राज (आई सी-53857पी) ई एम ई ।
एस. चन्द्राशेखर (आई सी-53844एक्स) इन्फैन्ट्री ।	अनील बोस एस. (आई सी-53858एक्स) इन्फैन्ट्री ।
मकुल वर्मा (आई सी-53845ए) सिग्स ।	रितामरता गुप्ता (आई सी-53859ए) इन्फैन्ट्री ।
सुमन घोष (आई सी-53846एच) आर्टी ।	विक्रान्त दास अधिकारी (आई सी-53860पी) इन्फैन्ट्री ।
जितेन्द्र मोहन शर्मा (आई सी-53847एल) आर्टी ।	हर्षवर्धन (आई सी-53862ए) ए सी ।
संदीप सिंह गिल (आई सी-53848एन) इन्फैन्ट्री ।	संदीप मूण्डरा (आई सी-53863एच) आर्टी ।
अश्विनाश सिंघल (आई सी-53849डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री ।	
कवेल जीत सिंह (आई सी-53850एल) इन्फैन्ट्री ।	वी. एन. प्रसाद ले कर्नल ए एम एम 8वी
आनंद शूक्ला (आई सी-53851एन) इंजीनियर्स ।	

सं० 129 दिनांक 5 फरवरी, 1996--राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :-

नियुक्ति सेना  
स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उनका/उनके 09 मार्च 95 अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिए तारीख 8 नवम्बर, 1990 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 9 मार्च, 1990 से वरिष्ठता के साथ सैकिड लैफ्टिनेंट के रैंक में तारीख 9 मार्च, 1995 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन दिया जाएगा उसकी/उनकी परस्पर वरिष्ठता वहीं रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी। उसकी/उनकी वरिष्ठता के अनुसार उसकी/उनकी दिनांक 9 मार्च, 1995 से लैफ्टिनेंट के रैंक में दिनांक 8 नवम्बर, 1992 से वरिष्ठता सहित पदोन्नति की जाती है।

1. एस० एस०-34411, (आई० सी०-46616 एम), धीरेन्द्र नाथ राय, इन्फैन्ट्री ।

राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :-

नियुक्ति सेना  
स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उनका/उनके 25 अगस्त, 1995 अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिए दिनांक 23 अप्रैल, 1991 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए दिनांक 25 अगस्त, 1990 से वरिष्ठता के साथ सैकिड लैफ्टिनेंट के रैंक में दिनांक 25 अगस्त, 1995 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन दिया जाएगा उसकी/उनकी परस्पर वरिष्ठता वहीं रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी। उसकी/उनकी वरिष्ठता के अनुसार उसकी/उनकी दिनांक 25 अगस्त, 1995 से लैफ्टिनेंट के रैंक में दिनांक 23 अप्रैल, 1993 से वरिष्ठता सहित पदोन्नति की जाती है।

सं०	व्यक्तिगत नम्बर	अथ व्यक्तिगत नम्बर	नाम	आर्मे/सर्विस
1	2	3	4	5
1.	एस० एस०-34519	आई० सी०-46678 एम	नरेन्द्रा कुमार तेषतिया	ए० सी०
2.	एस० एस०-34520	आई० सी०-46679 जी	भानु प्रताप सिंह	ए० सी०
3.	एस० एस०-34521	आई० सी०-46680 के	गोरख भाटिया	ए० सी०

1	2	3	4	5
4	एस० एस०-34522	आई० सी०-46681 एस	अनुप सिंह गिल	आई०सी०
5	एस० एस०-34525	आई० सी०-46683 एस	मनमोहन गाँवाँ कोले	एस० डी०/आई०सी०
6	एस० एस०-34526	आई० सी०-46684 ए	जितेन्द्र भाकर	एस० एस० सी०
7	एस० एस०-34527	आई० सी०-46685 एच	मा० सा०	इन्फैन्ट्री
8	एस० एस०-34528	46686 एन	रितेश अग्रवाल	एस० एस० सी०
9	एस० एस०-34533	आई० सी०-46687 एन	संजय कुमार सिंह	ई० एस० ई०
10	एस० एस०-34534	आई० सी०-46688 डब्ल्यू	भूपेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
11	एस० एस०-34535	आई० सी०-46689 वाई	विक्रम सिंह थापा	आई०सी०
12	एस० एस०-34536	आई० सी०-46690 एन	राजीव कुमार	एस०/इन्फैन्ट्री
13	एस० एस०-34538	आई० सी०-46691 डब्ल्यू	संजय शोनाये	इन्फैन्ट्री
14	एस० एस०-34540	आई० सी०-46693 एफ	अतुल वाली	इन्फैन्ट्री
15	एस० एस०-34541	आई० सी०-46694 के	राज सिंह बिष्टनोई	इन्फैन्ट्री
16	एस० एस०-34544	आई० सी०-46696 पी	भारत जोशी	एस० सी०
17	एस० एस०-34545	आई० सी०-46697 एक्स	अहल तान्धरा	एस० एस० सी०
18	एस० एस०-34549	आई० सी०-46699 एच	राजेन्द्र कुमार शर्मा	आई०सी०
19	एस० एस०-34550	आई० सी०-46700 एस	एस० सोध	सिगनल्स
20	एस० एस०-34551	आई० सी०-46701 पी	वी० हरिहरण	इन्फैन्ट्री
21	एस० एस०-34552	आई० सी०-46702 एक्स	संजय राजेंद्र	इन्फैन्ट्री
22	एस० एस०-34555	आई० सी०-46703 ए	शामिरुल इस्लाम	आई०सी०
23	एस० एस०-34557	आई० सी०-46705 एल	उदय कुमार	इन्फैन्ट्री
24	एस० एस०-34558	आई० सी०-46706 एन	अनछलेश शंकर	आई०सी०
35	एस० एस०-34559	आई० सी०-46707 डब्ल्यू	हितेन्द्र कुमार	ई० एस० ई०
26	एस० एस०-34560	आई० सी०-46708 वाई	भूपेन्द्रा रेखा	एडी०/आई०सी०
27	एस० एस०-34561	आई० सी०-46709 ए	अमित शर्मा	आई०सी०
28	एस० एस०-34563	आई० सी०-46710 डब्ल्यू	शरत कुमार झा	इन्फैन्ट्री
29	एस० एस०-34565	आई० सी०-46712 एफ	परिगन्धर सिंह	आई०सी०
30	एस० एस०-34568	आई० सी०-46715 पी	विमल जिधू	एस० ओ० सी०
31	एस० एस०-34569	आई० सी०-46716 एक्स	रोहित शर्मा	इन्फैन्ट्री
32	एस० एस०-34570	आई० सी०-46717 ए	सुमित दुग्गल	इन्फैन्ट्री
33	एस० एस०-34572	आई० सी०-46718 एच	मनोज कोशिक	जैंग
34	एस० एस०-34573	आई० सी०-46719 एल	ललितयादव	इन्फैन्ट्री
35	एस० एस०-34575	आई० सी०-46720 ए	प्रदीप सागवान	इन्फैन्ट्री
36	एस० एस०-34576	आई० सी०-46721 एच	अमनपाल सिंह	ई० एस० ई०
37	एस० एस०-34577	आई० सी०-46722 एल	बसवराज गंडगई	एस० एस० सी०
38	एस० एस०-34578	आई० सी०-46723 एन	हरवीर सिंह	इन्फैन्ट्री
39	एस० एस०-34579	आई० सी०-46724 डब्ल्यू	रावजीत कुमार लाम्बा	इन्फैन्ट्री
40	एस० एस०-34580	आई० सी०-46725 वाई	के० आर शिवारमन	एस० एस० सी०
41	एस० एस०-34581	आई० सी०-46726 एफ	जा० श्रीनिवास	आई०सी०
42	एस० एस०-34582	आई० सी०-46727 के	वर्गीश अहमद	इन्फैन्ट्री



1	2	3	4	5
43.	एस० एम०-34586	आई० सी०-46728 एम	श्री कुमार	ए०डी०/आई०
44.	एस० एम०-34587	आई० सी०-46729 पी	हिम्मत सिंह अलख	इन्फैन्ट्री
45.	एस० एम०-34588	आई० सी०-46730 के	असप्रीत सिंह शेखोन	ए० सी०
46.	एस० एम०-34589	आई० सी०-46731 एम	विवेक जसवाल	आर्टिलरी
47.	एस० एम०-34590	आई० सी०-46732 पी	नीरज गुप्ता	इन्फैन्ट्री
48.	एस० एम०-34591	आई० सी०-46733 एम	श्री० राजे शंकर	आई०
49.	एस० एम०-34592	आई० सी०-46734 ए	विकास जोशी	इन्फैन्ट्री
50.	एस० एम०-34594	आई० सी०-46735 एन	श्रीराम कुमार सिंह	ए० एम० सी०
51.	एस० एम०-34595	आई० सी०-46736 एल	नरूप कुमार सिंगल	ए० एम० सी०
52.	एस० एम०-34596	आई० सी०-46737 एम	राम पाल साव	ए०डी०/आई०
53.	एस० एम०-34597	आई० सी०-46738 डब्ल्यू	रामेन्द्र सिंह पारिख	ए० एम० सी०
54.	एस० एम०-34598	आई० सी०-46739 वाई	नीरज शौर	ए० ओ० सी०
55.	एस० एम०-34599	आई० सी०-46740 एन	रामेन्द्र नाथ स्काट	ए० ओ० सी०
56.	एस० एम०-34600	आई० सी०-46741 डब्ल्यू	हरकिशोर सिंह द्विवेदी	आई०
57.	एस० एम०-34601	आई० सी०-46742 वाई	आनन्द सिंह	इन्फैन्ट्री
58.	एस० एम०-34602	आई० सी०-46743 एफ	लक्ष्मण भूतिभा	इन्फैन्ट्री
59.	एस० एम०-34603	आई० सी०-46744 के	त्रिलोक गुप्ता	आई०
60.	एस० एम०-34604	आई० सी०-46745 एम	संदीप त्यागी	ए०डी०/आई०
61.	एस० एम०-34605	आई० सी०-46746 पी	एस० एम० अन्ध	इन्फैन्ट्री
62.	एस० एम०-34606	आई० सी०-46747 एम	राम कुमार सेन	ए० ओ० सी०
63.	एस० एम०-34609	आई० सी०-46748 ए	सचिन त्यागी	एम० इन्फैन्ट्री
64.	एस० एम०-34611	आई० सी०-46750 एम	अनील साहनी	ए० ओ० सी०
65.	एस० एम०-34612	आई० सी०-46751 ए	राजा दत्ता	आई०
66.	एस० एम०-34614	आई० सी०-46752 एन	किशोर सिंह	ए० एम० सी०
67.	एस० एम०-34615	आई० सी०-46753 एल	अनुप कुमार	इन्फैन्ट्री
68.	एस० एम०-34616	आई० सी०-46754 एन	भास्कर बेनर्जी	ई० एम० ई०
69.	एस० एम०-34617	आई० सी०-46755 डब्ल्यू	माभिनंदर सिंह मिश्र	आई०
70.	एस० एम०-34618	आई० सी०-46756 वाई	संदीप त्रिपाठी	ए०डी०/आई०
71.	एस० एम०-34619	आई० सी०-46757 एफ	एस० एम० शेरगिल	ए० सी०
72.	एस० एम०-34621	आई० सी०-46758 के	कनवर दिग्विजय सिंह	ए० सी०
73.	एस० एम०-34622	आई० सी०-46759 एम	अशोक बी० सी०	आई०
74.	एस० एम०-34623	आई० सी०-46760 एफ	जगदीप सिंह	आई०
75.	एस० एम०-34625	आई० सी०-46761 के	दीपक शर्मा	इन्फैन्ट्री
76.	एस० एम०-34626	आई० सी०-46762 एम	एच० पी० सिंह	इन्फैन्ट्री
77.	एस० एम०-34627	आई० सी०-46763 पी	परपोतम सिंह भिडर	ए० एम० सी०
78.	एस० एम०-34631	आई० सी०-46764 एम	अमन यादव	आई०
78.	एस० एम०-34632	आई० सी०-46765 ए	प्रताप सिंह शर्मा	ए० एम० सी०
80.	एस० एम०-34634	आई० सी०-46766 एन	द्विधा ज्योती ब्राह्म	इन्फैन्ट्री
81.	एस० एम०-34635	आई० सी०-46767 एन	विक्रम सिंह	ई० एम० ई०
82.	एस० एम०-34636	आई० सी०-46768 एन	साधेन्द्रा प्रताप	इन्फैन्ट्री

1	2	3	4	5
83.	एस० एस०-34637	आई० सी०-46769 डब्ल्यू	अज्ञात अशोक देशपांडे	ए० ओ० सी०
84.	एस० एस०-34638	आई० सी०-46770 एल	नवदीप सिंह मुलतानी	आई०
85.	एस० एस०-34641	आई० सी०-46771 एन	क्रीतिमन गौतम मोहनजे	इन्फैन्ट्री
86.	एस० एस०-34643	आई० सी०-46772 डब्ल्यू	मधु के०	इन्फैन्ट्री
87.	एस० एस०-34645	आई० सी०-46773 आई	मनीष जी	अ टी०
88.	एस० एस०-34646	आई० सी०-46774 एफ	मनीष प्रसाद	आई०
89.	एस० एस०-34648	आई० सी०-46775 के	दलजीत सिंह खानना	ए० एस० सी०
90.	एस० एस०-34650	आई० सी०-46776 एम	संजय मानी प्रधान	इन्फैन्ट्री
91.	एस० एस०-34652	आई० सी०-46777 पी	हरदस अमेन्द्रा अरविंद	आई०
92.	एस० एस०-34653	आई० सी०-46778 एक्स	एम० रविन्द्रन	ए० एस० सी०
93.	एस० एस०-34654	आई० सी०-46779 ए	श्यामशूल सिद्धिकी	आई०
94.	एस० एस०-34656	आई० सी०-46780 पी	पंकज प्रीत सिंह	अं टिलरी
95.	एस० एस०-34657	आई० सी०-46781 एक्स	प्रियोजित राय	ए० एस० सी०
96.	एस० एस०-34658	आई० सी०-46782 ए	मनी पांडे	ई० एम० ई०
97.	एस० एस०-34659	आई० सी०-46783 एच	मोहिन्द्र प्रताप सिंह	आई०
98.	एस० एस०-34660	आई० सी०-46784 एल	सुधीर गुप्ता	ए० एस० सी०
99.	एस० एस०-34661	आई० सी०-46785 एन	संजय बहल	आई०
100.	एस० एस०-34665	आई० सी०-46789 के	रवीश वेद	ए० एस० सी०
101.	एस० एस०-34670	आई० सी०-46791 एफ	कर्मवीर सिंह डेवा	आई०
102.	एस० एस०-34671	आई० सी०-46792 के	संदीप विनायक	ए० ओ० सी०
103.	एस० एस०-34672	आई० सी०-46793 एम	असीम पी० राय	इन्फैन्ट्री
104.	एस० एस०-34673	आई० सी०-46794 पी	रवि राज तिमोती	इन्फैन्ट्री
105.	एस० एस०-34674	आई० सी०-46795 एक्स	जगदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
106.	एस० एस०-34675	आई० सी०-46796 ए	अशीष भटनागर	ए० ओ० सी०
107.	एस० एस०-34676	आई० सी०-46797 एच	अरुण पृष्करणा	ए० एस० सी०
108.	एस० एस०-34677	आई० सी०-46798 एल	राजेन्द्रा कुमार	इन्फैन्ट्री
109.	एस० एस०-34679	आई० सी०-46799 एन	रुशनौल सिंह चहल	इन्फैन्ट्री
110.	एस० एस०-34680	आई० सी०-46800 एक्स	मुनील थदथ	आई०
111.	एस० एस०-34681	आई० सी०-46801 ए	लव मोहन जोशी	इन्फैन्ट्री
112.	एस० एस०-34683	आई० सी०-46803 एल	उमंग निगम	ए० एस० सी०
113.	एस० एस०-34686	आई० सी०-46805 डब्ल्यू	मनीष कुमार शर्मा	आई०
114.	एस० एस०-34687	आई० सी०-46806 आई	पंकज शर्मा	आई०
115.	एस० एस०-34689	आई० सी०-46807 एफ	शिद्धार्थ तोमर	ए० ओ० सी०
116.	एस० एस०-34690	आई० सी०-46808 के	अमय एस० कटवाल	आई०
117.	एस० एस०-34691	आई० सी०-46809 एम	शशांक रंजन	इन्फैन्ट्री

1	2	3	4	5
118.	एम० एम०-34693	अ.ई० सी०-46810 एफ	डेनिस डिवाज	आर्टी०
119.	एम० एम०-34694	आई० सी०-46811 के	विनोद सिंह राणा	ए० ओ० सी०
120.	एम० एम०-34698	अ.ई० सी०-46812 एम	हर्ष वी० छिब्वर	इन्फैन्ट्री
121.	एम० एम०-34699	अ.ई० सी०-46813 पी	अनोक शंकर	ए० एम० सी०
122.	एम० एम०-34701	अ.ई० सी०-46815 ए	सुवीर चन्द छिब्वर	ए० सी०
123.	एम० एम०-34702	अ.ई० सी०-46816 एच	फेडी एच० मर्चेन्ट	इन्फैन्ट्री
124.	एम० एम०-34704	अ.ई० सी०-46818 एन	शरद निगम	ई० एम० ई०
125.	एम० एम०-34705	अ.ई० सी०-46819 डब्ल्यू	गुरविन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
126.	एम० एम०-34706	अ.ई० सी०-46820 एल	इन्द्रजीत सिंह	मिन्तल्स
127.	एम० एम०-34709	अ.ई० सी०-46823 अ.ई	डियोटेज दुग्धंत मानिक	ए० एम० सी०
128.	एम० एम०-34710	अ.ई० सी०-46824 एफ	ई० पी० संजीव	इन्फैन्ट्री
129.	एम० एम०-34711	अ.ई० सी०-46825 के	संकेत सक्सेना	इन्फैन्ट्री
130.	एम० एम०-34712	अ.ई० सी०-46826 एम	नरेश	ए० एम० सी०
131.	एम० एम०-34715	अ.ई० सी०-46827 पी	तारा रंजन बेरा	ए० ओ० सी०
132.	एम० एम०-34717	अ.ई० सी०-46828 एकल	सौरभ मिश्रा	ए० एम० सी०
133.	एम० एम०-34721	अ.ई० सी०-46830 पी	भास्कर चन्द्रा पांडे	ई० एम० ई०
134.	एम० एम०-34723	आई० सी०-46831 एकल	राजीव भारद्वाज	ए० एम० सी०
135.	एम० एम०-34724	अ.ई० सी०-46832 ए	अनुर र. मदासानी	इन्फैन्ट्री
136.	एम० एम०-34725	अ.ई० सी०-46833 एच	क. मात राजीव मुग्गेश	आर्टी०
137.	एम० एम०-34726	अ.ई० सी०-46834 एल	वी० आनिवास	ए० सी०
138.	एम० एम०-34729	अ.ई० सी०-46837 व.ई	जेहू रूज हसन म रूग्गाद	इन्फैन्ट्री
139.	एम० एम०-34731	अ.ई० सी०-46838 एफ	कौशिक नन्दी	इन्फैन्ट्री
140.	एम० एम०-34732	अ.ई० सी०-46839 के	अजय शर्मा	आर्टी०
141.	एम० एम०-34733	अ.ई० सी०-46840 व.ई	मितेश चन्द्र भंडारगर	जैंग
142.	एम० एम०-34736	अ.ई० सी०-46842 के	अमित भार्गवा	ए० डी०/आर्टी०
143.	एम० एम०-34737	अ.ई० सी०-46843 एम	तुहित कुमार पाल	आर्टी०
144.	एम० एम०-34564	आई० सी०-46711 वाई	रविन्द्र सिंह	ए० एम० सी०
145.	एम० एम०-34663	आई० सी०-46787 वाई	मोहम्मद सजोम गाडे	आर्टी०
146.	एम० एम०-34720	अ.ई० सी०-46829 ए	बनर्जी सजोय गौड	इन्जीनियर
147.	एम० एम०-34523	अ.ई० सी०-46682 पी	हरदीप सिंह डांडा	आर्टी०
148.	एम० एम०-34547	आई० सी०-46698 ए	वी० गणपति	इन्फैन्ट्री
149.	एम० एम०-34567	आई० सी०-46714 एम	अजय कुमार झा	ए० एम० सी०
150.	एम० एम०-34610	आई० सी०-46749 एच	बीरेन्द्र पाल सिंह	इन्फैन्ट्री
151.	एम० एम०-34707	आई० सी०-46821 एन	राज कुमार कपिल	आर्टी०
152.	एम० एम०-34728	अ.ई० सी०-46836 डब्ल्यू	अरुण महाजन	एम०/इन्फैन्ट्री

पी० के० रामपाल  
कर्नल  
कर्नल एम० एम०-7

## सेना शाखा

सं. 130, दिनांक 31 जनवरी 1996—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम. जी. ओ. शाखा के आर्गुलिपिक ग्रेड सी (पी. ए.) को उनके नाम के आगे दो गयी गयी गयी गयी गयी गयी आर्गुलिपिक सेवा के आर्गुलिपिक ग्रेड बी (पी. एस.) में अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। ये नियुक्तियाँ 30-9-1995 तक की अवधि के लिए या चयन सूची से व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अस्थाई नियुक्तियाँ हैं :—

1. कुमारी उमा अरोरा—01-8-95
2. श्रीमती दिलबीर कौर—01-8-95

उपरोक्त पी. एस पूर्ण रूप से अस्थाई आधार पर हैं। और इन्हें बिना नोटिस दिए प्रशासनिक कारणों के परावर्तन किया जा सकता है।

रंभू के. राव  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

## सेना शाखा

(सैनिक अभियंता सेवाएं)

सं. 131, दिनांक 2 फरवरी 1996—राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 को उनके नामों के सामने लिखी तारीखों से अगले आदेशों तक "प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1" के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

- (क) एमईएस-305365 श्री मंगूक चन्द—29 अप्रैल 94 (पूर्वाह्न)।
- (ख) एमईएस-304028 श्री गुरदव सिंह—26 अगस्त 94 (पूर्वाह्न)।
- (ग) एमईएस-180501 श्री बी. बालचन्द्रन—11 मार्च 94 (पूर्वाह्न)।
- (घ) एमईएस-8464786 श्री प्रेम कुमार भाटिया—06 दिसम्बर 95 (पूर्वाह्न)।
- (च) एमईएस-302828 श्री मंजीव पंवार—06 दिसम्बर 95 (पूर्वाह्न)।

रीता चंटेजी  
अवर सचिव

## वायु सेना मुख्यालय

सं. 132, दिनांक 2 फरवरी 1996—राष्ट्रपति, श्री मनोहर लाल खट्वाड़क महाराज को सशस्त्र सेना मुख्यालय आर्गुलिपिक सेवा में अस्थाई आधार पर निजी सचिव के पद पर दिनांक 01 जनवरी 96 से 31 मार्च 96 तक या जब तक सर्वोच्च निवेदन से प्रेषित उपलब्ध हो जो भी पहले हो पदोन्नति की जाती है।

रंभू के. राव  
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## वायु शाखा

सं. 133, तारीख 9 फरवरी 1996—राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से म्/एस. 18731/16/इंजिन/1285/यू एम/डी (एयर 3) तारीख 29 अक्टूबर 91 के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित की उड़ान (पायलट) शाखा में स्थायी कमीशन तथा विगज (एक वर्ष के लिए परखाधीन) प्रदान करने हैं। यह अफसर स्थायी कमीशन तथा विगज (परखाधीन) प्राप्त करने की तारीख 18 जून 94 से उड़ान बतन पाने के हकदार हैं।

भारतीय वायुसेना

उड़ान पायलट शाखा

(भूतपूर्व वायु सैनिकों को पायलट अफसर के रैंक में)  
देवेन्द्रा डे (22968)—18 जून 94 में।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से म्/एस. 18731/116/प्रशिक्षण/1285/यू एम/डी (एयर-3) तारीख 29 अक्टूबर 91 के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित को स्थायी कमीशन तथा विगज (परखाधीन) प्रदान करने हैं। यह अफसर स्थायी कमीशन तथा विगज (परखाधीन) प्राप्त करने की तारीख 18 दिसम्बर 93 से उड़ान बतन पाने के हकदार हैं।

भारतीय वायुसेना

उड़ान पायलट शाखा

(भूतपूर्व एन डी ए कैडेटों की पायलट अफसर के रैंक में)  
अनिल गोयल (22686) और आशिष ए हंबलकर (22713)  
—18 दिसम्बर 93 से।

राष्ट्रपति, वा से अनु 15/76 के अंतर्गत निम्नलिखित को अनन्तिस अल्पकालिक कमीशन छोड़ने की अनुमति देने हैं और उन्हें स्थायी कमीशन (एक साल के लिए परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

मौसम विज्ञान शाखा

हरिष कुमार काशक पट्टाथू (22004) और वैद्यमानिकम रामान कीमसानी डी (22005)—21 जून 93 में।

एच. टी. शर्मा  
स्कवाड्रन लीडर  
सहा निदेशक का अफ 3 (डी)

## (धन सेवा विभाग)

सं. 134, दिनांक 12 फरवरी 1996—राष्ट्रपति निम्न-लिखित भूत पूर्व जूनिअर कमिश्नर अफसरों को नोकरी पर बहाल करते हैं। पद और बहालों का विधि नाम के सामने अंकित हैं :—

निर्यात सेवा  
रक्षा तथा पुनर्स्थापना कोर  
सूबेदार (डी डी) के रैंक में

सूबेदार रविन्दर सिंह छात्री (जं सी-159329-एन) पदों 1  
गोरखा राइफल्स 06 जुलाई 1994।

सूबेदार सुरवीर सिंह (जं सी-172255-एन) पदों कोर आर  
सिगनाल्स 07 जुलाई 1994।

नायब सूबेदार (डी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार गोविन्द नार (जं सी-177896-एन) पदों  
बिग्रेड आर गार्ड्स 01 नवम्बर 1994।

नायब सूबेदार गोविन्द सामी सुन्दरेशन (जं सी-142334-एन)  
पदों की एम डी जी 02 मार्च 1995।

नायब सूबेदार प्रदुमन सिंह रावत (जं सी-167249-एन)  
पदों की गार्डवाल राइफल्स 05 मार्च 1995।

प्रकाश चन्द  
अवर सचिव

2. के सी नामपाल (एम आर-2113) ए एम सी/पी सी  
28-06-94।

(जयष्ठता उनके बेटन व पेंशन पर प्रभाव डालने बिना  
09-05-94 से)।

नोट : उपरोक्त अधिकारियों में सम्बन्धित राजपत्र अधि-  
सूचना जो कि क्रमशः दिनांक 17-12-94 और  
3-9-94 को प्रकाशित हुई चुकी है, को निरस्त  
समझा जाए।

जं. सी. शर्मा  
सर्जन रिथर एडीमरल  
अवर म. मि. श. से. चि. सेवा

## धन सेवा शाखा

सं. 137, दिनांक 8 फरवरी 1996—राष्ट्रपति निम्नीलिखित  
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

निर्यात सेवा

स्थायी कमीशन

लेफ्टीनेंट रं कोटन

आई सी नं., नाम और आर

49870 सी एम साह, ए सी—15 दिसम्बर 95।

49871 आर एम गठौर, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49873 डी आर गहर, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95।

49875 एम एम सायन, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49876 आर बीजी, मंक/इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49877 एम के सिंह, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49878 आर सुन्दरम, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49879 जी एन चौधरी, ए डी आर्टी—15 दिसम्बर 95।

49880 एम देहल, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95।

49881 के अकरनाथ, आर्टी—15 दिसम्बर 95।

49882 ए केकर, डी एम डी—15 दिसम्बर 95।

49884 एम मंड, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49885 सी दिमय, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49886 पी. पन्त, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49889 आई एम सामयाल, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49890 एन नेगी, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49891 जी शर्मा, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49892 एम चौधरी, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

49894 ए. लथरा डी एम डी—15 दिसम्बर 95।

49895 एम मुर्गेशन, इन्फ—15 दिसम्बर 95।

सं. 135, दिनांक 9 फरवरी 1996—राष्ट्रपति सहर्ष निम्न-  
लिखित अधिकारियों को परमा अवधि पूरी होने पर पदका करते  
हैं :—

निर्यात सेवा

स्थाई कमीशन

एलाइट लिफ्ट मन्ोज कुमार (एम आर-06431 एन)  
(21990) ए एम सी/पी सी—13 सप्ट 92।

जं. सी. शर्मा  
सर्जन रिथर एडीमरल  
एडिशनल डी. डी. ए. एफ. एम. एम.

## धन सेवा विभाग

सं. 136, दिनांक 13 फरवरी 1996—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित पदोन्नति करते हैं :—

निर्यात सेवा

स्थाई आयोग

कर्नल से बिग्रेडियर

1 आर सी शर्मा (एम आर-2019) ए एम सी/पी सी  
01-07-94।

(जयष्ठता उनके बेटन व पेंशन पर प्रभाव डालने बिना  
01-02-94 से)।

आह' सी नं. , नाम और आर्म	
49896 ए के त्रिपाठी, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49951 आर सिंह, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
49897 आर चौधरी, इ' एम इ'—15 दिसम्बर 95 ।	49952 जी श्रीनिवास, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
49898 ए चंदेल, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49953 ए डी एस शंखाल, ए एस सी—15 दिसम्बर 95 ।
49899 आर के मंर, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	49955 विवंक लल, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49900 जी शंकर, ए एस सी—15 दिसम्बर 95 ।	49956 एस के सिंह, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95 ।
49902 जे एम रावद, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	49957 वी के नागवाल, ए सी—15 दिसम्बर 95 ।
49903 आर गुप्ता, ए डी आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	49959 पी पंकज, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95 ।
49904 आर खूलार, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49960 जी सिंह, ए डी आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
49905 एन सिंह, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49961 जी त्रिवेदी, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
49908 वी अग्रवाल, मैक/इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49962 एम प्रकाश, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49909 डी एम वजाज, मैक/इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49963 आर सिंह, इ' एम इ'—15 दिसम्बर 95 ।
49913 अर्जुन सिंह, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49964 आर कासवान, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49917 वी एम पुडीर, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	49965 डी आहूजा, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
49919 एच सिंह, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49966 एस एस नेगी, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49920 एन भटनागर, सिग्स—15 दिसम्बर 95 ।	49967 ए एस वालिया, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49921 एम शर्मा, ए डी आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	49968 एस कुमार, सिग्स—15 दिसम्बर 95 ।
49922 एम उशाल, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49969 ए कमर, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49924 एम एम हडवाल, ए एस सी—15 दिसम्बर 95 ।	49970 एम पी सिंह, ए डी आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
49926 वी के पुराहित, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49971 जी गजबाल, इ' एम इ'—15 दिसम्बर 95 ।
49927 एम ठक्कर, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49975 वी एम देहिया, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49929 डी डी पाठक, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49976 एम एम चीमा, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49930 एन के वडंरा, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95 ।	49978 डी परंरा, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
49931 टी जे सिंह, ए एस सी—15 दिसम्बर 95 ।	49980 ए के दलाल, ए सी—15 दिसम्बर 95 ।
49932 पी एम बिष्ट, सिग्स—15 दिसम्बर 95 ।	49981 डी रावत, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
49934 एच एस चौहान, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95 ।	49982 एन के रायजादा, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
49935 ए एस जसवाल, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	49983 ए रामकृष्णन, सिग्स—15 दिसम्बर 95 ।
49936 पी वी आर सुब्रामनियम, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।	49984 अमित देव, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49937 टी एम मोहन, ए सी—15 दिसम्बर 95 ।	49986 ए के अरोड़ा, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
49938 ए एस चौहान, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49988 जे एम मिनहास, सिग्स—15 दिसम्बर 95 ।
49939 वी एम गंखों, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49989 पी सिंह, इ' एम इ'—15 दिसम्बर 95 ।
49940 एम के सिंह, ए एस सी—15 दिसम्बर 95 ।	49993 पी वी सुधाकर, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49944 पी दुग्गल, मैक/इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	49995 ए कुमार, इ' एम इ'—15 दिसम्बर 95 ।
49946 जी पी जैकब, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।	49997 जी वी एस राव, ए एस सी—15 दिसम्बर 95 ।
49949 डी चौधरी, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	49998 एन जरवाल, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
49950 पी रावद, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।	49999 आर भनवाला, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
	50000 आर कुमार, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95 ।
	50001 ए वाई राजन, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।

आई सी नं., नाम और आर्म	50051 एम दास, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
50003 पी पी बारिक, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50052 ए के रैना, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
50006 आर के अहलावत, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50054 एम आनन्द, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
50007 वी भूपण, ई एम ई—15 दिसम्बर 95 ।	50055 एम चौबे, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95 ।
50008 एम पी सिन्हा, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50056 डी सारना, ए डी आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
50009 एम डिल्लो, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50059 आई के अहजा, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
50010 एम वादकृष्णन, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50060 आर चावला, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
50011 वी कोटियाल, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।	50062 जी एन डीमूजा, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।
50013 जे पी कॉपिक, मैक/इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50063 डी जे इंगावादे, ए सी—15 दिसम्बर 95 ।
50014 डब्ल्यू जी गूलाब, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।	50064 एम मुद्गी, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
50016 बी एस सिवाच, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50065 एम गंगाल, ई एम ई—15 दिसम्बर 95 ।
50017 विकास पूरी, ई एम ई—15 दिसम्बर 95 ।	50066 डी कृष्णा, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
50019 एन श्रीनिवासन, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	50069 ए ठाकर, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
50020 पी सुदीपाध्याय, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95 ।	50070 के वी के प्रकाश, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
50024 रवी रंजूडी, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।	50071 ए बहिया, ए एम सी—15 दिसम्बर 95 ।
50025 विनय गुप्ता, ई एम ई—15 दिसम्बर 95 ।	50072 जी वी अरुद्रा, ए डी आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
50026 डी के सिंह, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।	50075 जी के झा, ए एम सी—15 दिसम्बर 95 ।
50027 ए एम लखरोट, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50076 के एस घुसन, मैक/इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
50028 पी पाठक, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50077 आर श्रीराम, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
50029 पी मंडे, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	50078 वी महाल, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
50030 एम पटने, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95 ।	50080 आई एम अहलावत, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
50031 आर कुमार, ए एम सी—15 दिसम्बर 95 ।	50081 आर पठानिया, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
50033 आर कटारिया, ए सी—15 दिसम्बर 95 ।	50082 ओ पी राय, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
50034 वी के नाभिधायन, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50083 एम जैन, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
50035 ए माथुर, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।	50084 एम के कोचर, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।
50036 वी के पुंडोर, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	50087 पी पी टी थिओल, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
50037 एम पंडे, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50088 एम के सिंह, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
50038 एम चौहान, ई एम ई—15 दिसम्बर 95 ।	50090 जी महाजन, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।
50043 आर एम श्रीला, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।	50091 एम आर एम सरदार, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95 ।
50044 ए तिवारी, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50094 आर एम कोहली, ई एम ई—15 दिसम्बर 95 ।
50045 एम एम पी दिष्ट, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50095 आर इतरा, ई एम ई—15 दिसम्बर 95 ।
50046 आर पी राज, मैक/इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।	50096 पी शर्मा, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
50047 ए वर्मा, ए सी—15 दिसम्बर 95 ।	50098 एम टी स्वामी, ए एम सी—15 दिसम्बर 95 ।
50048 डब्ल्यू जे के सिंह, ए ओ सी—15 दिसम्बर 95 ।	50099 आई एम शर्मा, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
50050 एम कर्, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।	50100 आर मेहता, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
	50103 पी तिवारी, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।

- 50104 जी एम सिन्हा, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50105 एम सिंह, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50106 एन एनीथा, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50107 जी एम बच्छल, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50108 आर कुमार, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
- 50113 जे एम कांडवाल, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50114 जी आर कोसवान, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50115 एम के राय, ए डी आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
- 50116 दीन कमल, ए एम सी—15 दिसम्बर 95 ।
- 50118 एल सी रायडू, ए एम सी—15 दिसम्बर 95 ।
- 50120 ए एम शौदा, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
- 50122 एम एन भावे, ए डी आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
- 50127 ए एम साम्बावाल, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।
- 50128 आर एम धीर, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50129 एम नागर, ए सी—15 दिसम्बर 95 ।
- 50130 ए जे के बाली, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।
- 50132 एम एम यादव, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50136 एन सदा, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
- 50137 एन रोड्री, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50140 एम आर राव, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
- 40141 एम एन कुमार, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 40144 आर के मालापती, ए एम सी—15 दिसम्बर 95 ।
- 50145 आर सिंह, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50146 आर ए पेदेराव, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
- 50147 ए राय, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।
- 50149 आर कुमार, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
- 50150 ए सहगल, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50151 वी गुप्ता, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।
- 50152 पी एम शोखावत, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50153 आर तुली, सिग्म—15 दिसम्बर 95 ।
- 50158 ए बंदजी, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
- 50159 एम बोस, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
- 50160 वी एम वरार, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50161 एम एम रावत, मैक/इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50162 के एन एम कुमार, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50163 एम वी गणपति, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50164 एन चक्रवर्ती, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
- 50165 एम एम गौड़, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50166 एन एम बच्छल, इन्फ—15 दिसम्बर 95 ।
- 50168 डी सिंह, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।
- 50169 एम एम गुप्ता, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50170 वी सी शर्मा, ए सी—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50172 ए सक्सेना, सिग्म—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50175 आर दुआरी, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50176 एम शरण्या, मैक/इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50177 एच पी एम शर्मा, ए डी आर्टी—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50178 एल के दियोवान, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50179 पी गोपालन, आर्टी—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50180 जी सी डी राज, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50184 ए शक्ति, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50186 के सिंह, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50187 एम एन शेखर, आर्टी—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50188 आर गांधी, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50189 आर सिंह, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50192 आर फ़िनिफोर, ए ओ सी—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50195 ए ध्यानी, ए एम सी—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50196 एम कश्यप, सिग्म—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50197 वी सिंह, आर्टी—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50198 सी ए वी राव, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50201 ए सिंह, ए सी—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50202 एम सिंह, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50203 एम एम बहादुरिया, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50208 वी. वीरवर्द्धियन, मैक/इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50209 ए शर्मा, सिग्म—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50210 के गणेश, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50214 ए अंबार, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50217 वी के कौल, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50218 टी एम अण्डारी, इन्फ—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50219 ए डी ए एम सी—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50222 के सी आण्णा, ए सी—15 दिसम्बर 1995 ।
- 50224 एम कुमार, आर्टी—15 दिसम्बर 1995 ।



- 50225 ए. चन्द्रा, ई. एम. ई.—15 दिसम्बर 1995 ।  
 50226 ए. के. सिंह, इन्फ.—15 दिसम्बर 1995 ।  
 50228 डी. नंधारी, इन्फ.—15 दिसम्बर 1995 ।  
 50229 डी. नाथ, इन्फ.—15 दिसम्बर 1995 ।  
 50231 डी. पी. सिंह, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 1995 ।  
 50232 एम. दत्तारा, आर्टी—15 दिसम्बर 1995 ।  
 50235 आर. जी. एम. राता, ई. एम. ई.—15 दिसम्बर 1995 ।  
 50237 वी. शर्मा, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 1995 ।  
 50262 जी. सी. मोहनल्ला, ए. ई. सी.—15 दिसम्बर 1995 ।  
 49992 जैड आर्. एम. याजदानी, आर्टी—15 दिसम्बर 95 ।  
 (लिंकन बोटल और भत्ते 09 जनवरी 1996 से) ।  
 51883 ए. कुमार, इन्जीनियर्स—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51885 डी. सी. नायक, इन्जीनियर्स—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51887 सी. शिवदेव, ई. एम. ई.—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51896 ए. मिश्रा, इन्जीनियर्स—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51897 एम. जी. दिलवाणी, ई. एम. ई.—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51898 ए. ककर, ई. एम. ई.—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51899 सी. जार्ज, इन्जीनियर्स—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51900 आर. शुकला, ई. एम. ई.—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51901 ए. श्रीवास्तवा, इन्जीनियर्स—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51902 आर. के. यादव, इन्जीनियर्स—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51903 ए. के. जैन, ई. एम. ई.—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51905 एम. कपूर, ई. एम. ई.—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51907 ए. के. मिश्रा, ई. एम. ई.—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51921 एम. वी. कलकणी, ई. एम. ई.—19 दिसम्बर 1995 ।  
 51922 ए. श्रीनिवास, ई. एम. ई.—19 दिसम्बर 1995 ।  
 लेफ्टीनेंट से कौन्सिल (विशेष सूची)  
 एम. एन-3543 एन. रमबाणी—26 जलाई 92 ।  
 एम. एन-3691 डी. एम. कृष्णा—01 अक्टूबर 94 ।  
 एम. एन-3776 अ. एम. सुक्का—01 अक्टूबर 94 ।  
 एम. एन-3821 अ. पी. अय्यप्पी—01 अक्टूबर 94 ।

अन्य सेवा समीक्षण

2/लेफ्टीनेंट से लेफ्टीनेंट

- विद्यमान कटाच (एम. एन-35668) इन्फेन्ट्री—21 अगस्त 95 ।  
 सुब्रह्मणीय दत्ता राय (एम. एन-35591) इन्फेन्ट्री—06 मार्च 95 ।  
 मलय देव राय, सी.एस.ओ.  
 डी. ए. एम. एस. 8 सी

संख्या 138, दिनांक 6 फरवरी 1996—राष्ट्रपति महर्षि निम्नलिखित नर्सिंग अफसरों की पब्लिश करत हूँ :—

निर्दिष्ट सेवा

मिलिट्री नर्सिंग सेवा (स्थायी)  
 मेजर से ले. कर्नल (टाइम स्केल)

- श्रीमती जया गोविन्द राजन (एन. आर. 15512 को) दि. 30-12-94 से ।  
 श्रीमती गोता पी. धवल (एन. आर. 15523 उच्च) दि. 30-12-94 से ।  
 श्रीमती ए. कोहली (एन. आर. 15527 एम) दि. 30-12-94 से ।  
 श्रीमती मैरी योहानम (एन. आर. 15530 एम) दि. 30-12-94 से ।  
 श्रीमती के. के. गिल (एन. आर. 15533 एन) दि. 30-12-94 से ।  
 श्रीमती तुलसी विजयधर (एन. आर. 15542 एफ) दि. 30-12-94 से ।  
 श्रीमती विजय कुमारी (एन. आर. 15549 एन) दि. 30-12-94 से ।  
 श्रीमती एम. आर. सूद (एन. आर. 15554 उच्च) दि. 30-12-94 से ।  
 श्रीमती एच. जे. भुल्लर (एन. आर. 15556 एफ) दि. 30-12-94 से ।  
 श्रीमती गरुड माणिक (एन. आर. 15558 एम) दि. 30-12-94 से ।  
 कुमारी वी. वी. राने (एन. आर. 15657 पी) दि. 14 फरवरी 95 से ।  
 श्रीमती डा. वी. राजकुमारी (एन. आर. 15664 एन) दि. 23 मार्च 95 से ।  
 श्रीमती अणु शक्ता (एन. आर. 15665 एन) दि. 21 मार्च 95 से ।  
 श्रीमती ए. वी. गाल (एन. आर. 15670 वाइ) दि. 15 मार्च 95 से ।

श्रीमती के. आनन्द (एन आर 15698 वाच) दि. 18 जन 95 से ।

\*श्रीमती एस. सूब (एन आर 15843) दि. 21 जनवरी 95 से ।

\*श्रीमती कं. के. शर्मा (एन आर 15868) दि. 16 जन 95 से ।

\*श्रीमती डा. मनोमती (एन आर 15881) दि. 16 जन 95 से ।

\* (बी. एस. सी. नर्सिंग के कारण एक वर्ष की वरिष्ठता सहित) ।

श्रीमती लूमी राजन (एन आर 15599 डबल्यु) दि. 30-12-94 से ।

श्रीमती ई. पी. जगदम्मा (एन आर 15689 पी) दि. 30-12-94 से ।

कुमारी एस. के. भोला (एन आर 15617 एन) दि. 30-12-94 से ।

श्रीमती विपिन गदव (एन आर 15619 वाई) दि. 30-12-94 से ।

श्रीमती नवलनी काल्की (एन आर 15620 एन) दि. 30-12-94 से ।

श्रीमती एस. सरस्वती (एन आर 15621 डबल्यु) दि. 30-12-94 से ।

श्रीमती आर्द. बालाकृष्णन (एन आर 15627 एक्स) दि. 30-12-94 से ।

श्रीमती उषा रानी (एन आर 15628 ए) दि. 30-12-94 से ।

श्रीमती एस. एष्वाथप्पी (एन आर 15633 एन) दि. 30-12-94 से ।

#### ले. से कप्तान

एन आर 19207 श्रीमती एस. वी. स्वर्णा—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19208 कुमारी आइस्ता भिरार—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19210 श्रीमती अन्नम्मा जेवियर—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19211 श्रीमती वी. जयललिता—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19212 श्रीमती वल्लभदास अंगिरस—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19214 श्रीमती वल्लभदास वी. एम्.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19216 कुमारी मनोरमा मिह—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19217 श्रीमती वी. पी. जी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19218 श्रीमती सुमन रेखा—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19233 कुमारी जयश्री देवी—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19234 श्रीमती इंडा पी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19235 श्रीमती ले. मेरी बाबरा—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19236 श्रीमती अन्नम्मा मंडा—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19237 श्रीमती माथामाल के. जी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19238 श्रीमती सोफियामा ज्ञान—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19239 श्रीमती विसला राजन—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19240 श्रीमती जूलियम्मा जोसेफ—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19241 श्रीमती मीरुअम्मा थामस—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19242 श्रीमती रवी सेन्वा कुमारी पी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19255 श्रीमती मेरी पी. जे.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19256 श्रीमती मरुता चौमिया—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19258 श्रीमती वी. वी. रवी—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19259 श्रीमती राधाश्री पी. सी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19261 कुमारी एम्मा कला—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19262 श्रीमती अल्लाम्मा एम्. एम्.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19263 श्रीमती विद्याश्रीमती एस. एम्.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19264 कुमारी मेरी जोसेफ—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19265 श्रीमती मौली जान—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19266 श्रीमती अनीता गुप्ता—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19304 कुमारी एम. बंहेला उषा रानी—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19305 कुमारी धंक्रमनी पी. एम.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19307 श्रीमती रंजिता ए. जं.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19308 कुमारी उमेश यादव—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19309 श्रीमती आशा रानी—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19310 श्रीमती सूजा वी. के.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19311 कुमारी लीना कुमारी—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19313 श्रीमती गायत्री सिन्हा—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19317 श्रीमती लूसिअम्मा सी. सी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19318 श्रीमती शकुन्तला—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19319 कुमारी सुमेश लता—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19320 श्रीमती लक्ष्मी पी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19321 श्रीमती गंगम्मा टी. वी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19323 श्रीमती चंवर कांता पाहवा—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19324 श्रीमती एन. जयन्ती—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19326 कुमारी शाजी जार्ज—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19327 श्रीमती कल्याणी विश्वास—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19328 कुमारी कमलेश कांशल—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19329 श्रीमती ए. ए. शैलेट—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19330 श्रीमती रंजलिन जोस—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19331 श्रीमती वयालशा मैथ्यू—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19093 कुमारी नीलू टक्कर—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19094 कुमारी अर्चना—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19096 श्रीमती जसन्ता यू. ए.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19098 कुमारी शर्मा प्रवीणा श्यामलाल—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19099 कुमारी एल्सम्मा जार्ज—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19100 कुमारी मीना वामन पवार—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19101 कुमारी मनीषा ठाकुर—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19102 श्रीमती डी. निर्मला—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19103 श्रीमती हेलें मारिया डिस्जा—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19104 श्रीमती एम. एच. लता—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19130 कुमारी मौलीकुट्टी ई. सी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19131 कुमारी सी. सुशीला—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19133 कुमारी गिरिजा कुमारी एस.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19134 कुमारी रीना गोयल—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19135 कुमारी रत्नाअम्मा आर.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19136 कुमारी जे. प्रेमा—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19137 श्रीमती मधु महेंद्रु—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19138 श्रीमती सविता शिवानन्दा—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19139 कुमारी प्रेसी पी. एम.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19140 श्रीमती शीला गोडविन एस.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19141 श्रीमती लता जोसेफ—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19142 कुमारी एन्सी थामस—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19143 कुमारी बन्दना सेन—29-12-93 से ।

एन आर 19144 श्रीमती एन्स शान्ती—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19145 श्रीमती सुभा एम. डी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19146 कुमारी गिरिजा नटराजन—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19147 श्रीमती राजम्मा स्कारिया—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19148 कुमारी हर्षकुलेट मारियल डी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19149 श्रीमती बीना एन. के.—दि. 27-2-94 से ।

एन आर 19150 कुमारी आर. राना—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19163 श्रीमती वृन्दिजेम्मा जोसेफ—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19164 कुमारी उषा राजन—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19165 कुमारी बीना भट्टी—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19166 श्रीमती रजिनी—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19167 कुमारी उषा—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19168 श्रीमती अरुणा यादव—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19169 श्रीमती हरजीत कालिया—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19170 कुमारी छाया रानी सिंह—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19171 श्रीमती श्रीलता के.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19172 श्रीमती एम. निर्मला—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19173 श्रीमती जैन्ममा पी. जोसेफ—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19174 श्रीमती उषा पी. आर.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19175 कुमारी आरती—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19176 श्रीमती निजी के. के.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19177 श्रीमती आर. भोहाम्बाल—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19178 श्रीमती लाली पी.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19182 कुमारी ट्रेसा एच. फर्निडिस—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19183 श्रीमती सुरभीत कारि—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19184 श्रीमती सी. निर्मला—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19185 श्रीमती डोजी जोसेफ—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19186 श्रीमती शिवा दास—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19187 कुमारी जोइस टी. जे.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19188 कुमारी जेसी जान—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19189 कुमारी आर. विजया रानी—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19190 श्रीमती पारु तमंग—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19191 श्रीमती मर्सी मैथ्यू—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19192 कुमारी सुनीता कटोच—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19193 श्रीमती शोभा जान—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19194 श्रीमती जली पी. एम.—दि. 29-12-93 से ।

एन आर 19195 श्रीमती शोभना पी.—दि. 29-12-93  
रं ।

पी. एफ. सोनाबाई  
संजर जनरल  
अतिरिक्त डी. जी. एम. एन. एम.

थक सेना विभाग

स. 139, तारीख 6 फरवरी 1996—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

कवचिक्त कोर

स्थाई रिजालदार के रैंक में

नायब रिजालदार चन्द्रपाल सिंह (जे सी-195302 के)---  
07 जून 95 ।

नायब रिजालदार रतन सिंह (जे सी-195332 एफ)---  
07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) रामानन्द धादव (जे सी-  
200768 वाई)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) प्रेमपाल शर्मा (जे सी-  
200769 एफ)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार गुरदये सिंह (जे सी-203186 के)---  
07 जून 95 ।

नायब रिजालदार अजीत सिंह राठौर (जे सी-206584 डब्ल्यू)  
---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार त्रिलोक सिंह निहवाल (जे सी-219158  
एफ)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार चन्दर मनी (जे सी-211548 पी)---07  
जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) गजेन्द्रनाथ गालुकदार (जे सी-  
200770 डब्ल्यू)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार जगबीर सिंह (जे सी-200686 डब्ल्यू)---  
07 जून 95 ।

नायब रिजालदार रम लाल बघाई (जे सी-181347  
वाई)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार सरदार सिंह (जे सी-203172के)---07 जून  
95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) जसवन्त सिंह (जे सी-  
200772 एफ)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) चरन सिंह (जे सी-203274  
ए)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) लके सिंह (जे सी-203275  
ए)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) थरु राम (जे सी-219166  
ए)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) ओम प्रकाश दीहिया (जे सी-  
203276 ए)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) सुभाष चन्द्र शर्मा (जे सी-  
203277 ए)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) अजीत सिंह (जे सी-  
203279 वाई)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) कर्नल सिंह (जे सी-203280  
ए)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) लंकेश्वर बासुमथी (जे सी-  
203281 डब्ल्यू)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) सुभाष चन्द्र तिवारी (जे सी-  
203282 वाई)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार करन सिंह (जे सी-219171 ए)---  
07 जून 95 ।

नायब रिजालदार हरमिन्दर सिंह (जे सी-219109 वाई)---  
07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) पृष्णांगथन के. (जे सी-  
203284 के)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) मन्साराम (जे सी-203285  
ए)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) जयपाल मगवाल (जे सी-  
219042 ए)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) मदन सिंह विशिष्ठ (जे सी-  
203286 पी)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार सतबीर सिंह (जे सी-211503 पी)---  
07 जून 95 ।

नायब रिजालदार फौजा सिंह (जे सी-200688 एफ)---  
07 जून 95 ।

नायब रिजालदार जय राम सिंह (जे सी-184059 एक्स)---  
07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) पूनंध्या पररुमल (जे सी-  
203287 एक्स)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) अनूप राम ठाकूर (जे सी-  
203288 ए)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) बिरहम सिंह (जे सी-  
203289 ए)---07 जून 95 ।

नायब रिजालदार महिपाल सिंह (जे सी-196761 पी)---  
07 जून 95 ।

नायब रिजालदार बीर सिंह (जे सी-189679 एक्स)---  
07 जून 95 ।

- नाथब रिसालदार जगदीश्वर शर्मा (जे सी-196731 एक्स)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार सुभाष चन्द्र (जे सी-203263 एन)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार ईश्वर सिंह (जे सी-206527 पी)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार कलक (जी डी) सुरजीत सिंह राणा (जे सी-  
203291 ए)---07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार कलक (जी डी) ईश्वर सिंह राणा (जे सी-  
204579 एम)---07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार कलक (जी डी) जोगिन्द सिंह (जे सी-  
204580 एफ)---07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार गोविन्द सिंह (जे सी-219035 पी)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार सरजनीत (जे सी-211568 एच)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार सुभाष चन्द्र साक्साक (जे सी-216345 पी)  
---07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार रतन सिंह (जे सी-219191 वाई)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार भगवान सिंह वर्मा (जे सी-219196 एक्स)  
---07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार उमेश सिंह (जे सी-194115 वाई)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार प्रेम सिंह (जे सी-196732 ए)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार राजाना राम (जे सी-211473 एच)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार कलक (जी डी) संकल्प भनराज (जे सी-  
204581 के)---07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार कलक (जी डी) धर्मपाल सिंह यादव (जे सी-  
204582 एम)---07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार सोहन सिंह (जे सी-211501 के)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार अमरपाल सिंह मलिक (जे सी-219041  
एच)---07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार गोविन्द सिंह (जे सी-219113 एफ)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार जसवीर सिंह (जे सी-222866 वाई)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार जय प्रकाश (जे सी-222868 के)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार अंतर सिंह (जे सी-219172 एन)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार अवतार सिंह (जे सी-222891 एक्स)---  
---07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार बलवीर सिंह (जे सी-222917 एफ)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार बस्ती राम (जे सी-155349 एफ)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार पदम राम (जे सी-195351 एम)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार सुवर्षन प्रसाद (जे सी-196754 वाई)---  
07 जून 95 ।
- नाथब रिसालदार अंकार सिंह (जे सी-206581 ए)---  
01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार मुखेन्द्र जनार्धन विठलराव (जे सी-204537  
ए)---01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार नवाब बली खान (जे सी-204557 एन)---  
01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार कुलदीप सिंह (जे सी-211509 डब्ल्यू)---  
01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार सुर्ज राम (जे सी-222919 एम)---  
01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार प्रभु दयाल यादव (जे सी-203198 वाई)  
---01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार मोहन सिंह बिस्ट (जे सी-204561 डब्ल्यू)  
---01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार कलक (जी डी) राय सिंह राणा (जे सी-  
211443 एल)---01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार कलक (जी डी) रामवीर सिंह (जे सी-  
204583 पी)---01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार तरसेम सिंह (जे सी-211569 एल)---  
---01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार रविन्द्र अमृतराव चौधरी (जे सी-219213  
एम)---01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार प्रभु दयाल (जे सी-219213 एम)---  
---01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार सुर्जन सिंह (जे सी-222900 एन)---  
01 जुलाई 95 ।
- नाथब रिसालदार साहब सिंह (जे सी-235709 एल)---  
01 अगस्त 95 ।
- नाथब रिसालदार हृणी सिंह (जे सी-203259 एन)---  
01 अगस्त 95 ।

नायब रिमालदार जगत सिंह भाटिया (जे सी-204562 बाई) --01 अगस्त 95 ।

नायब रिमालदार राम अवतार सिंह (जे सी-222918 के) --01 अगस्त 95 ।

नायब रिमालदार रघुनाथ (जे सी-235519 बाई) --01 अगस्त 95 ।

स्थाई रिमालदार के रैंक में

नायब रिमालदार अनूप सिंह, (जेसी-166620 एल) -- 01 मई 1994.

नायब रिमालदार लक्ष्मी नारायण, (जेसी-204527 डब्ल्यू) --01 जुलाई 1994.

नायब रिमालदार रस्तन चन्द, (जेसी-203235 एफ) --01 जनवरी 1995.

नायब रिमालदार रामेश्वर सिंह, (जेसी-194122 पी) --30 जनवरी 1995.

नायब रिमालदार छांटू राम जाट, (जेसी-219097 पी) --01 मार्च 1995.

नायब रिमालदार बलराम सिंह, (जेसी-189618 ए) --01 मार्च 1995.

नायब रिमालदार जय सिंह, (जेसी-206573 के) --01 मार्च 1995.

नायब रिमालदार शिव प्रकाश, (जेसी-226983 एल) --01 मार्च 1995.

नायब रिमालदार मुन्शी राम, (जेसी-203236 के) --01 मार्च 1995.

नायब रिमालदार कुलदीप कुमार कौसर, (जेसी-189605-एच) --01 अप्रैल 1995.

नायब रिमालदार राम आसरा, (जेसी-206520 एल) --01 अप्रैल 1995.

नायब रिमालदार लजाना राम, (जेसी-206521 एल) --01 अप्रैल 1995.

नायब रिमालदार बचिंद्र सिंह, (जेसी-235619 के) --01 अप्रैल 1995.

नायब रिमालदार सौवीर सिंह, (जेसी-206542 के) --01 अप्रैल 1995.

नायब रिमालदार फिथ राम साकवानी, (जेसी-206541-एफ) --01 मई 1995.

नायब रिमालदार जगदीश सिंह, (जेसी-206582 एल) --01 जन 1995.

नायब रिमालदार राजा राम, (जेसी-206574 एल) --01 जन 1995.

नायब रिमालदार पूर्ण चन्द, (जेसी-211543 एल) --01 जून 1995.

नायब रिमालदार सोहन लाल मनी, (जेसी-195303 एम) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार शोबन सिंह, (जेसी-194165 एक्स) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार अमर सिंह कृशवाह, (जेसी-194166 एम) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार महेंद्र पाल सिंह, (जेसी-211508 एल) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार गुरदीप सिंह, (जेसी-211567 ए) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार धर्म प्रकाश, (जेसी-219117 एक्स) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार अम्बिका सिंह, (जेसी-219165 एक्स) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार इन्द्रपाल सिंह, (जेसी-222971 पी) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार श्री नारायण मिश्रा, (जेसी-195403 एक्स) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार मदन लाल शर्मा, (जेसी-195422 एच) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार जोगिन्द्र सिंह, (जेसी-206530 पी) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार जिला सिंह (जेसी-222896 डब्ल्यू) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह, (जेसी-223501 डब्ल्यू) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार अवतार सिंह, (जेसी-194167 पी) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार नाग दस्त, (जेसी-211585 एल) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार रावत सिंह, (जेसी-235682 बाई) --07 जून 1995.

नायब रिमालदार अमी चन्द जाट, (जेसी-216526 एम) --07 जन 1995.

नायब रिमालदार रण सिंह, (जेसी-219188 बाई) --07 जन 1995.

नायब रिमालदार भिकू राम, (जेसी-235629 डब्ल्यू) 07 जन 1995.

नायब रिमालदार बजरंग सिंह, (जेसी-223507 एक्स) --07 जन 1995.

नायब रिसालदार उमराव गिह सांगवान, (जंसी-206583 एन)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार धर्मवीर सिंह, (जंसी-200700 एक्स)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार कर्म चन्द, (जंसी-203182 एन)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार जगगज सिंह, (जंसी-203222 के)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार विनोद कुमार, (जंसी-211582 पी)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार प्रीतम लाल, (जंसी-222860 एक्स)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार जगन नाथ, (जंसी-222880 एन)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार श्याम सिंह, (जंसी-222985 पी)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार नजीर अहमद, (जंसी-194153 एफ)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार जय कर्ण, (जंसी-200692 के)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार मुद्रगुल्ला सूबा गेडडी, (जंसी-219906-डब्ल्यू)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार त्रिजय सिंह, (जंसी-211577 के)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार बक्षी राम, (जंसी-222935 के)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार नजीर सिंह, (जंसी-235632 ए)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार डूधी राम, (जंसी-206549 एन)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार अम्बारकल हक, (जंसी-204542 एन)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार हकम चन्द, (जंसी-223484 एफ)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार राम किशन, (जंसी-222957 एन)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार नौरंग सिंह, (जंसी-222937 पी)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार प्रीतम सिंह, (जंसी-225628 एक्स)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार भुन सिंह पराशर, (जंसी-226982 आर्डी)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार बिशन दास, (जंसी-222995 आर्डी)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार जोगा राम, (जंसी-225063 के)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार अश्वदेश बहादुर सिंह, (जंसी-235502 एल)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार नैन सिंह, (जंसी-219076 आर्डी)--07 जून 1995.

नायब रिसालदार मरिन्दर सिंह, (जंसी-203225 एक्स)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार दया नन्द, (जंसी-211547 एम)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार धर्म पाल सिंह, (जंसी-219077 एफ)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार भाग चन्द, (जंसी-196765 एल)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार जवान सिंह, (जंसी-211475 एन)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार अमरीक सिंह, (जंसी-211578 एम)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार बलयन्त राय, (जंसी-222934 एफ)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार कदम सिंह, (जंसी-225064 ए)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार सुरेश चन्द्र यादव, (जंसी-235517 एन)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार जीत सिंह, (जंसी-235537 एफ)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार हरवीर सिंह राणा, (जंसी-195353 एक्स)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार प्रीतम सिंह, (जंसी-195354 ए)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार सूबा लाल यादव, (जंसी-203191 पी)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार मदन मोहन पन्थारी, (जंसी-203221 एफ)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार यामीन अली, (जंसी-211469 ए)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार ओंग सिंह, (जंसी-211514 एफ)--01 जुलाई 1995.

नायब रिसालदार गान्डी कृष्णा मिश्रा, (जंसी-211573 एन)--01 जुलाई 1995.



नायब रिजालदार किशोर सिंह, (जेसी-219205 एन)---  
01 जुलाई 1995.

नायब रिजालदार सुरेश कुमार, (जेसी-206533 एन)---  
01 अगस्त 1995.

नायब रिजालदार जोगिन्द्र सिंह, (जेसी-206546 ए)---  
01 अगस्त 1995.

नायब रिजालदार विजयान नायर पी के, (जेसी-222862 एन)  
---01 अगस्त 1995.

नायब रिजालदार मुधान्शु चन्द्र मंडल, (जेसी-235674 ए)---  
01 अगस्त 1995.

नायब रिजालदार रघुपाल सिंह, (जेसी-200732 ए)---01  
अगस्त 1995.

नायब रिजालदार बालू सिंह, (जेसी-206601 एन)---01  
अगस्त 1995.

नायब रिजालदार रण सिंह, (जेसी-200735 एन)---01  
01 अगस्त 1995.

नायब रिजालदार सावंत वसंत धोंडोराम, (जेसी-206553  
इक्यू)---01 अगस्त 1995.

नायब रिजालदार मोहिन्दर सिंह, (जेसी-211456 एच)---  
01 अगस्त 1995.

नायब रिजालदार गोपाल सिंह, (जेसी-219032 एफ)---01  
सितम्बर 1995

नायब रिजालदार श्याम लाल श्रीमान, (जेसी-219146 एन)  
---01 सितम्बर 1995.

नायब रिजालदार धर्मपाल सिंह, (जेसी-219131 एल)---  
01 सितम्बर 1995.

नायब रिजालदार माम चन्द, (जेसी-211581 एम)---  
01 सितम्बर 1995.

नायब रिजालदार मंजर सिंह, (जेसी-206578 एच)---01  
अक्टूबर 1995.

नायब रिजालदार रणजीत सिंह, (जेसी-222873 पी)---01  
नवम्बर 1995.

नायब रिजालदार सुरिन्दर सिंह, (जेसी-219071 ए)---01  
नवम्बर 1995.

नायब रिजालदार सरमुख सिंह, (जेसी-211474 एन)---01  
नवम्बर 1995.

नायब रिजालदार निरंजन सिंह तनवर, (जेसी-211529 के)  
---01 नवम्बर 1995.

नायब रिजालदार बहादुर सिंह, (जेसी-211484 पी)---01  
नवम्बर 1995.

नायब रिजालदार एम के टी जय लाल (जे सी-166596  
ए)---01 फरवरी 94।

नायब रिजालदार एम के टी पालकर गुरदीधर (जे सी-  
166597 एन)---01 फरवरी 94.

नायब रिजालदार प्रीतम सिंह (जे सी-203170 वाई)---  
01 मार्च 94।

नायब रिजालदार मोहम्मद हंदरीम खान (जे सी-189677  
एन)---01 मई 94.

नायब रिजालदार खचरमल सिंह (जे सी-194149 एम)---  
01 जून 94।

नायब रिजालदार महेशपाल सिंह (जे सी-194160 एल)---  
01 सितम्बर 94।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) वीर सिंह सिनीसतवार  
(जे सी-196715 ए)---01 जनवरी 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) प्रीतम चन्द (जे सी-  
196716 एच)---01 जनवरी 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) धाडगे विलाम नारायण  
(जे सी-196717 एल)---30 जनवरी 95।

नायब रिजालदार इतकाव हुसैन (जे सी-194158 एन)---  
15 फरवरी 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) मथुरा दत्त (जे सी-  
196718 एन)---01 मार्च 95।

नायब रिजालदार फतेह सिंह (जे सी-145262 एक्स)---  
01 मार्च 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) परमेश्वरन नारायणन पिल्लै  
(जे सी-196720 एल)---01 मार्च 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) सामीनाथन विश्वनाथन  
(जे सी-196721 एल)---01 मार्च 95।

नायब रिजालदार मलविन्दर सिंह (जे सी-195352 पी)---  
01 मार्च 95।

नायब रिजालदार रूप सिंह (जे सी-195348 एम)---01  
मार्च 95।

नायब रिजालदार राम कृष्ण (जे सी-200765 एल)---  
01 मार्च 95।

नायब रिजालदार रामधीर सिंह गदब (जे सी-211542  
एन)---01 मार्च 95।

नायब रिजालदार मोहिन्दर सिंह (जे सी-177470 ए)---  
01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) जोगिन्द्र सिंह (जे सी-  
196722 इक्यू)---01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार राम लाल (जे सी-194109 एल)---  
01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार हरि सिंह (जे सी-184095 एन)---01  
अप्रैल 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) कुलवरन सिंह (जे सी-  
196723 वाई)---01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) ए जी उन्नीकृष्णन पिप्ले  
(जे सी-196725 के)---01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) जगदीश चन्द्र (जे सी-  
196726 एम)---01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार हमीर सिंह (जे सी-154843 डब्ल्यू)---  
01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार शंकर लाल (जे सी-211497 एम)---01  
अप्रैल 95।

नायब रिजालदार जी एस मनकांटिया (जे सी-195367  
वाई)---01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार हरदेव सिंह (जे सी-203161 एक्स)---  
01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार साबू सिंह (जे सी-203248 वाई)---  
01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार मधुरत सिंह (जे सी-211551 पी)---01  
अप्रैल 95।

नायब रिजालदार जगदीश प्रसाद (जे सी-196759 एक्स)---  
01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार मनुवर (जे सी-211513 वाई)---01  
अप्रैल 95।

नायब रिजालदार डी आर कांटय्या (जेसी-175788वाई)---  
01 अप्रैल 95।

नायब रिजालदार गरीब दास (जेसी-211463वाई)---01  
मई 95।

नायब रिजालदार सुरिन्दर कुमार (जेसी-219149ए)---23  
मई 95।

नायब रिजालदार मीहन्दर सिंह (जेसी-154844वाई)---01  
जून 95।

नायब रिजालदार भीम सिंह गुर्जर (जेसी-203166डब्ल्यू)---  
01 जून 95।

नायब रिजालदार बख्शीश सिंह (जेसी-219126वाई)---01  
जून 95।

नायब रिजालदार जबर सिंह (जेसी 154845एफ)---01 जून  
95।

नायब रिजालदार सज्जन सिंह (जेसी-219115 एम)---01  
जून 95।

नायब रिजालदार रूप सिंह बिष्ट (जेसी-154858वाई)---  
01 जून 95।

नायब रिजालदार आइवान सिंह गोवाड (जे सी-219136एच)  
---01 जून 95।

नायब रिजालदार अमर नाथ (जेसी-189666ए)---01 जून  
95।

नायब रिजालदार हर गिलास (जेसी-189676के)---01 जून  
95।

नायब रिजालदार जय सिंह (जेसी-211540एच)---01 जून  
95।

नायब रिजालदार हंसराज (जेसी-211466एम)---01 जून  
95।

नायब रिजालदार/एम के टी सेवा सिंह (जेसी-1665989एन)  
---07 जून 95।

नायब रिजालदार/एस के टी दलीप सिंह (जेसी-166599एन)  
---07 जून 95।

नायब रिजालदार/एम के टी परमराम (जेसी-170245एच)---  
07 जून 95।

नायब रिजालदार/एस के टी दयाना अजीया लिंगराजू (जेसी-  
173757एक्स)---07 जून 95।

नायब रिजालदार/एस के टी मधुरा बाम---(जेसी-175810  
वाई)---07 जून 95।

नायब रिजालदार सोम नाथ (जेसी-196751एल)---07 जून  
95।

नायब रिजालदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-203273एक्स)---07  
जून 95।

नायब रिजालदार हनुमान सिंह (जेसी-211487एच)---07  
जून 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) मरंजुन मिह (जेसी-  
196727पी)---07 जून 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) हरि सिंह (जेसी-196728  
एक्स)---07 जून 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) लियाकत अली (जेसी-  
200712 एम)---07 जून 95।

नायब रिजालदार क्लर्क (जी डी) शशिन्द्र मिह (जेसी-  
200714 एक्स)---07 जून 95।

नायब रिजालदार द्विजबाग सिंह (जेसी-200831एच)---07  
जून 95।

नायब रिजालदार गुरबक्म सिंह (जेसी-196752एन)---07  
जून 95।

नायब रिजालदार सुब्बा पाल सामी (जेसी-196766एन)---  
07 जून 95।

- नायब रिसालदार क्लर्क (जीडी) राम नाथ शर्मा (जंसी-200715 ए)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार क्लर्क (जीडी) हरग्यान सिंह (जंसी-200716 एफ)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार क्लर्क (जीडी) सूबे सिंह (जंसी-200717 एल)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार क्लर्क (जीडी) जय सिंह कटोवा (जंसी-200718 एन)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार जर्नेल सिंह (जंसी-211532 के)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार प्रेम सिंह राना (जंसी-206597 एन)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार/एस के टी श्याम सिंह उदावता (जंसी-175811 एफ)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार/एस के टी शंभर शर्मा (जंसी-181329 डब्ल्यू)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार/एस के टी बी एम उथापा (जंसी-181333 बाई)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार हंस राज (जंसी-203197 डब्ल्यू)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार क्लर्क (जीडी) अरुमुधम दुराई (जंसी-200719 डब्ल्यू)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार क्लर्क (जीडी) परमजीत सिंह (जंसी-200720 एल)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार क्लर्क (जीडी) जांगा सिंह परमार (जंसी-200721 एन)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार क्लर्क (जीडी) गुरु प्रताप सिंह (जंसी-200722 डब्ल्यू)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार विरिन्दर सिंह (जंसी-156774 के)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार राम निलास (जंसी-195385 ए)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार बक्सी राम (जंसी-195368 ए)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार रघुनाथ सिंह राठौर (जंसी-196757 एम)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार केशर सिंह (जंसी-195438 एम)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार वंश राज मिश्र (जंसी-200684 एल)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार मयना राम (जंसी-200815 एन)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार अजीत सिंह (जंसी-203216 डब्ल्यू)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार बृहम पाल सिंह (जंसी-203218 एफ)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार वंद प्रकाश (जंसी-206534 एल)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार भीम सिंह (जंसी-206563 ए)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार परशोत्तम दास (जंसी-206580 ए)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार जर्नेल सिंह (जंसी-206548 एल)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार बल सिंह (जंसी-211522 ए)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार बावा सिंह (जंसी-219067 एक्स)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार संत राम (जंसी-216359 एफ)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार जोगिन्दर सिंह (जंसी-222899 के)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार विजय नारायण सिंह (जंसी-219181 एफ)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार एम परमा शिवन (जंसी-219182 एक्स)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार शेर सिंह (जंसी-200687 बाई)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार रणजीत सिंह (जंसी-200813 ए)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार निजामुद्दीन खान (जंसी-203185 पी)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार परमानन्द (जंसी-206565 एल)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार कुलवन्त सिंह (जंसी-219183 ए)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार रघुनाथ राम (जंसी-219127 एफ)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार बलविन्दर सिंह (जंसी-219119 एन)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार फूल चन्द अम्बावत (जंसी-195387 एल)—07 जून 95 ।
- नायब रिसालदार राजेन्द्र सिंह (जंसी-203253 के)—07 जून 95 ।

नायब रिसालदार दर्शन सिंह (जैसी-206566 एन)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार करना सिंह (जैसी-195424 एन)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार क्लर्क (जीडी) श्री चन्द चौहान (जैसी-200767 डब्ल्यू)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार सुखवीर सिंह अहलावत (जैसी-211506 एन)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार मान सिंह (जैसी-222885 के)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार राज कुमार (जैसी-206535 एन)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार भंवर सिंह (जैसी-183632 डब्ल्यू)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार वीरचन्द्र सिंह (जैसी-200825 पी)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार अजीत सिंह (जैसी-219120 एक्स)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार रोहताश सिंह (जैसी-219130 एफ)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार शंकर सिंह (जैसी-235591 पी)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार पाटील विनायक शंकर (जैसी-235592 एक्स) 07 जून 95 ।

नायब रिसालदार शिंभू दयाल सिंह (जैसी-235641 पी)---07 जून 95 ।

नायब रिसालदार दलजीत सिंह (जैसी-222901 एच) 07 जून 95 ।

मेकानाइज्ड इन्फान्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुन्दर सिंह मडगल (जैसी-152366 एफ)---01 अगस्त 1995 ।

सूबेदार ओम प्रकाश (जैसी-157232 एम)---01 अक्टूबर 1995 ।

सूबेदार पाटील मारुती किमन (जैसी-148285 के)---01 अक्टूबर 1995 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नखसर सिंह (जैसी-173733 डब्ल्यू)---01 जुलाई 1994 ।

नायब सूबेदार कन्हानन्दन के (जैसी-184118 वाई)---01 दिसम्बर 1994 ।

नायब सूबेदार देवी प्रसाद (जैसी-184121 वाई)---01 जून 1995 ।

नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जैसी-189704 एल)---01 जून 1995 ।

नायब सूबेदार गोरु राम (जैसी-189705 एल)---01 जून 1995 ।

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जैसी-189707 वाई)---01 जून 1995 ।

नायब सूबेदार टीका राम (जैसी-195449 ए)---01 जून 1995 ।

नायब सूबेदार हर स्वरूप गुर्जर (जैसी-195468 एल)---01 जून 1995 ।

नायब सूबेदार राजिन्द्र सिंह (जैसी-195461 एफ)---01 जुलाई 1995 ।

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जैसी-201568 पी)---01 अगस्त 1995 ।

नायब सूबेदार जंग बहादुर (जैसी-181404 पी)---01 अगस्त 1995 ।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जैसी-200842 पी)---01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार जय राम तन्वर (जैसी-216415 एच)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार नर नाथ (जैसी-200863 एल)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जैसी-206643 एक्स)---01 जनवरी 1996 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नारायण सिंह गुरुंग (नं. 5747316 वाई अब जैसी-418515 डब्ल्यू)---11 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जून 1994 से दी जायेगी) ।

हवलदार हूकम सिंह (नं. 4545288 वाई अब जैसी-418516 वाई)---24 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सैद्धांतिक ज्येष्ठता 01 अगस्त 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार चन्द्रा सिंह पुन (नं. 5747467 एक्स अब जैसी-418517 एफ)---11 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अगस्त 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार खडका बहादुर थापा (नं. 5747172 एफ अब जैसी-418518 के)---27 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार खेम बहादुर गुरुग (नं. 5747682 एच अब जेसी-418519 एम)—16 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 नवम्बर 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार जय लाल (नं. 4058354 एम अब जेसी-418520 एफ)—30 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मई 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार उमा दत्त (नं. 4058551 पी अब जेसी-418521 के)—30 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मई 1995 से दी जायेगी) ।

हवलदार मनोहर सिंह (नं. 2868499 ए अब जेसी-418522 एम)—20 नवम्बर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 1995 से दी जायेगी) ।

हवलदार हरी किशन सिंह (नं. 3170341 ए अब जेसी-418523 पी)—10 नवम्बर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 1995 से दी जायेगी) ।

हवलदार जगदीश सिंह (नं. 13737964 वाई अब जेसी-418524 एक्स)—22 नवम्बर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार परशोत्तम दास (1373970 एम अब जेसी-418525 ए)—22 नवम्बर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार मनबर सिंह (4547657 के अब जेसी-418526 एच)—25 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार गोविन्द सिंह (4548015 एफ अब जेसी-418527 एल)—31 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार भारत सिंह (4057847 एफ अब जेसी-418528 एन)—30 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार गिरिश चन्द्रा (4549518 वाई अब जेसी-418529 डब्ल्यू)—25 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार बल बहादुर थापा (5747730 एक्स अब जेसी-418530 एल)—01 अक्टूबर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अगस्त 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार जगत सिंह (4170268 एच अब जेसी-418531 एन)—03 नवम्बर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार परमा नन्द (13738988 पी अब जेसी-418532 डब्ल्यू)—22 नवम्बर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार मंहर चन्द (3974520 वाई अब जेसी-418533 वाई)—11 नवम्बर 1995\* ।

\* (नायब सूबेदार के रक मं वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार गुरदेव सिंह (3974563 एन अब जेसी-418534 एफ)—01 नवम्बर 1995 ।

कौर आफ मिलिंद्री पुलिस

नायब सूबेदार के रक मं

हवलदार द्रोपे मदादु विद्योबा (नं. 7768552 ए अब जेसी-818158 एम)—1 अप्रैल 1995 ।

हवलदार सुबाश चंदर (नं. 7767814 वाई अब जेसी-818159 पी)—1 अप्रैल 1995 ।

हवलदार कृष्ण कुमार (नं. 7768099 एन अब जेसी-818160 के)—1 मई 1995\* ।

हवलदार शोदे वसंत बापू (नं. 7768259 एच अब जेसी-818162 पी)—1 अप्रैल 1995 ।

हवलदार श्यामल चौधरी (नं. 7768124 एफ अब जेसी-818163 एक्स)—1 अप्रैल 1995 ।

हवलदार पी राघवन नायर (नं. 7767950 पी अब जेसी-818164 ए)—1 अप्रैल 1995 ।

हवलदार तरलेक सिंह (नं. 7768491 एन अब जेसी-818165 एच)—2 जुलाई 1995\* ।

हवलदार तरलोचन सिंह दिआल (नं. 7768582 एक्स अब जेसी-818166 एल)—23 जून 1995\* ।

हवलदार राम करन (नं. 7768583 ए अब जेसी-818167 एन)—1 अप्रैल 1995 ।

हवलदार राम फल (नं. 7768581 पी अब जेसी-818168 डब्ल्यू)—15 जून 1995\* ।

हवलदार सुमर सिंह (नं. 7768585एल अब जेसी-819169 वाई)---14 अप्रैल 1995\* ।

हवलदार सत्य पाल (नं. 7768587डब्ल्यू अब जेसी-818170एन)---12 जून 1995\* ।

हवलदार सुरेश चन्द्र साहा (नं. 7768593के अब जेसी-818171डब्ल्यू)---1 अप्रैल 1995 ।

हवलदार अशोक कुमार सिंह (नं. 7768594एम अब जेसी-818172वाई)---3 जुलाई 1995\* ।

हवलदार काना राम (नं. 7768600पी अब जेसी-818173 एफ)---1 अप्रैल 1995 ।

हवलदार राम नरेश (नं. 7768604एल अब जेसी-818174 के)---1 अप्रैल 1995 ।

हवलदार शंकर लाल (नं. 7768652एल अब जेसी-818175 एम)---1 मई 1995 ।

हवलदार सुरेश कुमार (नं. 7768611एफ अब जेसी-818176पी)---1 जून 1995 ।

हवलदार जै प्रकाश (नं. 7768638वाई अब जेसी-818177 एक्स)---8 जुलाई 1995@ ।

हवलदार धरमबीर अंगरा (नं. 7768629एक्स अब जेसी-818178ए)---1 जून 1995 ।

हवलदार अमिकार सिंह (नं. 7768644वाई अब जेसी-818179एच)---1 जून 1995 ।

हवलदार भोजराज सिंह (नं. 7768246एल अब जेसी-818180एक्स)---7 अगस्त 1995@ ।

हवलदार मनवीर सिंह (नं. 7768679एच अब जेसी-818181ए)---1 अगस्त 1995 ।

हवलदार हरपतू राम (नं. 7768728ए अब जेसी-818182 एच)---1 अगस्त 1995 ।

हवलदार बालाकृष्णन कोपी (नं. 7768759ए अब जेसी-818183एल)---1 अगस्त 1995 ।

हवलदार आत्तम प्रकाश (नं. 7768767वाई अब जेसी-818184एन)---1 अगस्त 1995 ।

हवलदार रन्धीर सिंह (नं. 7768779एन अब जेसी-818185डब्ल्यू)---1 अगस्त 1995 ।

हवलदार पान सिंह (नं. 7768783डब्ल्यू अब जेसी-818188 के)---4 अगस्त 1995 ।

हवलदार हरी सिंह (नं. 7768786के अब जेसी-818189 एम)---1 सितम्बर 1995 ।

हवलदार राम किशन (नं. 7768794एच अब जेसी-818190एफ)---1 सितम्बर 1995 ।

हवलदार बिजु लाल (नं. 7768300एन अब जेसी-818191 के)---1 सितम्बर 1995 ।

हवलदार चितरंजन बिस्वास (नं. 7768288एक्स अब जेसी-818193पी)---13 अक्टूबर 1995ई ।

हवलदार मुशी लाल (नं. 7768529एम अब जेसी-818194 एक्स)---13 अक्टूबर 1995ई ।

हवलदार विष्व चन्द्र (नं. 7768556डब्ल्यू अब जेसी-818195ए)---13 अक्टूबर 1995ई ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 1995 से दी जाएगी) ।

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1995 से दी जाएगी) ।

ई (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1995 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार फणीधर कलीता (नं. 7770258वाई अब जेसी-818161एम)---1 अप्रैल 1995 ।

हवलदार भागीरथी मोहनती (नं. 7770283एक्स अब जेसी-818186वाई)---2 अगस्त 1995\* ।

हवलदार यूमनाथ बिंद्या बाबू सिंह (नं. 7770318एच अब जेसी-818187एफ)---1 अगस्त 1995 ।

हवलदार जगदीश चंद्र राना (नं. 7769915एल अब जेसी-818192 एम)---1 सितम्बर 1995 ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1995 से दी जाएगी) ।

आर. जी. हेगडे  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 140, दिनांक 7 फरवरी 1996--राष्ट्रपति, निम्न-लिखित पदान्तरितियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

पेराशूट रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार एस अरॉकिया मामी (जेसी-193637एच)---01 मई 95 ।

नायब सूबेदार छत्ते दशरथ शंकर राजा (जेसी-188606वाई)---01 मई 95 ।

नायब सूबेदार बापू कराने (जेसी-167404के)---01 जुलाई 95 ।

नायब सूबेदार समुप सिंह (जंसी-196372पी)--01 अक्तूबर 1995 ।

नायब सूबेदार मणिपाल सिंह (जंसी-210895एल)--01 अक्तूबर 1995 ।

नायब सूबेदार आशा राम (जंसी-194506के)--01 नवम्बर 1995 ।

पंजाब रजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार धर्म सिंह (जंसी-151614ए)--01 अगस्त 1995 ।

सूबेदार राजन सिंह गिल (जंसी-145373पी)--01 अगस्त 1995 ।

सूबेदार भाग सिंह (जंसी-151623एफ)--01 सितम्बर 1995 ।

सूबेदार मान चन्द (जंसी-151596एच)--01 अक्तूबर 1995 ।

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जंसी-151571डब्ल्यू)--01 अक्तूबर 1995 ।

सूबेदार निहाल सिंह (जंसी-124575एक)--01 अक्तूबर 1995 ।

सूबेदार थोडू राम (जंसी-174963डब्ल्यू)--01 नवम्बर 1995 ।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

ना. सूबेदार लिपिक मोहिन्दर सिंह (जंसी-199195एल)--01 सितम्बर 1995 ।

सूबेदार के रैंक में

ना. सूबेदार गुरनाम सिंह (जंसी-201799एल)--01 जुलाई 1995 ।

ना. सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जंसी-192881डब्ल्यू)--01 अक्तूबर 1995 ।

ना. सूबेदार अमरजीत सिंह (जंसी-178431एन)--07 अक्तूबर 1995 ।

ना. सूबेदार बलविन्दर सिंह (जंसी-196835वाइ)--20 अक्तूबर 1995 ।

ना. सूबेदार मणिप सिंह (जंसी-203964के)--01 दिसम्बर 1995 ।

ना. सूबेदार प्रकाश चन्द्र (जंसी-208003एम)--01 दिसम्बर 1995 ।

ना. सूबेदार राम सरन (जंसी-210926डब्ल्यू)--01 दिसम्बर 1995 ।

मद्रास रजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार थामस जोन (सं. 129425डब्ल्यू)--1 दिसम्बर 1995 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रविन्द्र पी (सं. 178203एल)--1 जून 1995 ।

नायब सूबेदार अन्नामोनी पी (सं. 176884एक्स)--1 अक्तूबर 1995 ।

नायब सूबेदार सुभास चन्द्रा पटनायक (सं. 178196ए)--1 अक्तूबर 1995 ।

प्रिन्सिपल

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हुसाम अली खान (जंसी-115057एन)--01 नवम्बर 1995 ।

सूबेदार पृथ्वी सिंह (जंसी-127512एल)--01 नवम्बर 1995 ।

सूबेदार हरी चन्द (जंसी-130583एक्स)--01 नवम्बर 1995 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भंवर सिंह (जंसी-164492ए)--01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार जयसी राम (जंसी-175343एम)--01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार धाज सिंह (जंसी-178973एक्स)--01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार अलीज मोहम्मद (जंसी-205096एफ)--01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार बिशम्बर क्याल (जंसी-193695एम)--01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जंसी-174995वाइ)--01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार सुरेन्द्रा बहादुर सिंह (जंसी-173827एन)--01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार कमल किशोर (जंसी-178969पी)--01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार कमाल सिंह (जंसी-178482एफ)--01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार अनूप खान (जंसी-210971एक)--01 नवम्बर 1995 ।

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार उमेश सिंह (जंसी-114175एच)---01 दिसम्बर 1995 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सूरज भान सिंह गौतम (जंसी-193640एच)---01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार बली राम (जंसी-183410एफ)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार भाली राम (जंसी-178974ए)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार अब्दुल सत्तार (जंसी-192901वाह)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार मोहम्मद हनीफ अली (जंसी-218426एन)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार इकगम अली अंसारी (जंसी-193678एम)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार मोहम्मद अलताफ (जंसी-216513एच)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार माता दीन (जंसी-205098एम)---01 दिसम्बर 1995 ।

## सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) हरनाम सिंह (जंसी-208302एल)---01 दिसम्बर 1995 ।

## राजपूत रीजमेन्ट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार शिव राज सिंह (जंसी-156012डब्ल्यू)---01 अगस्त 1995 ।

## सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क बलराम सिंह (जंसी-203669एफ)---01 फरवरी 1995 ।

नायब सूबेदार क्लर्क विजेंद्र सिंह (जंसी-201900ए)---01 फरवरी 1995 ।

## जाट रीजमेन्ट

## सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

नायब सूबेदार (संगीतकार) जामन सिंह (जंसी-192939एच)---01 जनवरी 1993 ।

## सिख रीजमेन्ट

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जंसी-151322एक्स)---01 अक्टूबर 1995 ।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जंसी-192967पी)---01 अक्टूबर 1995 ।

नायब सूबेदार हरदेव सिंह (जंसी-193773वाह)---01 अक्टूबर 1995 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जंसी-171949वाह)---01 नवम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार कीरपाल सिंह (जंसी-204290के)---01 नवम्बर 1995 ।

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जगरूप सिंह (जंसी-151312एन)---01 अक्टूबर 1995 ।

सूबेदार रूलदा सिंह (जंसी-162302के)---01 नवम्बर 1995 ।

सूबेदार चंघ सिंह (जंसी-143645एल)---01 नवम्बर 1995 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जंसी-183466एल)---01 सितम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार मकरन सिंह (जंसी-192612के)---01 दिसम्बर 1995 ।

## डोगरा रीजमेन्ट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कपूर चन्द (जंसी-152876एच)---01 दिसम्बर 1995 ।

सूबेदार शिव प्रसाद शर्मा (जंसी-145500वाह)---01 दिसम्बर 1995 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जंसी-179375एम)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जंसी-180885ए) 01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार मुख लाल (जंसी-185794ए)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार मनमोहन सिंह मलारिया (जंसी-192623 डब्ल्यू)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार जुल्फी राम (जंसी-201063 वाह)---01 दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह रानोत (जंसी-201966डब्ल्यू)---01 दिसम्बर 1995 ।



नायब सूबेदार उधम सिंह (जेसी-201968एफ)--01  
दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार जीत राम चन्द्रल (जेसी-205960एफ)--01  
दिसम्बर 1995 ।

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-183019के)--01 जनवरी  
1996 ।

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मूल राज शर्मा (जेसी-152963डब्ल्यू)--01 फरवरी  
1995 ।

सूबेदार रामेन्द्र सिंह नेगी (जेसी-137618एल)--01 अप्रैल  
1995 ।

सूबेदार यशवन्त सिंह (जेसी-132383ए)--01 अप्रैल  
1995 ।

सूबेदार महिपाल सिंह (जेसी-141856पी)--01 मई  
1995 ।

सूबेदार मोहन सिंह रावत (जेसी-132384एच)--01 जून  
1995 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मरत चन्द्र सिंह गुसाईं (जेसी-185541एल)  
--01 फरवरी 1995 ।

नायब सूबेदार सच्चिदा नन्द धर्पालियान (जेसी-192645पी)--  
01 अप्रैल 1995 ।

नायब सूबेदार पान सिंह (जेसी-192646एक्स)--01 अप्रैल  
1995 ।

नायब सूबेदार महाराज सिंह (जेसी-194634एफ)--01 मई  
1995 ।

नायब सूबेदार यशवन्त सिंह (जेसी-201999एफ)--01 जून  
1995 ।

नायब सूबेदार मोहन सिंह नेगी (जेसी-196531एफ)--01  
जून 1995 ।

नायब सूबेदार हरीकत सिंह रावत (जेसी-205982एल)--01  
जून 1995 ।

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह गुसाईं (जेसी-211217एन)--  
01 जून 1995 ।

नायब सूबेदार आनन्द मणी (जेसी-211218डब्ल्यू)--01 जून  
1995 ।

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-188527के)--01 जून  
1995 ।

5—514 GE/95

नायब सूबेदार देव सिंह भन्डारी (जेसी-196534पी)--01  
जून 1995 ।

नायब सूबेदार दिनेश सिंह गुसाईं (जेसी-179002वाडी)--  
01 जून 1995 ।

नायब सूबेदार बचन सिंह भन्डारी (जेसी-179402एल)--01  
जून 1995 ।

नायब सूबेदार गंगा दत्त (जेसी-183036के)--01 जून  
1995 ।

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह त्रिष्ट (जेसी-185531एफ)--  
01 जून 1995 ।

नायब सूबेदार रणजीत सिंह बिष्ट (जेसी-185811पी)--01  
जून 1995 ।

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह राणा (जेसी-192648एच)--01  
जून 1995 ।

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-193806वाडी)--01 जून  
1995 ।

नायब सूबेदार दिनाकर सिंह रावत (जेसी-196535एक्स)--  
01 जून 1995 ।

जम्मू और काश्मीर वाइंट इन्फेन्ट्री

दोस सूबेदार रैंक की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार तारा सिंह (जेसी-185104एल)--09 जुलाई  
95 ।

नायब सूबेदार अमरुत अली (जेसी-205321एल)--09  
जुलाई 95 ।

नायब सूबेदार उजागर सिंह (जेसी-178328एच)--09  
जुलाई 95 ।

नायब सूबेदार बन्सी लाल (जेसी-201868एच)--09 जुलाई  
95 ।

नायब सूबेदार शरीफ दीन (जेसी-172094एन)--09 जुलाई  
95 ।

नायब सूबेदार फकीर चन्द (जेसी-172831के)--23 अगस्त  
95 ।

नायब सूबेदार नैन सिंह (जेसी-201171एच)--23 अगस्त  
95 ।

नायब सूबेदार मीरजा मोहम्मद अफजल (जेसी-205730वाडी)  
--23 अगस्त 95 ।

11 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बिल कुमार सुब्बा (जेसी-179060एन)--01  
अक्टूबर 95 ।

सुबेदार प्रेम कुमार राई (जंसी-134825एम)--01 अक्टूबर 95 ।

सुबेदार बिनोद कुमार राई (जंसी-147554वाई)--01 नवम्बर 95 ।

सुबेदार के रैंक में

ना. सु. पुजेन्द्र सिंह बस्नोट, एस एम (जंसी-193922एफ)--01 अक्टूबर 95 ।

ना. सु. सन्ता कुमार लिम्बू (जंसी-194708एल)--01 अक्टूबर 95 ।

ना. सु. दिल बहादुर चामलिंग (जंसी-205754एच)--01 अक्टूबर 95 ।

ना. सु. गौपाल राई (जंसी-196932इल्यू)--01 नवम्बर 95 ।

ना. सु. राजेन तामांग (जंसी-196650एक्स)--01 नवम्बर 95 ।

सुबेदार मंजर के रैंक में

सुबेदार निमा सिंह तामांग (जंसी-108813ए)--01 नवम्बर 95 ।

सुबेदार जतना प्रसाद राई (जंसी-155161एक्स)--01 दिसम्बर 95 ।

सुबेदार कमल कुमार तामांग (जंसी-145634एक्स)--01 दिसम्बर 95 ।

सुबेदार के रैंक में

ना. सु. खाम नारायण राई (जंसी-193029एफ)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. नरेश कुमार राई (जंसी-196933वाई)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. विष्णु प्रसाद राई (जंसी-196934एफ)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. पदम बहादुर लिम्बू (जंसी-196935के)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. विपक जंग थापा (जंसी-168957एम)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. दिल बहादुर राई (जंसी-205757इल्यू)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. नीतांग राई (जंसी-202144एल)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. कमल कुमार राई (जंसी-202145एन)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. कमल कुमार राई (जंसी-202746इल्यू)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. (क्लर्क) बनसी राम (जं सी-205756एन)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. अजीत कुमार सुब्बा (जंसी-205735एक्स)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. (क्लर्क) राम नगिना राम (जंसी-205763के)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. (क्लर्क) बीम्बमवरण के (जंसी-205764एम)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. काशी बहादुर देवान (जंसी-205736ए)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. दिल बहादुर लिम्बू (जंसी-205737एच)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. धन बहादुर राई (जंसी-205738एल)--01 दिसम्बर 95 ।

सुबेदार मंजर के रैंक में

सुबेदार नकूल देवे राई (जंसी-132813वाई)--01 दिसम्बर 95 ।

सुबेदार के रैंक में

ना. सु. टंक नाथ राई (जंसी-196651ए)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. धन बहादुर राई (जंसी-196653एल)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. सहर मान राई (जंसी-184525पी)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. (क्लर्क) कृष्णा पान सिंह (जंसी-205755एल)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. धन बहादुर राई (जंसी-205765पी)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. गणेश बहादुर राई (जंसी-205766एक्स)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. भुवन कुमार राई (जंसी-205767ए)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. कृष्णा बहादुर थापा (जंसी-205769एल)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. विनेश तामांग (जंसी-205770ए)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. मन बहादुर राई (जंसी-205768एच)--01 दिसम्बर 95 ।

ना. सु. खरका प्रसाद निम्बू (जैसी-205773एल)--01  
दिसम्बर 95 ।

ना. सु. रत बहादुर राना (जैसी-205774एडब्ल्यू)--01  
दिसम्बर 95 ।

ना. सु. बिर मारा राई (जैसी-208727एम)--01 दिसम्बर  
95 ।

4 जी. आर.

सुबेदार के रैंक में

नायब सुबेदार राम कुमार राना, सेना मंडल (जैसी-162240  
पी)--01 अक्टूबर 1995 ।

नायब सुबेदार जीवन कुमार देवान (जैसी-181919पी)--  
01 नवम्बर 1995 ।

नायब सुबेदार कुन्दन सिंह (जैसी-162338एच) --01  
नवम्बर 1995 ।

नायब सुबेदार कुन्दन सिंह (जैसी-162338एच)--01 नव-  
म्बर 1995 ।

नायब सुबेदार अभिनव कुमार थापा (जैसी-196657 एफ)--  
01 नवम्बर 1995 ।

नायब सुबेदार धन बहादुर गुरूग (जैसी-193952बाई)--  
01 नवम्बर 1995 ।

नायब सुबेदार बंके बहादुर गुरूग (जैसी-181916एफ)--  
01 नवम्बर 1995 ।

सुबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सुबेदार (लिपिक) चंका प्रसाद यादव (जैसी-205374  
के) 01 नवम्बर 1995 ।

5 जी आर (एफ एफ)

सुबेदार मेजर के रैंक में

सुबेदार भूपाल सिंह थापा (जैसी-138166ए)--01 अक्टूबर  
1995 ।

सुबेदार के रैंक में

नायब सुबेदार इन्द्र बहादुर थापा (जैसी-205793एफ)--01  
अक्टूबर 1995 ।

8 जी आर

सुबेदार मेजर के रैंक में

सुबेदार हर्षा बहादुर पुन (जैसी-129314बाई)--01  
अगस्त 1995 ।

सुबेदार के रैंक में

नायब सुबेदार गंगा लाल पुन (जैसी-173282एफ)--01  
अगस्त 1995 ।

9 जी आर

सुबेदार के रैंक में

नायब सुबेदार ललित कुमार थोशी (जैसी-185581एम)--  
01 जनवरी 1994 ।

नायब सुबेदार बल बहादुर कारकी (जैसी-208451एक्स)--  
01 अगस्त 1994 ।

नायब सुबेदार उमर बहादुर क्षेत्री (जैसी-185127एम)--01  
सितम्बर 1994 ।

नायब सुबेदार सोम नाथ सुबेदी (जैसी-185128पी)--01  
सितम्बर 1994 ।

नायब सुबेदार हरि लाल कारकी (जैसी-185901-डब्ल्यू)--  
01 नवम्बर 1994 ।

नायब सुबेदार ओम बहादुर क्षेत्री (जैसी-185129एक्स)--  
01 मार्च 1995 ।

नायब सुबेदार चन्द्रा बहादुर क्षेत्री (जैसी-185905एम)--01  
मार्च 1995 ।

नायब सुबेदार राजेन्द्र सिंह खत्री (जैसी-185582पी)--01  
मार्च 1995 ।

नायब सुबेदार विनोद कुमार थापा (जैसी-185583एक्स)--  
01 अप्रैल 1995 ।

नायब सुबेदार मछिन्द्रा बहादुर क्षेत्री (जैसी-185584ए)--  
01 अप्रैल 1995 ।

नायब सुबेदार तारा सिंह खत्री (जैसी-185585एच)--01  
मई 1995 ।

नायब सुबेदार हजारी प्रसाद (जैसी-185906पी)--01 मई  
1995 ।

सुबेदार मेजर के रैंक में

सुबेदार मेजर ओम प्रकाश शर्मा (जैसी-133646ए)--01  
दिसम्बर 1994 ।

सुबेदार मेजर दल बहादुर क्षेत्री (जैसी-138588एल)--01  
जुलाई 1995 ।

सुबेदार मेजर दिल बहादुर सेन (जैसी-129323ए)--01  
अक्टूबर 1995 ।

सुबेदार मेजर दुर्गा बहादुर अधिकारी (जैसी-130028के)--  
01 अक्टूबर 1995 ।

## गारद बिगुंड

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमेश चन्द्र (नं. 13673721के अब जंसी-402315 डब्ल्यू)—01 अप्रैल 1995 ।

हवलदार मनोज के आर घोरा (सं. 13675277एक्स अब जंसी-402316वाई)—29 अप्रैल 1995 ।

हवलदार राजू टी आर (सं. 13677357एन अब जंसी-402317एफ)—10 मई 1995 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 03 मई 1995 से वी जाएगी) ।

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 13672806एन अब जंसी-402318के)—11 जुलाई 1995 ।

हवलदार लखा मसीह (सं. 13670879एफ अब जंसी-402319एम)—23 जुलाई 1995 ।

हवलदार अमर सिंह (सं. 13673321एक्स अब जंसी-402320एफ)—23 जुलाई 1995 ।

हवलदार राज कुमार सिंह यादव (सं. 13676778के अब जंसी-402322एन)—01 अगस्त 1995 ।

हवलदार विरेंद्र सिंह (सं. 13676191एन अब जंसी-402323पी)—10 सितम्बर 1995 ।

हवलदार अमिका प्रसाद जोशी (सं. 13671977एन अब जंसी-402324एक्स)—14 सितम्बर 1995 ।

हवलदार विद्यान सिंह अधिकारी (सं. 13672413एक्स अब जंसी-402325ए)—15 अक्टूबर 1995 ।

हवलदार मन्थ प्रसाद (सं. 13672585एम अब जंसी-402326एफ)—11 नवम्बर 1995 ।

हवलदार जोश के टी (सं. 13675919एफ अब जंसी-402327एन)—01 दिसम्बर 1995 ।

हवलदार बिन्धुपपा बी यू (सं. 13676757एन अब जंसी-402328एन)—02 दिसम्बर 1995 ।

## नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) मज्जाद आलमखान (सं. 13674034एन अब जंसी-402321के)—01 अगस्त 1995 ।

## पंजाब रजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मिनाष चन्द्र (नं. 2467049 एच अब जं सी-428343 ए)—23 जुलाई 95 ।

हवलदार कर्म चन्द (नं. 2466102 डब्ल्यू अब जं सी-428344 एच)—01 सितम्बर 95 ।

हवलदार सवर्ण सिंह मनहास (नं. 2466723 पी अब जं सी-428345 एन)—01 सितम्बर 95 ।

हवलदार हरमेल सिंह (नं. 2469444 पी अब जं सी-428346 एन)—21 सितम्बर 95 ।

हवलदार प्रीतम सिंह (नं. 2464877 एच अब जं सी-428347 डब्ल्यू)—01 अक्टूबर 95 ।

हवलदार गुरबचन सिंह (नं. 2467987 एच अब जं सी-428348 वाई)—01 अक्टूबर 95 ।

हवलदार कारज सिंह (नं. 2465613 एन अब जं सी-428349 डब्ल्यू)—01 अक्टूबर 95 ।

हवलदार राम निवास (नं. 2465979एच अब जं सी-428350 डब्ल्यू)—01 अक्टूबर 1995 ।

हवलदार जोगिन्दर सिंह (नं. 2464067 ए अब जं सी-428351 वाई)—01 अक्टूबर 95 ।

हवलदार रमधीर सिंह लगनवाल (नं. 2466682 डब्ल्यू अब जं सी-428352 एफ)—01 अक्टूबर 95 ।

हवलदार सुरिन्दर सिंह मनकांठिया (नं. 2467047 एक्स अब जं सी-428353 के)—10 अक्टूबर 95 ।

हवलदार रमेश चन्द (नं. 2467376 एन अब जं सी-428354 एन)—23 अक्टूबर 95 ।

हवलदार संसार चन्द (नं. 2463978 के अब जं सी-428355 पी)—16 विसम्बर 95 ।

(सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्त पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 17 नवम्बर 95 से दी जाएगी) ।

हवलदार नरिन्दर सिंह (नं. 2467351 एफ अब जं सी-428356एक्स)—30 नवम्बर 95 ।

हवलदार प्रीतम सिंह (नं. 2466171 एम अब जं सी-428357 ए)—01 दिसम्बर 95 ।

हवलदार नन्द लाल (नं. 2466935 ए अब जं सी-428358 एच)—01 दिसम्बर 95 ।

## मद्रास रजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हनुपपा जिड्डिमनी (सं. 2582183ए अब जंसी-438355एच)—1 जून 1995 ।

हवलदार नंडुन्नेयान ए (सं. 2577097एन अब जंसी-438356एन)—1 दिसम्बर 1995 ।

## नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) बोगनी पुल्लैया (सं. 2576175एन अब जंसी-438357एन)—1 जनवरी 1996 ।

## प्रिन्सीपल

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गोविन्दा पाण्डे गुर्वेय्या (सं. 2667158वाई अब जं.सी-448416एच)—18 अप्रैल 1995 ।

हवलदार राज सिंह (सं. 2667726बाई अब जे.सी.-448417एन)---06 दिसम्बर 1995 ।

(नायब सूबेदार के रक में बंतेन तथा भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 95)

हवलदार बनारसी दास (सं. 2664769एफ अब जे.सी.-448418एन)---10 अक्टूबर 1995 ।

(नायब सूबेदार के रक में बंतेन तथा भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 95)

हवलदार महावीर सिंह (सं. 2669393डब्ल्यू अब जे.सी.-448419डब्ल्यू)---16 अक्टूबर 1995 ।

(नायब सूबेदार के रक में बंतेन तथा भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 95)

हवलदार अजदीर सिंह (सं. 2665025के अब जे.सी.-448420एन)---01 अक्टूबर 1995 ।

हवलदार परमार भक्त भाई मकला भाई (सं. 2673191एम अब जे.सी.-448421एन)---01 अक्टूबर 1995 ।

हवलदार रधू राम (सं. 2666372पी अब जे.सी.-448422डब्ल्यू)---01 अक्टूबर 1995 ।

#### राजपूत रोजमंटे

नायब सूबेदार के रक में

हवलदार तुलसा सिंह (सं. 2970627ए अब जे.सी.-478344बाई)---01 मार्च 1995 ।

हवलदार कामेश्वर सिंह (सं. 2972852एन अब जे.सी.-478345एफ)---28 अगस्त 1995 ।\*

\* (ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रक में बंतेन तथा भत्तो पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 18 अप्रैल 1995 में दी जायेगी) ।

हवलदार विजेंद्र सिंह (सं. 2976501डब्ल्यू अब जे.सी.-478346के)---21 मई 1995 ।

हवलदार शिव कुमार (सं. 2974746एन जे.सी.-478347एन)---15 अगस्त 1995 ।

\* (ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रक में बंतेन तथा भत्तो पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 1995 में दी जायेगी) ।

हवलदार छतर पाल सिंह (सं. 2973318एफ अब जे.सी.-478348पी)---01 अगस्त 1995 ।

हवलदार सौराज सिंह (सं. 2977134एफ अब जे.सी.-478349एफस)---01 अगस्त 1995 ।

हवलदार जग राम (सं. 2971799एफ अब जे.सी.-478350एफ)---08 सितम्बर 1995 ।\*

\* (ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रक में बंतेन तथा भत्तो पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 05 सितम्बर 1995 में दी जायेगी) ।

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 2972334एन अब जे.सी.-478351पी)---11 अक्टूबर 1995 ।\*

\* (ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रक में बंतेन तथा भत्तो पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 28 सितम्बर 1995 में दी जायेगी) ।

हवलदार कृष्ण पाल सिंह (सं. 2974141ए अब जे.सी.-478352एक्स)---29 सितम्बर 1995 ।

हवलदार जगत सिंह (सं. 2970631एन अब जे.सी.-478353ए)---01 अक्टूबर 1995 ।

हवलदार महावीर सिंह (सं. 2972481डब्ल्यू अब जे.सी.-478354एफ)---01 अक्टूबर 1995 ।

नायब सूबेदार क्लर्क के रक में

हवलदार क्लर्क गीर राज सिंह (सं. 2972923के अब जे.सी.-478355एल)---01 नवम्बर 1995 ।

#### जाट रोजमंटे

नायब सूबेदार के रक में

हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 3173865एम अब जे.सी.-488345पी)---1 नवम्बर 1995 ।

हवलदार रघुवीर सिंह दृडानिया (सं. 3166983एक्स 488346एक्स)---6 नवम्बर 1995 ।

हवलदार हरिवर सिंह (सं. 3166142पी अब जे.सी.-488347ए)---10 दिसम्बर 1995 ।

#### सिख रोजमंटे

नायब सूबेदार के रक में

हवलदार गुरनाम सिंह (3372742एक्स अब जे.सी.-498349बाई)---01 अक्टूबर 1995 ।

हवलदार प्रीतम सिंह (3372935एक्स अब जे.सी.-498350एन)---01 दिसम्बर 1995 ।

हवलदार सरदाग सिंह (3373630के अब जे.सी.-498351एन)---01 दिसम्बर 1995 ।

हवलदार किरपाल सिंह (3373177एक्स अब जे.सी.-498352वीई)---14 दिसम्बर 1995 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रक में बंतेन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1995 में दी जाती है) ।

हवलदार गुरमल सिंह (3375523एफ अब जे.सी.-498353एफ)---04 दिसम्बर 1995 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रक में बंतेन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 1995 में दी जाती है) ।

## नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क जग मोहन (3374005ए अब जंसी-498354के)---01 जनवरी 1996 ।

हवलदार क्लर्क मिलाप चन्द राणा (3975520एल अब जंसी-498355एम)---01 जनवरी 1996 ।

हवलदार क्लर्क नन्द लाल (3167990ए अब जंसी-498356पी)---01 जनवरी 1996 ।

## इन्फेन्ट्री सिग्नल लाइट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रणपालसिंह (4461147वाइए अब जंसी-5083315एफ)---05 अगस्त 1995 ।

हवलदार दसीदासिंह (4453306डब्ल्यू अब जंसी-508316के)---02 सितम्बर 1995 ।

हवलदार बलबोध सिंह (4455557वाइए अब जंसी-508317एम)---02 सितम्बर 1995 ।

हवलदार मोहन सिंह (4456529वाइए अब जंसी-508318पी)---02 सितम्बर 1995 ।

हवलदार सुखपालसिंह (4454028ए अब जंसी-508319एफएम)---18 अक्टूबर 1995 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अक्टूबर 1995 से दी जायेगी) ।

## डोंगरा रीजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार उत्तम सिंह (3974865ए अब जंसी 518457एम)---30 सितम्बर 1995 ।

हवलदार राम लाल (3980787के अब जंसी 518458पी)---01 नवम्बर 1995 ।

हवलदार प्रकाश चन्द (3972967एक्स अब जंसी 518459एक्स)---01 दिसम्बर 1995 ।

## गढ़वाल राइफल्स

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चतुर सिंह (नं. 4056332पी अब जं.सी.-528387एम)---27 नवम्बर 1995 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जुलाई 1995 से दी जाती है) ।

हवलदार मकान सिंह (नं. 4057897एम अब जं.सी.-528388पी)---13 अक्टूबर 1995 ।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 1995 से दी जाती है) ।

हवलदार सन्त लाल (नं. 4057053डब्ल्यू अब जं.सी.-528389एफएम)---03 दिसम्बर 1995 ।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1995 से दी जाती है) ।

हवलदार मंगल सिंह (नं. 4058826एक्स अब जं.सी.-528393ए)---01 दिसम्बर 1995 ।

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) रमेश चन्द (नं. 4056875एफ अब जं.सी.-528390एम)---24 नवम्बर 1995 ।

हवलदार (लिपिक) प्रेम सिंह (नं. 4057079एल अब जं.सी.-528391पी)---01 दिसम्बर 1995 ।

हवलदार (लिपिक) चैत सिंह (नं. 4057090के अब जं.सी.-528392एक्स)---01 दिसम्बर 1995 ।

## कमाउं रंजीमेंट

## नायब सूबेदार के पद में

हव. दया चन्द (नं. 4170036के अब जंसी-538388एच)---01 जून 95 ।

सीएचएस नन्दा बल्लभ (नं. 4171880वाइए अब जंसी-538389एल)---08 जुलाई 95 ।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 95 से दी गई) ।

सीएचएस किरपाल सिंह (नं. 4167768पी अब जंसी-538390ए)---01 नवम्बर 95 ।

## नागा रंजीमेंट

हव. राम सिंह (नं. 4165698एच अब जंसी-590023एच)---10 मई 95 ।

सीएचएम एल एच ग्लोबसन अनल (नं. 14700558एक्स अब जंसी-590024एल)---01 अक्टूबर 95 ।

हव. हींगितो सोमा (नं. 14701039एफ अब जंसी-590025एफ)---01 अक्टूबर 95 ।

## आसाम रंजीमेंट

## नायब सूबेदार के पद में

हवलदार नित्या नन्दा गोंगई (नं. 4350362 पी अब जंसी-548213 एल)---01 अप्रैल 95 ।

हवलदार गिरिश चन्द्र दास (नं. 4350208 डब्ल्यू अब जंसी-548214 डब्ल्यू)---01 जून 95 ।

हवलदार मतीराम कानिता (नं. 4350202 पी अब जंसी-548215 वाइए)---01 जून 95 ।

हवलदार डी वाइए विरेन अनल नागा (नं. 4348133 एल अब जंसी-548216 एफ)---01 अगस्त 95 ।

हवलदार रमा कान्त राय (नं. 4349420 एफ अब जंसी-548217 के)---21 सितम्बर 95\*\* ।

हवलदार वितय कुमार डोका (नं. 4349346 एल अब जंसी-548218 एम)—01 अगस्त 95 ।

हवलदार नर बहादुर थापा (नं. 4346950 एल अब जंसी-548219 पी)—01 अगस्त 95 ।

हवलदार कृष्णा कान्ता बेये (नं. 4349121 एल अब जंसी-548220 के)—01 नवम्बर 95 ।

\* (नायब सूबेदार के पद में वंश और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 95 से दी जायेगी) ।

#### 11 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमीर भाई राई (नं. 9415296 एल अब जंसी-634122 एन)—01 अप्रैल 95 ।

हवलदार (क्लर्क) फ़िरन राई (नं. 9414688के अब जंसी-634123 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 95 ।

हवलदार कृष्ण प्रकाश राई (नं. 9413325 एल अब जंसी-634124 वाई)—01 नवम्बर 95 ।

हवलदार ब्रिमल राई (नं. 9414671 डब्ल्यू अब जंसी-634125 पी)—02 दिसम्बर 95@ ।

@ (वंश और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 नवम्बर 95 से दी जायेगी) ।

हवलदार तेज बहादुर राई (नं. 9414446 एल अब जंसी-634126 के)—13 नवम्बर 95 ।

हवलदार जीवन कुमार राई (नं. 9414506 एल अब जंसी-634126 एम)—01 जनवरी 95 ।

हवलदार कुमार सिंह लिम्बू (नं. 9414523 एल अब जंसी-634128 पी)—01 अप्रैल 95 ।

हवलदार तीर्थमान राई (नं. 9414597 ए अब जंसी-634129 एक्स)—01 जून 95 ।

हवलदार राज कुमार राई (नं. 9414340 पी अब जंसी-634130 एम)—01 सितम्बर 95 ।

#### 9 जी आर

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) निर्मल सिंह (नं. 5843154 डब्ल्यू अब जंसी-629125 एक्स)—01 अगस्त 1995 ।

हवलदार (लिपिक) श्री राम गोडियाचा (नं. 5842974 डब्ल्यू अब जंसी-629134 वाई)—01 नवम्बर 1995 ।

#### 3 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भीम बहादुर गुरुनग (नं. 5241782 पी अब जंसी-607096 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 1995 ।

हवलदार लेस बहादुर थापा (नं. 5242153 के अब जंसी-607102 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 1995 ।

टी. सी. जैन  
अवर सचिव

मं. 141, दिनांक 9 फरवरी 1996—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेवा

कोर आफ इंजीनियर्स

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मंजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार दिवान सिंह संमल (जंसी-159505 एल)—01 अगस्त 95 ।

सूबेदार जनार्दन सिंह (जंसी-159756 एम)—01 नवम्बर 95 ।

सूबेदार गोविन्द बल्लभ (जंसी-159679 एल)—01 दिसम्बर 95 ।

सूबेदार मंजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क (जीडी) अजायब सिंह कलमी (जंसी-139818 ए)—01 अगस्त 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) सोबत सिंह पुंडीर (जंसी-138780 पी)—01 अगस्त 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) मरजीत सिंह (जंसी-138692 वाई)—01 अगस्त 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) अमरजीत सिंह मिन्हास (जंसी-142693 वाई)—01 अगस्त 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) मोहन सिंह (जंसी-142254 एल)—01 अगस्त 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) शिव दत्त पाठक (जंसी-145670 एल)—01 सितम्बर 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) रमेश चन्द्र (जंसी-142701 एम)—01 अक्टूबर 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) बलकार सिंह (जंसी-145667 एल)—01 अक्टूबर 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) गुरदीयाल सिंह (जंसी-142706 एल)—01 अक्टूबर 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) भानुचरण गुच्छट (जंसी-142704 एल)—01 अक्टूबर 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) मते सिंह (जंसी-143963 पी)—01 अक्टूबर 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) शोभ नाथ सिंह (जंसी-142703 एक्स)—01 नवम्बर 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) गुरदासन सिंह (जंसी-165404 एल)—01 नवम्बर 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) मन मोहन गगराई (जेसी-159408 एन)---01 दिसम्बर 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) हरवंश लाल (जेसी-159575 एफ)---01 दिसम्बर 95 ।

सूबेदार क्लर्क (जीडी) मन्ना सिंह (जेसी-162903 पी)---01 दिसम्बर 95 ।

सूबेदार सर्वे के रैंक में

सूबेदार सर्वे स्वामी शरण सिंह (जेसी-166801 ए)---01 अगस्त 95 ।

सूबेदार सर्वे नारायण दत्त पंत (जेसी-162901 के)---01 अगस्त 95 ।

सूबेदार सर्वे रमेश चन्दर गैंग (जेसी-177134 एम)---01 अगस्त 95 ।

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार नरेश सिंह (जेसी-177150 एन)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार रतन सिंह सोलंकी (जेसी-191349 एक्स)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार नरनाथ राम (जेसी-191477 पी)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार गुरमेल सिंह गिल (जेसी-191478 वाई)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कुलदेव सिंह (जेसी-197123 एच)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार भानु प्रताप सिंह (जेसी-199686 एफ)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार गंगा दत्त (जेसी-197162 एफ)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार जोगेंद्र प्रसाद (जेसी-197163 के)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार जोगेंद्र सिंह (जेसी-197164 एम)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार गुरधर सिंह (जेसी-197167 ए)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार जयगाम (जेसी-197171 एच)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार भिण्डर सिंह (जेसी-199831 एन)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार सुमर दत्त शर्मा (जेसी-197176 एफ)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार चवन सिंह भंडारी (जेसी-199689 पी)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार तीजन्दर सिंह (जेसी-199762 एच)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार शुभ राज सिंह (जेसी-197187 एन)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार अखिलाक्ष बर्मा (जेसी-197181 एम)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार राम प्रधान सिंह (जेसी-199692 पी)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-199693 एक्स)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-199694 ए)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार जनार्दन प्रसाद कौटनावा (जेसी-199699 वाई)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार नाग चन्द (जेसी-199704 वाई)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-199705 एफ)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार बंसी प्रसाद सिंह (जेसी-199763 एन)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार गेन्दा लाल (जेसी-199707 एम)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार उतास सिंह (जेसी-199708 पी)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कन्हैया सिंह (जेसी-199709 के)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-199725 डब्ल्यू)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार गेपी नाथ सिंह (जेसी-199767 एफ)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार दाबू राम (जेसी-199713 ए)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार लक्ष्मण प्रसाद शाही (जेसी-199716 एन)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-199719 एफ)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार छोटू लाल (जेसी-199721 वाई)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार चण्डी प्रसाद (जेसी-199727 के)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार मण्डेव सिंह (जेसी-199729 एन)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार मण्डल सिंह (जेसी-199730 ए)---01 अगस्त 95 ।



नायब सूबेदार चरण सिंह (जंसी-191136 एल)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार जय देव राम (जंसी-191437 एल)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जंसी-197182 पी)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार चरमजीत सिंह (जंसी-199818 को)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह बिष्ट (जंसी-199819 एम)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जंसी-199771 को)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जंसी-199772 एम)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार सुब्रह्मच सिंह (जंसी-199782 डब्लू)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार हरविशाल सिंह संघ (जंसी-199820 एफ)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार अलखेश सिंह (जंसी-199824 एक्स)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार चिंकाजी गरंग (जंसी-199784 एफ)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार मुख राम राम (जंसी-199785 को)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार गीरी बहादुर छेत्री (जंसी-199786 एम)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जंसी-199828 एल)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार मोहन सिंह चौहान (जंसी-199829 डब्ल्यू)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कान्वाल सिंह (जंसी-199836 एम)---01 अक्टूबर 95 ।

नायब सूबेदार तारा बहादुर थापा (जंसी-199789 ए)---01 अक्टूबर 95 ।

नायब सूबेदार राम सिंह (जंसी-199837 पी)---01 अक्टूबर 95 ।

नायब सूबेदार महेश चन्द्र ध्यामी (जंसी-199839 ए)---01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार गर्गेश सिंह रावत (जंसी-202911 वाई)---01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार विठ्ठल सरण सिंह (जंसी-202910 डब्लू)---01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार चमन सिंह (जंसी-202913 को)---01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार जसमेर सिंह (जंसी-202914 एम)---01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार तारकेश्वर प्रसाद (जंसी-202915 पी)---01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार सबरन सिंह (जंसी-202916 एक्स)---01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार हर मोहनन्दर राह (जंसी-202917 ए)---01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार स्वरुत सिंह (जंसी-202918 एक्स)---01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार परमिन्दर सिंह (जंसी-202919 एल)---01 दिसम्बर 95 ।

सूबेदार कलक (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार कलक (जीडी) इन्दर सिंह शमरीवाल (जंसी-191384 ए)---01 जनवरी 94 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) आलम सिंह रावल (जंसी-202941 डब्लू)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) सुब्रह्मच सिंह (जंसी-202874 डब्लू)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) उदय सिंह (जंसी-207881 डब्लू)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) महेश सिंह (जंसी-202876 ए)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) दया नन्द गहलावत (जंसी-202877 को)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) मदन गोपाल पाल (जंसी-202882 पी)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) धरमा नन्द सिंह (जंसी-202883 एक्स)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) तकदीर सिंह धडवाल (जंसी-202884 ए)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) देश राज बर्धवाल (जंसी-202885 एच)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) विजय कुमार सिंह (जंसी-202886 एल)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) धरमवीर राठी (जंसी-202887 एल)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) अत्तर सिंह (जंसी-202891 डब्लू)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) सत्य सिंह (जंसी-202892 वाई)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) राज कुमार सिंह (जंसी-202894 को)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) श्री कृष्ण शर्मा (जंसी-202895 एम)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार कलक (जीडी) प्रियम सिंह (जंसी-207883 एफ)---01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) अरुण कुमार घोष (जंसी-207884 के)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) राजेंद्र सिंह (जंसी-202900 एम)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) राम रंगक यादव (जंसी-207889 एन)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) शिवल प्रसाद पाण्डेय (जंसी-207890 एक्स)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) कृष्ण शंकर सिंह (जंसी-202902 एक्स)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) अजित चन्द (जंसी-191510 एफ)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) विजय कुमार (जंसी-202903 ए)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) गुरमेल सिंह (जंसी-210499 एल)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) राजिन्दर सिंह (जंसी-210500 पी)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) ओम प्रकाश चौधरी (जंसी-210738 पी)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) दया नन्द सिंह (जंसी-210506 डब्लू)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) कैलाश सिंहारी साहा (जंसी-210507 वाई)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) रत्न सिंह (जंसी-210509 के)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) काशी नाथ शर्मा (जंसी-210510 वाई)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) सत्यक शंकर गरमाटा (जंसी-210512 के)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) कामा चन्द ड (जंसी-210513 एम)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) फूल चन्द (जंसी-210516 ए)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) प्रमोद एन (जंसी-210520 एन)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) अशोक कुमार (जंसी-210739 एक्स)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) चरन सिंह (जंसी-210522 एम)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) धरम सिंह (जंसी-210523 एन)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) हरदेव चन्द्र मन्नीयम (जंसी-210525 एफ)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) दर्शन लाल शर्मा (जंसी-210520 के)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) अरुण सिंह (जंसी-210531 पी)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) कलुचंत सिंह (जंसी-210538 वाई)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) वैद्य प्रकाश (जंसी-210540 डब्लू)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) जसपाल सिंह (जंसी-210543 के)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) धीरेन्द्र कुमार दाम (जंसी-210546 एक्स)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) राम मोहर (जंसी-210547 ए)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) सारनाथ चौबे (जंसी-210552 ए)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) मोहम्मद गुस्फ मीर (जंसी-210555 वाई)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) मोहम्मद ओहीदुल्लाहक (जंसी-210561 एम)—01 सितम्बर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) प्रेम शंकर सिंह (जंसी-210567 एन)—01 अक्टूबर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) सत्य प्रकाश (जंसी-210568 डब्लू)—01 अक्टूबर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) ज्योती प्रकाश मोहनती (जंसी-210569 वाई)—01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) उत्तीन्द्र नाथ शर्मा (जंसी-210570 एन)—01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) रघुपति कुमार मंडल (जंसी-210571 डब्लू)—01 नवम्बर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) रमेश कुमार चक्रवर्ती (जंसी-210572 वाई)—01 दिसम्बर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) जवाहर लाल शुक्ला (जंसी-210574 के)—01 दिसम्बर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) दामोदर सिंह (जंसी-210575 एम)—01 दिसम्बर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) अरुण सिंह (जंसी-210576 पी)—01 दिसम्बर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) कलुचंत सिंह (जंसी-210577 एक्स)—01 दिसम्बर 95 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) विद्यानाथ कुमार साहू (जंसी-210578 ए)—01 दिसम्बर 95 ।

सूबेदार एसकेटी के सिंह

नायब सूबेदार एसकेटी के सिंह (जंसी-191455 डब्लू)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार एसकेटी मिलाप चन्द्र शर्मा (जंसी-191454 एन)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार एसकेटी अवध नाथ सिंह (जंसी-191387 एन)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार एसकेटी निर्मल सिंह गुलोरया (जंसी-197139 एन)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार एसकेटी राम प्रकाश कण्डवाल (जंसी-191456 बाई)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार एसकेटी (निर्मल कान्त साहा (जंसी-191457 एफ)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार एसकेटी कुशला नन्द मथानी (जंसी-197140 एच)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार एसकेटी प्रदीप कुमार (जंसी-197141 एल)—01 नवम्बर 95 ।

#### सूबेदार सर्वे के रैंक में

नायब सूबेदार सर्वे सत्य नारायण प्रसाद (जंसी-162898 पी)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार सर्वे नाग नारायण सिंह (जंसी-166804 के)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार सर्वे राम सदेक (जंसी-210625 एम)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार सर्वे दिलप्राग सिंह (जंसी-171491 ए)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार सर्वे मान सिंह (जंसी-224826 डब्ल्यू)—01 अगस्त 95 ।

नायब सूबेदार सर्वे राम खिलाड़ी (जंसी-224835 एका)—01 अगस्त 95 ।

एम. वी. विजयन  
डिस्क अधिकारी

#### (शुद्ध सेना विभाग)

सं. 142, तारीख 14 फरवरी 1996--राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतिगत करती है :-

#### नियमित सेना

#### सेना शिक्षा कर्मी

#### सूबेदार मंजर के रैंक में

पी/ए सूबेदार मंजर शक्ति सिंह मेहता (जंसी-145799 डब्ल्यू)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार मंजर रमेश चन्द्र शर्मा (जंसी-145815 एच)—01 अगस्त 1995 ।

पी/ए सूबेदार प्रताप सिंह (जंसी-147852 पी)—01 दिसम्बर 1995 ।

#### सूबेदार के रैंक में

पी/ए सूबेदार श्रद्धि केश राजत (जंसी-198462 पी)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार प्रभाकरण आर (जंसी-198878 एम)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार धरमवीर सिंह (जंसी-198891 डब्ल्यू)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार विश्वनु वल्ल (जंसी-198892 बाई)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार माहिन्दर पाल (जंसी-198907 डब्ल्यू)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार सतबीर सिंह (जंसी-200562 एफ)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार दर्शन सिंह (जंसी-200571 एच)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार गोरके को जे (जंसी-200583 एक्स)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार हरपाल सिंह नेगी (जंसी-201616 के)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार बल्ल पंथुना भीमना चौधरी (जंसी-201622 एक्स)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार चतर सिंह धीमार (जंसी-206138 पी)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार हरप्रकाश अहलावत (जंसी-206139 एक्स)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार विनोद कुमार (जंसी-206322 ए)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार अमर नाथ शर्मा (जंसी-206147 डब्ल्यू)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार रजत सिंह (जंसी-206149 एफ)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार बनारसी लाल (जंसी-211919 एम)—01 फरवरी 1995 ।

पी/ए सूबेदार गौरंगा गन्धोपाध्याय (जंसी-206110 पी)—01 मार्च 1995 ।

पी/ए सूबेदार हरपाल सिंह (जंसी-206118 पी)—01 जून 1995 ।

पी/ए सूबेदार प्यारो लाल रेवाड़ (जंसी-206825 एम)—01 अगस्त 1995 ।

पी/ए सूबेदार शिवान सिंह नेगी (जंसी-207059 एम)—01 सितम्बर 1995 ।

पी/ए सूबेदार शिव रामसिंह चौहान (जंसी-198885एच)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी/ए सूबेदार जगमाल सिंह, (जंसी-198898 ए)—01 दिसम्बर 1994 ।

पी ए सूबेदार करण सिंह पंवार, (जंसी-200568 एच)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार जगदीश चन्द्र शर्मा, (जंसी-200570 ए)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार नरसिंह नारायण मिश्रा (जंसी-200576एफ)  
---01 दिसम्बर 1994 ।

पी ए सूबेदार प्रेम चन्द, (जंसी-206122 के)---01  
दिसम्बर 1994 ।

पी ए सूबेदार ओम प्रकाश, (जंसी-201625 एल)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार उमेश सिंह, (जंसी-201634 एम)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार जटा शंकर झा, (जंसी-206073 एम)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार कृष्ण चन्द, (जंसी-201617 एम)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार दिवाकर मिश्रा, (जंसी-203973 एन)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार राधे श्याम, (जंसी-203974 एन)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार मत्या सिंह नेगी, (जंसी-203975 डब्ल्यू)  
---01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार ओम प्रकाश, (जंसी-203365 के)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार बृज किशोर सिंह, (जंसी-203978 के)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार हंसवर सिंह, (जंसी-207054 एन)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार आनन्द प्रकाश, (जंसी-206797 के)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार सर्व मोहन सिंह, (जंसी-206319 ए)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार अजुन सिंह नेगी, (जंसी-206090 एम)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार सूरत राम, (जंसी-206091पी)---01  
दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार सत्यवीर सिंह सांगवान, (जंसी-206132 एन)  
---01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार हिमम सिंह, (जंसी-211918 के)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार राजवीर सिंह, (जंसी-206799 पी)---  
01 दिसम्बर 1994.

पी ए सूबेदार जसर दाम, (जंसी-206153 के)---  
01 जनवरी 1995.

पी ए सूबेदार अनुसूया प्रसाद, (जंसी-206083 डब्ल्यू)---  
01 फरवरी 1995.

पी ए सूबेदार हौशियार सिंह, (जंसी-206341 एल)---  
01 मार्च 1995.

पी ए सूबेदार धिल्ले नाम्दुल बदनजी, (जंसी-206084 बाई)  
---01 अप्रैल 1995.

पी ए सूबेदार राम जन्म तिवारी, (जंसी-206836 एक्स)---  
01 नवम्बर 1995.

पी ए सूबेदार भगवान दास, (जंसी-206807 एच)---01  
नवम्बर 1995.

राम किशन  
शर्मा सचिव

थल सेवा विभाग

स. 143, तारीख 13 फरवरी 1996 राष्ट्रपति निर्दिष्ट  
पदों की पदोन्नति करने हैं :--

नियमित सेवा

सेवा डाक सेवा कार

अधिसूचना अधिकारी/हथकड़ी निष्पन्न से नागव सूबेदार

निष्पन्न (पोस्टल)

शिवराम, 8370469 के अब जंसी-834108 एम---18  
मई 94.

वी. नटराजन, 8372580 एम. अब जंसी-834109एन---  
25 जुलाई 94.

पी जेगामेन्दम, 8370198 एक्स अब जंसी-834110 एच  
---01 सितम्बर 94.

विजय कुमार, 8370461 एक्स अब जंसी-834111 एल---  
01 सितम्बर 94.

एम. एल. राजुरिका, 8369090 एन अब जंसी-834112  
एन---01 सितम्बर 94.

कुलदीप सिंह, 8371009 पी अब जंसी-834113 डब्ल्यू  
--- सितम्बर 94.

यू. एम. कल्याण, 8371060 पी अब जंसी-834114  
बाई---01 सितम्बर 94 ।

अश्वानन्द सिंह, 8371101 एन अब जंसी 834115 एफ)  
---01 सितम्बर 94.

शशोक कुमार गुप्ता, 8371168 एम अर जेसी-834116 को  
--01 सितम्बर 94.

कमलजीत सिंह, 8371241 ए अर जेसी-834117 एम--  
01 सितम्बर 94.

जयराम गुप्ता, 8371248 को अर जेसी-834118 पी--  
01 सितम्बर 94.

कमलता सोन्ध, 8371309 डब्ल्यू अर जेसी-834119 एम--  
--01 सितम्बर 94.

डी जगन्नाथन, 8371362 पी अर जेसी-834120 एम--  
01 सितम्बर 94.

बलदेवी लाल, 8371488 एम अर जेसी-834121 पी--  
01 सितम्बर 94.

सूरजभान नायर, 8371535 एम अर जेसी-834122 एम--  
--01 सितम्बर 94.

रुनबीर शर्मा, 8371607 एम अर जेसी-834123 ए--  
01 सितम्बर 94.

गंगाधरन नायर, 8371628 एम अर जेसी-834124 एम--  
01 सितम्बर 94.

जे. पी. रॉय, 8371662 एम अर जेसी-834125  
एम--01 सितम्बर 94.

आर. सुदुमणी, 8372057 एम अर जेसी-834126 एम--  
01 सितम्बर 94.

मैथिल महेश्वर जेसी, 8372297 वाई अर जेसी-834127  
डब्ल्यू--01 सितम्बर 94.

मदन सिंह, 8372600 पी अर जेसी-834128 वाई--  
01 सितम्बर 94.

सतपाल सिंह जगवाल, 8373417 वाई अर जेसी-834129  
एम--01 सितम्बर 94.

डी. रविशंकरम, 8371963 एम अर जेसी-834130 डब्ल्यू  
--14 सितम्बर 94.

पी वी एम मुर्ती, 8370661 एम अर जेसी-834131 वाई  
--01 अक्टूबर 94।

सी. सूर्यानारायण, 8371325 एम अर जेसी-834132 एम  
01 अक्टूबर 94.

को. विरय्य, 8371397 एम अर जेसी-834133 को--  
30 नवम्बर 94.

श्याम किशोर दुबे, 8371455 डब्ल्यू अर जेसी-834134  
एम--30 नवम्बर 94.

रुस्तम कानर, 8369461 एम अर जेसी-834135 पी--  
02 जनवरी 95.

सतपाल यादव, 8371741 एम अर जेसी-834136 एम--  
--12 जनवरी 95.

डी. श्रीरामलु, 8371326 डब्ल्यू अर जेसी-834137 ए--  
18 फरवरी 95.

राजुनाथ शर्मा, 8373152 ए अर जेसी-834138 एम--18  
फरवरी 95.

नायब सूबेदार की वरीयता निर्मातृलिखित प्रकार से दी गई है।

(क) क्रमांक 01 को 18 मई 94 से

(ख) क्रमांक 02 को 25 जुलाई 94

(ग) क्रमांक 03 से 22 को 01 सितम्बर 94

(घ) क्रमांक 23 को 14 सितम्बर 94 F F

(च) क्रमांक 24 से 25 को 01 अक्टूबर 94

(छ) क्रमांक 26 से 27 को 30 नवम्बर 94

(ज) क्रमांक 28 को 02 जनवरी 95

(झ) क्रमांक 29 को 12 जनवरी 95

(ड) क्रमांक 30 से 31 को 18 फरवरी 95

नायब सूबेदार की वरीयता 18 मई 94, 25 जुलाई 94, 01 सितम्बर 94, 14 सितम्बर 94, 01 अक्टूबर 94, 30 नवम्बर 94/02 जनवरी 95, 12 जनवरी 95 और 18 फरवरी 95 से प्रदान की जाती है। जेहन एत प्रती पर बिना किसी प्रभाव को उपयोग अधिकारी को नायब सूबेदार/लिफ्टक (एस्टल) के रैंक में 18 मई 94, 25 जुलाई 94, 01 सितम्बर 94, 14 सितम्बर 94, 01 अक्टूबर 94, 30 नवम्बर 94 02 जनवरी 95, 12 जनवरी 95 और 18 फरवरी 95 से वरीयता प्रदान की जाती है।

रक्षा तथा सुरक्षा केंद्र

सूबेदार सेजर को रैंक में

सूबेदार सभासित राय (जेसी-127186एम)--01 सितम्बर  
1995।

सूबेदार प्रेम नारायण (जेसी-127185एम)--01 अक्टूबर  
1995।

सूबेदार जय कृष्णन (जेसी-92002एम)--01 अक्टूबर  
1995।

सूबेदार हर्ष सिंह (जेसी-119704एम)--01 अक्टूबर  
1995।

सूबेदार मन्त बहादूर गुप्ता (जेसी-127195पी)--01  
अक्टूबर 1995।

सूबेदार सुरदीप सिंह (जेसी-94704एम)--01 अक्टूबर  
1995।

सूबेदार को रैंक में

नायब सूबेदार चम्पी लाल (जेसी-155790पी)--01 जुलाई  
1995।

नाथब सूबेदार दीप कुमार राव (जैसी-108815एल)---01  
जून 1995 ।

नाथब सूबेदार रानी राम राठौर (जैसी-176958के)---01  
अगस्त 1995 ।

नाथब सूबेदार भूप सिंह (जैसी-176967एल)---01 सितम्बर  
1995 ।

नाथब सूबेदार भरजीत सिंह (जैसी-176984एल)---01  
सितम्बर 1995 ।

नाथब सूबेदार हरिनजत सिंह (जैसी-176990वाड)---01  
सितम्बर 1995 ।

नाथब सूबेदार सरदार सिंह (जैसी-107006वाड)---01  
सितम्बर 1995 ।

नाथब सूबेदार हीरा चन्द (जैसी-100647एच)---01  
सितम्बर 1995 ।

नाथब सूबेदार रामरन्द्र चन्द्र चंदा (जैसी-80345एल)---01  
सितम्बर 1995 ।

नाथब सूबेदार परमेश्वरत नाथर/राधा कृष्णत नाथर (जैसी-  
113085पी)---01 सितम्बर 1995 ।

नाथब सूबेदार जंगल सिंह (जैसी-88995पी)---01 सितम्बर  
1995 ।

नाथब सूबेदार सतलोक सिंह (जैसी-113705ए)---01 सितम्बर  
1995 ।

नाथब सूबेदार दलीप राम (जैसी-123903वाड)---01  
अक्टूबर 1995 ।

नाथब सूबेदार दत्त मूर्ती मिश्रा (जैसी-126968एक्स)---01  
अक्टूबर 1995 ।

नाथब सूबेदार गोविन्द प्रसाद (जैसी-96610एच)---01  
अक्टूबर 1995 ।

नाथब सूबेदार धनी प्रधान (जैसी-113990के)---01 अक्टूबर  
1995 ।

नाथब सूबेदार वासुदेव भगवा (जैसी-131205डब्ल्यू)---01  
अक्टूबर 1995 ।

नाथब सूबेदार जीत पाल सिंह (जैसी-152900एल)---01  
अक्टूबर 1995 ।

नाथब सूबेदार गुरनाम सिंह (जैसी-152795एच)---01  
अक्टूबर 1995 ।

नाथब सूबेदार रोहतास सिंह (जैसी-144527के)---01  
अक्टूबर 1995 ।

नाथब सूबेदार देवदारका नाथ (जैसी-178116एक्स)---01  
अक्टूबर 1995 ।

नाथब सूबेदार प्रीतम सिंह (जैसी-110022एल)---01  
अक्टूबर 1995 ।

नाथब सूबेदार नंभर सिंह (जैसी-155417पी)---01 अक्टूबर  
1995 ।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नाथब सूबेदार क्लर्क पी मूरन्दन (जैसी-160004पी)---01  
नवम्बर 1995 ।

नाथब सूबेदार क्लर्क जगननाथ जमा (जैसी-175380ए)---  
01 नवम्बर 1995 ।

प्रकाश चन्द  
अवर सचिव

राष्ट्रीय कैडेट कॉर

स. 144, दिनांक 9 फरवरी 1996--राष्ट्रपति, निम्न-  
लिखित अफसर को भारत सरकार के पत्र सं. 5431/प्रमोशन/  
डीजीएनसीसी/एम एन (बी) 918/ए/डी (जीएम-6) दिनांक 07  
अप्रैल 81 के अनुसार लीफ्ट : कर्नल के चयन रैंक में पदोन्नति  
करने हे। उनके वर्तमान का नियुक्त भारत सरकार, रक्षा मंत्रा-  
लय के पत्र सं. 5431/प्रमोशन/डीजीएनसीसी/एमएस(बी)/257/  
ए/डी (जीएम-6) दिनांक 03 जून 1981 के अनुसार किया जाएगा।  
स्थायी संदर्भ में उनकी पदोन्नति तथा वेतन के लिए उनकी  
दीर्घकाल रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 5110/81/डीजीएनसीसी/  
पर्स/ए/डी (जीएम-6) दिनांक 13 मई 1981 के अनुसार दिशित  
की जाएगी।

पूर्णकालिक एन सी सी स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर

(थल सेना स्कंध)

(चयन द्वारा लीफ्ट कर्नल के रूप में)

आर एम रंजनकर (एनसीसी/पीसी-12239)---27 मई  
95 ।

आई पी भल्ला (एन सीसी/पीसी-12356)---22 मई 95 ।

ओ पि गुप्ता (एनसीसी/पीसी-12233)---01 जून 95 ।

डी एम सन्तु (एनसीसी/पीसी-12326)---18 मई 95 ।

के के मेहरा (एनसीसी/पीसी-12282)---30 मई 95 ।

के एम माल (एनसीसी/पीसी-12253)---30 मई 95 ।

एम दास (एनसीसी/पीसी-12252) 24 मई 95 ।

जे के डी गर्ग (एनसीसी/पीसी-12281)---22 मई 95 ।

पी मपुरी (एनसीसी/जीडी पीसी-6607)---31 मई 95 ।

गौतम रे

उप महापतिबंधक (कार्मिक एवं वित्त)

## वायु शाखा

सं. 145 दिनांक 3 जनवरी 1996—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्न-लिखित मूल पदोन्नति करते हैं :—

## भारतीय वायु सेना

## उड़ान शाखा

एयर कमांडेयर के मूल रैंक में :—

जे. वी. सिंह (9097) उ (न)---01 सितम्बर 1994  
इनका नाम वरियता सूची में एयर कमांडेयर ए.एन. विदेकर (9058) उ (पा) के नीचे आयेगा ।

आर. सी. गोसाईं वीर चक्र वी. एम (9447) उ (धा)---  
01 सितम्बर 1994 ।

एम. एम. सोबती (9448) उ (न)---01 सितम्बर 94 ।

पी. सी. प्रसाद (8444) उ (पा)---19 सितम्बर 94 ।

(इनका नाम वरियता सूची में एयर कमांडेयर एम. एम. त्यागी (9467) उ (पा) और ए. वी. सठार्ये (9039) उ (पा) के बीच आयेगा) ।

एल. एच. डिक्सन (9078) उ (धा)---10 सितम्बर 94 ।

(इनका नाम वरियता सूची में एयर कमांडेयर ए. वी. सठार्ये (9039) उ (पा) के नीचे आयेगा) ।

बी. एम. मारवाह (9714) उ (पा)---2 जनवरी 1995 ।

एम. के. सैनी (9779) उ (पा)---27 मार्च 95 ।

के. एस. मांडला वी. एम. (9827) उ (पा)---27 मार्च  
95 ।

पी. के. पिन्टो (8419) उ (पा)---5 जून 95 ।

## वैमा. इंजी. शाखा

ग्रुप कप्तान के मूल रैंक में :—

डी. के. शर्मा (11475) वी. इ. (वि)---11 जुलाई 94/  
01 अगस्त 92 (एन. एम.) ।

(इनका नाम वरियता सूची में ग्रुप कप्तान आर्. के. अर्पूर (11165) वी. इ. (वि.) और एच. जी. आर. दभारी (7913) वी. इ. (वि.) के बीच में आयेगा) ।

आर. पी. बतरा (11199) वी. इ. (वि)---18 जुलाई  
94/28 दिसम्बर 93 (एन. एम.) ।

(इनका नाम वरियता सूची में ग्रुप कप्तान ए. आर. भुजंग (11901) वी. इ. (वि) और टी. सोबाकार (12265) वी. इ. (वि.) के बीच में आयेगा) ।

वी. वी. स्वेन (12259) वी. इ. (वि)---19-9-94/28-  
12-93 (एन. एम.) [1]

(इनका नाम वरियता सूची में ग्रुप कप्तान दीपक कुमार सेन (11915) वी. इ. (वि.) के नीचे आयेगा) ।

वी. आर. पिल्लई (12113) वी. इ. (वि)---18-7-94/  
28-12-93 (एन. एम.) ।

(इनका नाम वरियता सूची में ग्रुप कप्तान वी. वी. स्वेन (12259) वी. इ. (वि) और ए. सी. वरुणा (12283) वी. इ. (वि.) के बीच में आयेगा) ।

ओ. पी. शर्मा (12263) वी. इ. (वि.)---18-7-94/  
28-3-94 (एन. एम.) ।

(इनका नाम वरियता सूची में ग्रुप कप्तान आर. श्रीनिवास (11917) वी. इ. (वि.) और वी. एम. स्वामी (12256) वी. इ. (वि.) के बीच में आयेगा) ।

ए. भार्गव (10785) वी. इ. (वि.)---1-9-94/3-5-  
94 ।

(इनका नाम वरियता सूची में ग्रुप कप्तान ए. गुप्ता (10362) वी. इ. (वि.) और एम. जी. के. नोरी (7859) वी. इ. (वि.) के बीच में आयेगा) ।

जे. पी. गुलाडी (10281) वी. इ. (वि.)---18-7-94 ।

ए. के. खन्ना (10401) वी. इ. (वि.)---18-7-94 ।

## लैखा शाखा

ग्रुप कप्तान के मूल रैंक में :—

मुरलीधर सिंह (11123)---26-6-95 ।

वी. एलिसा

सहा. निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2ए

## वायु सेना

सं. 146, दिनांक 2 फरवरी 1996—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित अफसर को उनके नाम के आगे लिखी गारीख में उड़ान (पायलट) शाखा पारिभारित की शाखा में, स्थायी निम्न चिकित्सा वर्ग में स्थानान्तरित करते हैं परन्तु भारत सरकार रक्षा मन्त्रालय के पत्र सं. वा.से. म/21901/16991/पी.ओ. 3 (डी)/1186/याएर/डी (एयर-3) तारीख 18 जुलाई 95 के अन्तर्गत इस शाखा में उनकी समायोजित वरियता उसी प्रकार मानी जाएगी मानों उन्हें मूल कमीशन ही पारिभारित की शाखा में प्राप्त हुआ हो ।

## भारतीय वायु सेना

## उड़ान (पायलट) शाखा

एला. लेफ्ट (एक्टिंग स्कॉ. लि.) पी. के. डूड्डा (16991)  
---31 मार्च 95 से ।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के आगे लिखी तारीख में उड़ान (नॉव्रिगेशन) शाखा से पारिभारिकी शाखा में, स्थायी निम्न चिकित्सा वर्ग में स्थानान्तरित करते हैं परन्तु भारत सरकार रक्षा मन्त्रालय के पत्र सं. वा.से. म/21901/16680/पी.ओ. 3 (डी)/1290/डी.ओ. आर्. ए/डी (एयर-3) तारीख 28-7-95 के अन्तर्गत इस शाखा में उनकी समायोजित वरियता उसी प्रकार मानी जाएगी मानों उन्हें मूल कमीशन ही पारिभारित की शाखा में प्राप्त हुआ हो ।

## भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

स्काडून लीडर टी के सिंह (16690)—22 फरवरी 95 से ।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के आगे लिंगी तारीख में उड़ान (पायलट) शाखा से पारिभाषिकी शाखा में, स्थायी निम्न वर्गीकृत वर्ग में स्थानान्तरित करते हैं परन्तु भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/21901/16973/-पी ओ 3 (डी)/1185/यू एसडी/(एयर-3) तारीख 18 जुलाई 95 के अन्तर्गत इस शाखा में उनकी समाप्तित्त दरिद्रता उन्नी प्रकार मानी जाएगी मानों उन्हें एक कमीशन ही पारिभाषिकी शाखा में प्राप्त हुआ हो ।

## भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

स्काडून लीडर टी पी एस अरोग (16937)—20 जन. 95 से ।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/21901/12040/पी ओ 3(डी)/863/- यू एस/डी (एयर-3) तारीख 14 जून 95 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के आगे दर्शायी तारीख में उड़ान पायलट शाखा में स्थायी निम्न म्याम्थ्य वर्ग में बनाए रखते हैं ।

## भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

विंग कमाण्डर जी आर मल्लेश (12040)—04 फरवरी 95 से ।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/21901/10949/पी ओ 3(डी)/1076/यूएस/डी (एयर-3) तारीख 06 जुलाई 95 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के आगे दी गयी तारीख से उड़ान पायलट शाखा में स्थायी निम्न स्वास्थ्य वर्ग में बनाए रखते हैं ।

## भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

विंग कमाण्डर आर एम जैटजी (10949)—29 मार्च, 95 से ।

एच. बी. शर्मा

स्काडून लीडर

सहा निदेशक का अफ 3(डी)

सं. 147, दिनांक 6 फरवरी 1996—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम से आगे दी गई तारीख में उनके द्वारा सैदानिकी की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व, उनके निजी कारणों से उनकी प्रार्थना पर उन्नी कमीशन में उस्तीफा देने की अनुमति देते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आई सी-43178 ए/मेजर एम एस पांडिआन ई/एनई—  
22-12-93 (अप.)आई सी-43356 कैप्टन जसवीर एम ए/एच डी/जी/ए/ए—  
22-06-95 (अप.)आई सी-44453 ए/मेजर अनिल कुमार मुंदारा डी/जी-  
सि/ई—13-07-95 (पूर्व.)आई सी-47240 ए/मेजर विजय पी अदमल पंजाब—  
31-05-95 (अप.)आई सी-48106 कैप्टन राहुल सिन्हा जंगरा—12-07-95  
(अप.)आई सी-49515 कैप्टन रविंद्र सिंह गिल ए/डी आटी—  
30-09-95 (अप.)आई सी-52177 2/लैफ्टिनेंट एम एस रंदेश कुमार  
जारली—26-05-95 (पूर्व.)

पी. के. रामपाल

कर्नल

कर्नल एम एस (आर एड पी आर)

सेना शाखा

(क्यू एम जी शाखा)

सं. 148, दिनांक 31 जनवरी 1996—क्यू एम जी शाखा के सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री तोना राम (जन्म तिथि 06-01-1938) 06-01-1996 को 58 वर्ष की निर्वात आयु को प्राप्त होने पर दिनांक 31-01-1996 (अपरादन) से सेवा निवृत्त तथा दिनांक 01-02-1996 (पूर्वति) से सेवान्तरण में स्थानान्तरण ।

रेनु के. राजू

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

वायु शाखा

सं. 149, तारीख 2 फरवरी 1996—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के आगे दर्शायी तारीख से अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त करते हैं ।

भारतीय वायुसेना

उड़ान पायलट शाखा

स्काडून लीडर एम बहगुणा (16076)—23 जून 95  
(अप.) से ।

पारिभाषिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर सतजीत सिंह (17724)—15 फरवरी 95  
(अपरादन) से ।

एच. वी. शर्मा

स्काडून लीडर

सहायक निदेशक का अफ 3 (डी)



सं. 150, तारीख 12 फरवरी 1996—विनियमित को राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर में कर्नल का अतिरिक्त रैंक प्रदान किया जाता है तथा उन्हें उनके कुलपति बने रहने की अवधि तक उनके नाम के सामने उल्लिखित विश्वविद्यालय का कर्नल कमान्डेंट नियुक्त किया जाता है :—

कुलपति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति पद ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
प्रो० अहमद—उर्र हमान कुलपति	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1 मई, 1995 ।
डा० धर्मपाल कुलपति	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1 जुलाई, 1993 ।
प्रो० जी० के० दास कुलपति	उत्कल विश्वविद्यालय, बामी विहार, भुवनेश्वर	16 अगस्त 1995 ।
प्रो० धनंजय वर्मा कुलपति	डा० हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, मागर (म० प्र०)	10 मई, 1995 ।
डा० प्रकाश सिंह बिसेन कुलपति	जीवाभी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	5 जुलाई, 1994 ।
डा० ईश्वर सिंह चौहान कुलपति	वरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	24 अगस्त, 1994 ।
डा० कुलबीर सिंह जौहर कुलपति	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	6 अप्रैल, 1992 ।
डा० जनार्दन माधवराव धोचमाणे, कुलपति	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नानदेड़	17 सितम्बर, 1994 ।
डा० शिवराज बशोटीयप्पा नकाडे कुलपति	डा० बी० अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	4 नवम्बर, 1994 ।
डा० एस० के० वीरौ कुलपति	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राठुरी, अहमदनगर	7 मार्च, 1990 ।
डा० (श्रीमती) स्नेहलता एस० देवमुख कुलपति	बम्बई विश्वविद्यालय	5 मई, 1995 ।
डा० एस० टी० देशमुख कुलपति	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	10 सितम्बर, 1995 ।
डा० षण्मुखसुन्दरम कुलपति	तमिलनाडु पशु-चिकित्सा तथा पशु-विज्ञान विश्वविद्यालय, मद्रास	14 सितम्बर, 1995 ।
प्रो० ए० सी० भीषण, कुलपति	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलगंगोत्री	27 नवम्बर, 1995 ।
प्रो० आर० राममूर्ति कुलपति	श्री धेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	10 अक्टूबर 1995 ।

रवि जैन  
कर्नल

स्थानापन्न उप महानिदेशक (एम० एस०)

## शुद्धिपत्र

सं. 151, दिनांक 8 फरवरी 1996—भारत सरकार रक्षा मंत्रालय राजपत्र अन्वये दिनांक 07 अक्टूबर 1995 को प्रकाशित नियमित सेना स्थायी आयोग से निम्नलिखित शब्दी की जाती है :—

के लिए :—ब्यास शत्रुघनसिंह पृथ्वीराज (आई सी 53199 एन) ए. डी.

पढ़ा जाए :—ब्यास शत्रुघनसिंह पृथ्वीराज (आई सी 53199 एन) ए. सी.

ए. दसा

मेजर

स्थानापन ए एस एस 8 बी

## MINISTRY OF DEFENCE

## (FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 23rd March 1996

No. 126. (A-22012/1/95-Estt.I) dated 13th February 1996.—The President is pleased to appoint Shri Om Pal Singh, an officer of CSS (SG) SL 1993 as Deputy Financial Adviser in the Finance Division of Ministry of Defence on transfer from Ministry of Finance with effect from the afternoon of 2-2-1996.

The President is pleased to appoint Shri M. M. Sharma, Assistant as Section Officer on adhoc basis in this Division with effect from the forenoon of 6-2-1996 upto 31-3-1996 or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER MOHAN  
Asstt. Financial Adviser (E)

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

(D. R. D. S.)

No. 127, dated 9th February 1996.—On the recommendations of the Assessment Board held under Rule 8(2) of D.R.D.S Rules the President is pleased to appoint the undermentioned Scientists-B as Scientists-C with effect from 01 July 1995 (F/N) in Defence Research and Development Laboratory, Hyderabad.

1. Smt. K Shanta.
2. Sh. V. Sudhakar.
3. Sh. S. Dhanya Sree.
4. Sh. L. Udaya Shankar.
5. Sh. N. Vinaya Sagar.
6. Smt. C Nagalakshmi.
7. Sh. TV Ramana Rao.
8. Sh. DL Siddalingaiah.
9. Sh. K Rajasekharam.
10. Sh. GV Siva Rao.
11. Sh. TVS Anjanoyulu.
12. Sh. M. Manickavasagan.
13. Sh. BK Saraf.
14. Smt. T. Sunita Devi.
15. Sh. P. Soundararajan.
16. Sh. PP Kumaraguru.
17. Sh. G Rama Kishore.
18. Sh. PV Sureshu.

19. Sh. P Ramakrishna.

20. Sh. V Srihari Babu.

21. Sh. CH Vijayn Saradhi.

On the recommendations of the Assessment Board, 1995 the President is pleased to appoint the undermentioned JSOs of Defence Research & Development Laboratory, Hyderabad to be Officiating Scientists 'B' in the same Laboratory with effect from 31 July, 1995 (F/N).

Sh. Y Narasimha Rao.

Sh. SV Subrahmanyam.

Sh. M Thirupathy.

Sh. D Bishnu.

The President is pleased to make the following appointment :—

The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in the Establishment and with effect from the dates shown against their names :—

Sr. No., Name, Estt. and Date.

Km. PS Vijaya, NPOL, Cochin—22-09-95 (F/N).

Sh. J Gopinath, GTRE, Bangalore—30-9-93 (F/N).

Km. Geetha A, GTRE, Bangalore—23-09-94 (F/N).

Sh. M Easwaramoorthy, DJPR, Delhi—03-08-94 (F/N).

Km. Farah Aziz Ansari, SCE, Allahabad—17-08-94

(F/N).

Sh. Ashok Kumar, IRDE, Dehradun—29-09-95 (F/N).

Sh. Sunil Kumar Sagar, INS, Shivaji—12-09-94 (F/N).

The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in Estt. mentioned against each with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No., Name, Estt. and Date.

Kum. S. Bharathi, GTRE, Bangalore—25-03-92 (F/N).

Kum. L. Mala, IRDE, Bangalore—29-10-90 (F/N).

Shri Santosh to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in Defence Institute of Fire Research Delhi with effect from 25-09-92 (F/N).

It supercedes our DGN of even Number dated 17-12-92.

R. K. SHARMA,  
Asstt. Director (Pers).

## (ARMY BRANCH)

No. 128, dated 13th February 1996.—The President is pleased to make the following appointments :—

## (REGULAR ARMY)

## PERMANENT COMMISSION

(To be 2/Lt with effect from 10 June 1995)

Satyendra Singh (IC-53494W) AC.  
 Rakesh Kumar MISHRA (IC-53495Y) Engrs.  
 Dinesh Singh KADYAN (IC-53496F) AC.  
 Ashveesh KASHYAP (IC-53497K), Inf.  
 KARVE Anand Anil (IC-53498M) Engrs.  
 Sanjeev DAHIYA (IC-53499P) AC.  
 Prashant Singh KANWAR (IC-53500Y) AC.  
 Ravinder Pal Singh (IC-53501F) Engrs.  
 Manpreet Singh DHILLON (IC-53502K) AC.  
 Sukhvinder Singh (IC-53503M) Sigs.  
 Ashish VASUDEVA (IC-53504P) EME.  
 Prem Singh PANWAR (IC-53505X) Arty.  
 Navjit Singh SANDHU (IC-53506A) AC.  
 Girdhari Lal SHARMA (IC-53507H) AD.  
 Vivek AHLAWAT (IC-53508L) ASC.  
 Rahul SAREEN (IC-53509N) AOC.  
 Ravinder Singh CHEEMA (IC-53510H) AD.  
 Munesh Chandra TAMANG (IC-53511L) Inf.  
 K ANAND (IC-53512N) Inf.  
 Vikrant PATIL (IC-53514Y) Inf.  
 Amit RAWAT (IC-53515F) EME.  
 Vijendra Pratap Singh YADAV (IC-52516K) Inf.  
 Nitin MEHTA (IC-53517M) EME.  
 Rakesh Singh RANA (IC-53518P) Inf.  
 Sanjay SHARMA (IC-53519X) Sigs.  
 Vivek BHATARA (IC-53520M) Arty.  
 Sandeep Singh SODHI (IC-53521P) Engrs.  
 Vivek CHAUHAN (IC-53522X) Mech.  
 Ravinder Kumar CHAUHAN (IC-53523A) Inf.  
 Harjit Prit Pal Singh (IC-53524H) Inf.  
 Dinesh Kumar RAO (IC-53525L) Arty.  
 KK SUNIL (IC-53526N) Inf.  
 Rishi SHARMA (IC-53527W) Inf.  
 Yogesh Kumar GAUTAM (IC-53528Y) Inf.  
 Manoj Kumar Ruria (IC-53529F) Inf.  
 Sukhvinder Singh Dhaliwal (IC-53530W), Inf.  
 Hitesh Duggal (IC-53531Y), Inf.  
 Sameer Katwal (IC-53532F), Inf.  
 Ranjith John (IC-53533K), EME.  
 Marut Shukla (IC-53534M), Arty.  
 Vivek Malik (IC-53535P), AOC.  
 Anurag Asthana (IC-53536X), Arty.  
 Vaibhav Agrwal (IC-53537A), Arty.

Ranjit Gill (IC-53539L), Arty.  
 Sri Harsha (IC-53540A), Sigs.  
 Tejinder Singh Bawa (IC-53541H), AD.  
 Devender Pandey (IC-53542L), Arty.  
 Jasrinder Pal Singh Johal (IC-53543N), EME.  
 Sanwal Shah Kalia (IC-53544W), Arty.  
 Sunil Kaushik (IC-53545Y), AOC.  
 K Vikram Pal Singh Sambyal (IC-53546F), EME.  
 Aman Yadav (IC-53547K), AOC.  
 Vinod Singh Negi (IC-53548M), Inf.  
 Praveen Kumar Tiwari (IC-53549P), ASC.  
 Chandra Prakash Kothari (IC-53550K), Sigs.  
 Vikram Mehta (IC-53551M), Inf.  
 Tapas Kumar Misra (IC-53553X), Inf.  
 Manoj Kumar Sharma (IC-53554A), Arty.  
 Shounak Bhattacharyya (IC-53555H), AD.  
 Abraham N (IC-53556L), Arty.  
 Kaverappa MS (IC-53557N), ASC.  
 Rajesh K Krishna (IC-53558W), Engrs.  
 Pravinder Kumar (IC-53559Y), Arty.  
 Rohit Jha (IC-53560N), Arty.  
 Adhaw Anand Pandharinath (IC-53561W), ASC.  
 Sandeep Verma (IC-53562Y), Inf.  
 Padam Dev Thakur (IC-53563F), Inf.  
 Binod Kumar Tiwari (IC-53564K), EME.  
 Santhosh Samuel (IC-53565M), EME.  
 Gaokar Sameer Mohan (IC-53566P), Inf.  
 Harsh Vardhan Singh (IC-53567X), Mech.  
 Prawin Kumar Ganpathrao Nimbalkar (IC-53568A), AC.  
 Saurabh Arvind Shinde (IC-53569H), Inf.  
 Devender Singh Verma (IC-53570X), Arty.  
 Akshay Sharma (IC-53571A), Sigs.  
 Deepak Sahrawat (IC-53572H), AOC.  
 Paritosh Vibhu (IC-53573L), Inf.  
 Dharmendra Kumar Tiwary (IC-53574N), Arty.  
 Munish Sharma (IC-53575W) Inf.  
 Balraj Gurung (IC-53576Y), Inf.  
 Ashish Nehra (IC-53577F), Inf.  
 Manish Gupta (IC-53578K), Engrs.  
 Anuj Lal Maini (IC-53579M), Inf.  
 Prashant Pande (IC-53580F), Inf.  
 Dharmesh Chandra (IC-53581K), Inf.  
 Chandan Singh Pathania (IC-53582M), Inf.  
 Sanjeev Sharma (IC-53583P), Arty.  
 Navneet Kotnala (IC-53584X), Sigs.  
 Shekhar Thapliyal (IC-53585A), Arty.  
 Yogesh Srinivasan Mudaliar (IC-53586H), Arty.  
 Vijay Narayan Shukla (IC-53587L), Inf.

Naveen Reddy (IC-53588N), AD.	Mukul Gupta (IC-53642W), EME.
Nitin Bhatia (IC-53589W), Arty.	Marathe Hitendra Uttamrao (IC-53643Y), Inf.
S Andiappan (IC-53590L), EME.	Rajesh Kumar Verma (IC-53644F), AOC.
Sanjive Sokinda (IC-53591N), Inf.	Shafi Sheikh (IC-53645K), Arty.
Himanshu Goyal (IC-53592W), Engrs.	Saugata Mukherjee (IC-53646M), Arty.
Arun Kumar Dahiya (IC-53593Y), Arty.	Kulbhushan Bhardwaj (IC-53647P), Arty.
Ravinder Khatri (IC-53594F), AD.	Vikram Mehndiratta (IC-53648X), EME.
Mohit Saxena (IC-53595K), Inf.	Navneet Dagar (IC-53649A), AC.
Deepak Sharma (IC-53596M), Inf.	Vishal Singh Rathore (IC-53650P), Mech.
Kishji Deora (IC-53597P), Mech.	Kaushik Goswami (IC-53651X), Inf.
Ravinder Singh (IC-53598K), Arty.	Arvind Kumar Dimri (IC-53652A), Inf.
Ashvini Pundir (IC-53600K), AOC.	C H Shiva Shankar (IC-53653H), Sigs.
Sukhkirat Khara (IC-53603X), Arty.	Raman Kumar (IC-53655N), Mech.
Pankaj Dhyani (IC-53604A), Inf.	Parminder Singh Marwaha (IC-53656W), ASC.
Dalef Singh (IC-53605H), ASC.	Neelesh Anand Pagulwar (IC-53657Y), Inf.
Kuldeep Magotra (IC-53606L), ASC.	Rajender Dogra (IC-53658F), ASC.
Anupam Gaur (IC-53607N), Inf.	Mritunjay Kumar (IC-53660Y), AOC.
Prateek (IC-53608W), Inf.	Hussain Sajjad Parvez Afzal (IC-53661F), Arty.
Akash Singha (IC-53609Y), Inf.	Sanjay Shandil (IC-53662K), AC.
Parag Bhargava (IC-53610N), ASC.	Prashant Mahajan (IC-53663M), EME.
Randeep Singh (IC-53611W), Engrs.	Sanjeet Singh Negi (IC-53664P), Inf.
Chandra Deo Singh Aswal (IC-53612Y), ASC.	Atul Kumar Singh (IC-53665X), EME.
Amarjit Mehta (IC-53614K), Engrs.	Arun Bhatt (IC-53666A), Engrs.
Anam Chowdhary (IC-53615M), EME.	Rajguru Jayant Janardhan (IC-53668L), Arty.
Salil Bisht (IC-53616P), ASC.	Nath Neerendra Virendra (IC-53670H), Inf.
Avneesh Sethu Nath (IC-53617X), AC.	Yoginder Duhan (IC-53671L), Inf.
Varinder Singh (IC-53618A), Engrs.	Bhaskar Chakraverty (IC-53672N), Inf.
Kumar Parakram (IC-53619H), EME.	O Sridhar Reddy (IC-53674Y), Arty.
Pitre Avinash Dayanand (IC-53620X), Inf.	Nagendra Sharma (IC-53675F), Sigs.
Sanjay Khanduri (IC-53621A), Arty.	Manoj Madhukar Deshpande (IC-53677M), Inf.
Aaditya Kumar Mista (IC-53622H), Inf.	Sandeep Gulia (IC-53678P), ASC.
Ajay Singh Pundir (IC-53623L), Inf.	Sharad Nautiyal (IC-53679X), Inf.
Ajay Ratan Agarwal (IC-53624N), Sigs.	Rajesh Khurana (IC-53680M), Inf.
Kumar BS (IC-53625W), Arty.	Rakesh Mohan (IC-53681P), AC.
Novcen Kapur (IC-53626Y), Sigs.	Krishnan N (IC-53682X), Engrs.
Ajay Kashyap (IC-53628K), Arty.	Satya Vir Singh (IC-53683A), Arty.
Sunit Singh (IC-53629M), Inf.	Rohit Das (IC-53685L), AD.
Rajeshwar Singh (IC-53630F), Sigs.	Vivek Sharma (IC-53686N), Mech.
Sandeep Wahee (IC-53631K), AC.	Desai Vikrant Avinash (IC-53687W), Inf.
Vibhav (IC-53632M), Engrs.	Rissi Mohun Negi (IC-536688Y), Inf.
Jasjeet Singh Bakshi (IC-53633P), Engrs.	Warwarkar Satyujeet Laxman (IC-53689F), EME.
Osiris Das (IC-53634X), Inf.	Prem Nath Pandey (IC-53690W), AOC.
Sanjeev Kumar Yadav (IC-53635A), ASC.	Parag Mukherjee (IC-53691Y), Inf.
Ranjan Agnihotri (IC-53636H), Arty.	Anupkumar Gujanan Barbare (IC-53692F), Arty.
Vinay Khetarpal (IC-53637L), Engrs.	Ananjai Singh (IC-53693K), Inf.
Ravi Chandar (IC-53638N), Inf.	Anubhav Raj (IC-53694M), Arty.
Prakash Singh Rana (IC-53639W), Inf.	M Ravi Shankar (IC-53695P), Inf.
Karan Pathania (IC-53641N), ASC.	

Niraj Singh (IC-53696X), Arty.	Prabhsajan Singh Sandhu (IC-53754W), Inf.
Ashish Shukla (IC-53698H), ASC.	Abhinav Dogra (IC-53755Y), Arty.
Sahil Prashar (IC-53699L), AD.	Virender Yadav (IC-53756F), Arty.
Kuldeep Singh (IC-53700P), EME.	S Aditiya (IC-53757K), Mech.
Jobee Philip (IC-53702A), Arty.	Tarun Gosain (IC-53758M), Inf.
Anuj Jain (IC-53703H), Inf.	Sachin Sachdev (IC-53759P), AOC.
Viraj V Kamath (IC-53704L), Arty.	Ashish Poonia (IC-53760K), AD.
Abhijit Ashok Kumar Nayyar (IC-53705N), Mech.	Amit Srivastava (IC-53761M), Arty.
Sudhiti Bose (IC-53706W), Inf.	Sunil K Zachariah (IC-53762P), EME.
Roby Tom (IC-53707Y), AD.	Pankaj Saxena (IC-53763X), ASC.
Sanjay G (IC-53708F), Inf.	R Srinivasan (IC-53764A), AD.
Nava Kumar Crakravarty (IC-53709K), Inf.	M A Rajmanna (IC-53765H), Arty.
Sandeep Sharma (IC-53710Y), AOC.	Avi Chander Sud (IC-53767N), EME.
Y Vijaya Kumar (IC-53711F), Inf.	Naveen Singh (IC-53768W), Arty.
Karan Khajuria (IC-53712K), AC.	Indresh Shankar Mathur (IC-53770N), Arty.
Gijish Choudhary (IC-53713M), EME.	Rajesh Kumar (IC-53771W), ASC.
Sunil A (IC-53714P), Arty.	Rahul Sudesh Bali (IC-53772Y), Inf.
Ravinder Singh Dadhwal (IC-53715X), Arty.	S Subhir Kumar (IC-53773F), AOC.
Remesh V P (IC-53717H), EME.	Sandeep Batra (IC-53775M), Inf.
Rajender Singh (IC-53718L), AOC.	Shailendra Grover (IC-53776P), Engrs.
Puranik Amod Suresh (IC-53720H), Sigs.	Nandan Bora (IC-53777X), Engrs.
Jaideep Chandra (IC-53721L), Inf.	Gunpal Singh (IC-53778A), Inf.
Anil Kumar Yadav (IC-53722N), Arty.	Kapil Jaiswal (IC-53780X), Sigs.
Raman Sharma (IC-53723W), Inf.	Amitabh Kumar (IC-53783L), AC.
Anirudh Prasad (IC-53725F), AD.	Vishal Singh Paliwal (IC-53784N), Sigs.
Himanshu Pasbola (IC-53726K), Engrs.	Mayank Sharma (IC-53785W), EME.
Rakesh Kumar Jha (IC-53728P), Inf.	Koushik Thakur (IC-53786Y), Inf.
Rajinder Pal Singh (IC-53729X), Engrs.	V Subramaniam (IC-53787F), AOC.
Vivak Gupta (IC-53370M), AOC.	Maqsood Ali Khan M Harihar (IC-53789M), Arty.
Prashant Kumar (IC-53731P), Inf.	Shailesh Yadav (IC-53790F), EME.
Dharam Pal (IC-53734H), AD.	S Srinivasa Sriram (IC-53791K), EME.
Manuj Majumdar (IC-53735L), Inf.	Atul Tripathi (IC-53792M), Arty.
Alok Kumar Singh (IC-53736N), Arty.	Yogesh Batra (IC-53793P), Arty.
Somvir (IC-53737W), EME.	Kaushal Kar (IC-53794X), Arty.
Emron Musavi (IC-53738Y), Inf.	Barve Shailendra Rajkumar (IC-53795A), Mech.
Rajesh Kumar (IC-53739F), AD.	Devasish Mishra (IC-53797L), AD.
Chandhoke Rajeovbhooshan (IC-53740W), AOC.	Koka Sanjay (IC-53798N), Sigs.
Pankaj Beniwal (IC-53741Y), Arty.	Rajeev Chauhan (IC-53800A), Sigs.
Raghu Raj Singh (IC-53742F), ASC.	Jiten Joshi (IC-53801H), AC.
Kamal Kishore Misra (IC-53743K), Inf.	Makam Kiran Kumar (IC-53802L), Sigs.
Arvind Mohan Singh (IC-53744M), Arty.	Ganesh Chandra Upadhyay (IC-53803N), Arty.
Amit Mahey (IC-53745P), Arty.	Paramjeet Singh (IC-53804W), AOC.
Neeraj Singh (IC-53747A), Inf.	Alok Vashistha Mishra (IC-53805Y), EME.
Kaushal Kishore (IC-53748H), Arty.	Kumar Manoj Singh (IC-53806F), Inf.
Arun S Menon (IC-53750A), Engrs.	Sundeep Dhar (IC-53807K), Engrs.
Ravi Kumar Saini (IC-53751H), Inf.	Rajesh Singh Jasrotia (IC-53809P), Arty.
Rajan Kumar Rajan (IC-53752L), ASC.	Mayank VAID (IC-53810) Inf, Sanjeev Singh (IC-53812P)
Samir Chaudhary (IC-53753N), Inf.	Engrs, Rajeev DHAWAN (IC-53814A) Arty, Sunil NAIR (IC-53815H) AD, James THOMAS (IC-53818W) Inf, Baljinder

Singh (IC-53819Y) Inf, Shashank KAUSHAL (IC-53820N) Mech, Sandeep Sagar (IC-53821W) Inf, KULKARNI Parag Prafulla (IC-53822Y) Arty, Ashish Kumar Singh (IC-53823 F) Arty, Milton PRASANGI (IC-53824K) Engrs, Munish BHANOT (IC-53825M) EME, Shashi Kant SHARMA (IC-53826P) AC, Arvind RAWAT (IC-53828A) Inf, Uday Pratap (IC-53830X) ASC, Sanjay KATTIYAR (IC-53831A) Arty, Manish SHARMA (IC-53832H) Inf, MP Dinesh (IC-53833L) Inf, Zorawar Singh (IC-53835W) AC, Gopal MITRA (IC-53836Y) Inf, Vikrant PARMAR (IC-53837F) Inf, Lalit Kumar JOSHI (IC-53838K) Inf, Surender Singh (IC-53839M) ASC, Ravinder Singh SANDHU (IC-53840F) EME, Sandeep Singh SIDHU (IC-53841K) ASC, MHETRE Hemant Vishnu (IC-53842M) AC, Zephyril Gilbert ARANHA (IC-53843P) Engrs, S Chandrasekar (IC-53844X) Inf, Mukul VERMA (IC-53845A) Sigs, Suman GHOSH (IC-53846H) Arty, Jiten-

dra Mohan SHARMA (IC-53847L) Arty, Mandeep Singh GILL (IC-53848N) Inf, Avanish SINGHAL (IC-53849W) Inf, Kanwal Jeet Singh (IC-53850L) Inf, Anand SHUKLA (IC-53851N) Engrs, Chander Manish (IC-53853Y) AC, Satyendra TRIPATHI (IC-53854F) Inf, Rajnish Kishore (IC-53855K) Sigs, Goli Srinivasan PHANI RAJ (IC-53857P) EME, Anil Bose S (IC-53858X) Inf, Ritabrata GUPTA (IC-53859A) Inf, Vikrant Das ADHIKARI (IC-53860P) Inf, Harsh Vardhan (IC-53862A) AC, Sandeep MUNDRA (IC-53863H) Arty.

VN PRASAD  
Lt Col  
AMS 8B

No. 129 dated 5 Feb. 96—The President is pleased to make the following appointments under the provision of A13/S/70:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCO is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt wef 09 Mar 95 with seniority for promotion from 08 Nov 90 but for increments of pay from 09 Mar 90 on relinquishing his SSC wef 09 Mar 95. His inter-seniority vis-a-vis SSCO granted PC will however, remain the same as allocated in GN for grant of the SSC. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt wef 03 Mar 95 with seniority in that rank from Nov 92:—

S. No.	Personal Number	Now Personal No. allotted	Name	Arm/Ser
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SS-34411	IC-46616M	DHIRENDRA NATH RAI	INF

The President is pleased to make the following appointments under the provision of A13/S/70:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt wef 25 Aug 95 with seniority for promotion from 23 Apr 91 but for increments of pay from 25 Aug 90 on relinquishing their SSC wef 25 Aug 95. Their inter-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC. — By virtue of their seniority, they are promoted to the rank of Lt wef 25 Aug 95 with seniority in that rank from 23 Apr 93:—

S. No.	Personal Number	Now Personal No. allotted	Name	Arm/Ser.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SS-34519	IC-46678M	NARENDRA KUMAR TEVATHA	AC
2.	SS-34520	IC-46679P	BHANU PARTAP SINGH	AC
3.	SS-34521	IC-46680K	GAURAV BHATIA	AC
4.	SS-34522	IC-46681M	ANOOP SINGH GILL	ARTY
5.	SS-34525	IC-46683X	SABYAGACHI KOLAY	AD ARTY
6.	SS-34526	IC-46684A	JITENDER BHAKAR	ASC
7.	SS-34527	IC-46685H	C. SHASI	INF
8.	SS-34528	IC-46686L	RITESH AGARWAL	ASC
9.	SS-34533	IC-46687N	SANJAY KUMAR SINGH	EME
10.	SS-34534	IC-46688W	BHUPINDER SINGH	INF
11.	SS-34535	IC-46689Y	VIKRAM SINGH THAPA	ARTY
12.	SS-35536	IC-46690N	RAJEEV KUMAR	M/INF
13.	SS-34538	IC-46691W	SANJEEV SHENOY	INF
14.	SS-34540	IC-46693F	ATUL BALI	INF
15.	SS-34541	IC-46694K	RAJSINGH BISHNOI	INF
16.	SS-34544	IC-46696P	BHARAT JOSHI	AC
17.	SS-34545	IC-46697X	ZAHL TANTRA	ASC
18.	SS-34549	IC-46699H	RAJENDRA KUMAR SHARMA	ARTY
19.	SS-34550	IC-46700M	S SONDH	SIGS
20.	SS-34551	IC-46701P	V HARIHARAN	INF

1	2	3	4	5
21.	SS-34552	IC-46702	SANJAY RAJ AIN	INF
22.	SS-34555	IC-46703A	SAMIRUL ISLAM	ARTY
23.	SS-34557	IC-46705I	UDAY KUMAR	INF
24.	SS-34558	IC-46706N	ACHALESH SHANKER	ARTY
25.	SS-34559	IC-46707W	HITENDER KUMAR	EME
26.	SS-34560	IC-46708Y	BUPENDRA REKHI	AD/ARTY
27.	SS-34561	IC-46709F	AMIT SHARMA	ARTY
28.	SS-34563	IC-46710W	SHARAT KUMAR JHA	INF
29.	SS-34565	IC-46712F	PARMINDER SINGH	ARTY
30.	SS-34568	IC-46715P	VINAY ZIBBU	AOC
31.	SS-34569	IC-46716X	ROHIT SHARMA	INF
32.	SS-34570	IC-46717A	SUMIT DUGGAL	INF
33.	SS-34572	IC-46718H	MANOJ KAUSHIK	JAG
34.	SS-34573	IC-46719L	LALIT YADAV	INF
35.	SS-34575	IC-46720A	PRADEEP SANGWAN	INF
36.	SS-34576	IC-46721H	AMANPAL SINGH	EME
37.	SS-34577	IC-46722L	BASAVARJ GUNJEGAI	ASC
38.	SS-34578	IC-46723N	HARBIR SINGH	INF
39.	SS-34579	IC-46724W	RAOJAN KUMAR LAMBA	INF
40.	SS-34580	IC-46725Y	KR SIVARAMAN	ASC
41.	SS-34581	IC-46726F	G SRINIVAS	ARTY
42.	SS-34582	IC-46727K	VARGHESE ABRAHAM	INF
43.	SS-34586	IC-46728M	SHRI KUMAR	AD/ARTY
44.	SS-34587	IC-46729P	HIMMAT SINGH AULAKH	INF
45.	SS-34588	IC-46730K	JASPREET SINGH SEKHON	AC
46.	SS-34589	IC-46731M	VIVEK JASWAL	ARTY
47.	SS-34590	IC-46732P	NEERAJ MUNSHI	INF
48.	SS-34591	IC-46733X	B RAJASEKAR	ARTY
49.	SS-34592	IC-46734A	VIKAS JOSHI	INF
50.	SS-34594	IC-46735H	DHIRENDRA KUMAR SINGH	ASC
51.	SS-34595	IC-46736L	TARUN KUMAR SINGHAL	ASC
52.	SS-34596	IC-46737N	RAMSAY PAUL SABU	AD/ARTY
53.	SS-34597	IC-46738W	RAMINDER SINGH WARAICH	ASC
54.	SS-34598	IC-46739Y	NEERAJ GOUR	AOC
55.	SS-34599	IC-46740N	RONENDRA NATH SCOTT	AOC
56.	SS-34600	IC-46741W	HARKIRAT SINGH DHILLON	ARTY
57.	SS-34601	IC-46742Y	ANAND SINGH	INF
58.	SS-34602	IC-46743F	LHADEN BHUTIA	INF
59.	SS-34603	IC-46744K	VINOD GUPTA	ARTY
60.	SS-34604	IC-46745M	SANDEEP TYAGI	AD/ARTY
61.	SS-34605	IC-46746P	SS SANDHU	INF
62.	SS-34606	IC-46747X	RAM KUMAR SAIN	AOC
63.	SS-34609	IC-46748A	SACHIN TYAGI	M/INF
64.	SS-34611	IC-46750X	ANIL SAHNI	AOC
65.	SS-34612	IC-46751A	RAJA DUTTA	ARTY
66.	SS-34614	IC-46752H	KISHORE SINGH	ASC
67.	SS-34615	IC-46753L	ANOOP KUMAR	INF
68.	ES-34616	IC-46754N	BHASKAR BANERJEE	EME
69.	SS-34617	IC-46755W	MANMINDER SINGH NIJHER	ARTY
70.	SS-34618	IC-46756Y	SANDIP TRIPATHI	AD/ARTY
71.	SS-34619	IC-46757F	SS SHERGILL	AC
72.	SS-34621	IC-46758K	KANWAR DIGVIJAY SINGH	AC
73.	SS-34622	IC-46759M	AJITH VC	ARTY
74.	SS-34623	IC-46760I	JAGDEEP SINGH	ARTY
75.	SS-34625	IC-46761K	DEEPAK SHARMA	INF
76.	SS-34626	IC-46762M	HP SINGH	INF
77.	SS-34627	IC-46763P	PARSHOTAM SINGH BHINDER	ASC
78.	SS-34631	IC-46764X	AMAN YADAV	ARTY
79.	SS-34632	IC-46765A	PRATAP SINGH RATHORE	ASC
80.	SS-34634	IC-46766H	DEVAJYOTI BRAHMA	INF
81.	SS-34635	IC-46767L	VIKRAM SINGH	EME
82.	SS-34636	IC-46768N	SAMARENDRA PRATAP	INF
83.	SS-34637	IC-46769W	AJEET ASHOK DESHPANDE	AOC
84.	SS-34638	IC-46770L	NAVDEEP SINGH MULTANI	ARTY

1	2	3	4	5
85.	SS-34641	IC-46771N	Kirtiman Gautam Mohanty	INF
86.	SS-34643	IC-46772W	Madha K.	INF
87.	SS-34645	IC-46773Y	Manoj G.	ARTY
88.	SS-35646	IC-46774F	Manish Prasad	ARTY
89.	SS34648	IC-46775K	Daljit Singh Chanana	ASC
90.	SS-34650	IC-46776M	Sanjay Mani Pradhan	INF
91.	SS-34652	IC-46777P	Hardas Amrendra Arvind	ARTY
92.	SS-34653	IC-46778X	M. Ravindran	ASC
93.	SS-34654	IC-46779A	Shamsul Siddiqui	ARTY
94.	SS-34656	IC-46780P	Pankaj Preet Singh	ARTY
95.	SS-34657	IC-46781X	Priojit Ray	ASC
96.	SS-34658	IC-46782A	Mani Pande	EME
97.	SS-34659	IC-46783H	Mohinder Pratap Singh	ARTY
98.	SS-34660	IC-46784L	Sudhir Gupta	ASC
99.	SS-34661	IC-46785N	Sanjay Dhall	ARTY
100.	SS-34665	IC-46789K	Raveesh Vaid	ASC
101.	SS-34670	IC-46791F	Karamveer Singh Dhesi	ARTY
102.	SS-34671	IC-46792K	Sandeep Vinayak	AOC
103.	SS-34672	IC-46793M	Ashim P. Rai	INF
104.	SS-34673	IC-46794P	Ravi Raj Timothy	INF
105.	SS-34674	IC-46795X	Jagdeep Singh	INF
106.	SS-34675	IC-46796A	Ashish Bhatnagar	AOC
107.	SS-34676	IC-46797H	Arun Pushkarana	ASC
108.	SS-34677	IC-46798L	Rajendra Kumar	INF
109.	SS-34679	IC-46799N	Rusnil Singh Chahal	INF
110.	SS-34680	IC-46800X	Sunil Yadav	ARTY
111.	SS-34681	IC-46801A	Lav Mohan Joshi	INF
112.	SS-34683	IC-46803L	Umung Nigam	ASC
113.	SS-34686	IC-46805W	Manish Kumar Sharma	ARTY
114.	SS-34687	IC-46806Y	Pankaj Sharma	ARTY
115.	SS-34689	IC-46807F	Siddharth Tomar	AOC
116.	SS-35690	IC-46808K	Ajay S. Katiyar	ARTY
117.	SS-34691	IC-46809M	Shashank Ranjan	INF
118.	SS-34693	IC-46810F	Dennis Diaz	ARTY
119.	SS-34694	IC-46811K	Vinod Singh Rana	AOC
120.	SS-34698	IC-46812M	Harsh V. Chhibber	INF
121.	SS-34699	IC-46813P	Alok Shankar	ASC
122.	SS-34701	IC-46815A	Subir Chand Chhibber	AC
123.	SS-34702	IC-46816H	Freddy H. Merchant	INF
124.	SS-34704	IC-46818N	Sharad Nigam	EME
125.	SS-34705	IC-46819W	Gurvinder Singh	INF
126.	SS-34706	IC-46820L	Inderjeet Singh	SIGS
127.	SS-34709	IC-46823Y	Deotale Dushyant Manik	ASC
128.	SS-34710	IC-46824F	E. T. Sanjeev	INF
129.	SS-34711	IC-46825K	Saket Saxena	INF
130.	SS-34712	IC-46826M	Naresh	ASC
131.	SS-34715	IC-46827P	Tapas Ranjan Bera	AOC
132.	SS-34717	IC-46828X	Saurabh Misra	ASC
133.	SS-34721	IC-46830P	Bhaskar Chandra Pandey	EME
134.	SS-34723	IC-46831X	Rajiv Bhardwaj	ASC
135.	SS-34724	IC-46832A	Amar Ramdasani	INF
136.	SS-34725	IC-46833H	Kamat Rajeev Suresh	ARTY
137.	SS-34726	IC-46834L	V. Srinivas	AC
138.	SS-34729	IC-46837Y	Zehirul Islam Roshid	INF
139.	SS-34731	IC-46838F	Kaushik Nandy	INF



1	2	3	4	5
140.	SS-34732	IC-46839K	Ajay Sharma	ARTY
141.	SS-34733	IC-46840Y	Hitish Chandra Bhatnagar	JAG
142.	SS-34736	IC-46842K	Amit Bhargava	AD ARTY
143.	SS-34737	IC-46843M	Tuhin Kumar Paul	ARTY
144.	SS-34564	IC-46711Y	Ravinder Singh	ASC
145.	SS-34663	IC-46787Y	Mohammed Saleem Gade	AD ARTY
146.	SS-34720	IC-46829A	Banerjee Sanjoy Gour	ENGR
147.	SS-34523	IC-46682P	Hardeep Singh Dhandi	ARTY
148.	SS-34547	IC-46698A	V. Ganapathy	INF
149.	SS-34567	IC-46714M	Ajay Kumar Jha	AC
150.	SS-34610	IC-46749H	Brinder Pal Singh	INF
151.	SS-34707	IC-46821N	Raj Kumar Kapil	ARTY
152.	SS-34728	IC-46836W	Anoop Mahajan	M/INF

P. K. Rampal  
Col.  
Col. MS 7

The, 31st January 1996

No. 130, the 31st January 1996.—The President is pleased to appoint the following Personal Assistants of AFHQ Stenographers Service as Private Secretary on temporary promotion basis from the dates shown against their names for a period upto and including 30-9-95 or till persons from select list become available whichever is earlier :—

1. Ms. Uma Arora—01-8-95
2. Smt. Dilbir Kaur—01-8-95.

The above Private Secretary are appointed purely on temporary basis and can be reverted without notice for administrative reasons. These officers will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will their service rendered on temporary basis reckon for seniority.

RENU K. RAJU,  
Dy. Chief Administrative Officer

(ARMY BRANCH)

(MILITARY ENGINEER SERVICES)

The 2nd Feb 1996

No. 131, the 2nd February 1996.—The President is pleased to appoint the following Administrative Officer Grade II as Administrative Officer Grade I with effect from the dates as indicated against their names, until further orders :—

- (a) MES-305365 Shri Mlook Chand—29 Apr 94 (F/N).
- (b) MES-3034028 Shri Gurdev Singh—26 Apr 94 (F/N).
- (c) MES-180501 Shri V. Balachandran—11 Mar 94 (F/N).
- (d) MES-8464786 Shri Prem Kumar Bhatia—06 Dec 95 (F/N).
- (e) MES-302828 Shri Sanjeev Punwar—06 Dec 95 (F/N).

RITA CHATTERJEE,  
Under Secretary

AIR HEADQUARTERS

No. 132, dated 2nd February, 1996.—The President is pleased to appoint Shri Manohar Lal, Personal Assistant of AFHQ Stenographers' Service as Private Secretary on temporary promotion basis with effect from 01 Jan 96 for a

8—514 GI/95

period upto and including 31, Mar 96 or till persons from Select List become available whichever is earlier.

RENU K. RAJU  
Dy. Chief Administrative Officer

(AIR BRANCH)

No. 133, dated 2nd February 1996.—The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (on probation for one year) to the undermentioned under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S. 18731/16/Trg/1285/US/D (Air-III) dated 29 Oct 91. These officers will be eligible for the grant of Flying Pay with effect from the date of grant of Permanent Commission and Wings (on probation) i.e. 18 Jun 94.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

(Ex-Airmen to be Pilot Officers)

Debabrata Dey (22968) wef 18 Jun 94.

The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (on probation for one year) to the undermentioned under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/S. 18731/16/Trg/1285 US/D (Air-III) dated 29 Oct 91. These officers will be eligible for grant of Flying Pay with effect from the date of grant of Permanent Commission and Wings (on probation) i.e. 18 Dec 93.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

(Ex-NDA Cdts to be Pilot Officers)

Anil Goyal (22686) and Ashish A Hebalkar (22713) with effect from 18 Dec 93.

The President is pleased to sanction the relinquishment of Provisional Short Service Commission and grant them Permanent Commission (on probation) to the undermentioned Pilot Officers under the provisions of AFJ 15/76.

INDIAN AIR FORCE

METEOROLOGICAL BRANCH

Harishkumar Kazkhe Pattathu (22004) and Vethamoni-kam Johnson Kirubhanidhi (22005) wef 21 Jun 93.

H. B. SHARMA  
SON IDR  
ADP03(D)

## (ARMY BRANCH)

No. 134, dated 12th February 1996.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and dates specified :—

## REGULAR ARMY

## DEFENCE SECURITY CORPS

In the Rank of Subedar (GD)

Subedar Rabindar Singh Chhetri (JC-159329W), Formerly 1 Gorkha Rifles—06 Jul 94.

Subedar Surjit Singh (JC-172255L), Formerly Corps of Signals—07 Jul 94.

In the Rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar Roshan Lal (JC-177896F), Formerly The Brigade of Guards—01 Nov 94.

Naib Subedar Govindasamy Sundaresan (JC-142334L), Formerly The Madras Engr Group—02 March 95.

Naib Subedar Praduman Singh Rawat (JC-167249-N), Formerly The Garh Rif—05 Mar 95.

PRAKASH CHAND  
Under Secy.

## (ARMY BRANCH)

No. 135, dated 9th February 1996.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer consequent on the completion of the probationary period :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Flt Lt Manoj Kumar (MR-06431-H) (21990) AMC/PC 13 May 92.

J. C. SHARMA  
Surg Rear Admiral  
ADDL DGAFMS

## (ARMY BRANCH)

No. 136, dated 13th February 1996.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Colonels to Brigadiers

1. RC Thampy (MR-2019) AMC/PC 01-07-94 (Notional seniority without effect on pay and pension from 01-02-94).
2. KC Nagpal (MR-2113) AMC/PC 28-06-94 (Notional seniority without effect on pay and pension from 09-06-94).

Note :—Gazette Notifications in R/o the above named officers already published on 17-12-94 & 3-9-94 respectively, be treated as cancelled.

J.C. SHARMA  
Surg RADM  
Addl DGARMS

No. 137, dated 8th February 1996.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name & Arms

49870 CS Mann, AC, 15-12-95.

49871 RS Rathore, Inf, 15-12-95,

IC No., Name & Arms

49873 DR Rahar, AOC, 15-12-95.

49875 MN Sajjan, Inf, 15-12-95.

49876 R Banerji, M/Inf, 15-12-95.

49877 SK Singh, Inf, 15-12-95.

49878 R Sundaram, Inf, 15-12-95.

49879 GS Choudhary, AD Arty, 15-12-95.

49880 S Bahl, AOC, 15-12-95.

49881 K. Amarnath, Arty,—15-12-95.

49882 A Kacker, EME, 15-12-95.

49884 S Seth, Inf, 15-12-95.

49885 C Limaye, Inf, 15-12-95.

49886 P Pant, Inf, 15-12-95.

49889 IS Samyal, Inf, 15-12-95.

49890 S Negi, Inf, 15-12-95.

49891 G. Sharma, Inf, 15-12-95.

49892 S. Choudhary, Inf, 15-12-95.

49894 A Luthra, EME, 15-12-95.

49895 S. Murugesan, Inf, 15-12-95.

49896 AK Tripathi, Inf, 15-12-95.

49897 R. Chaudhary, EME, 15-12-95.

49898 A. Chandel, Inf, 15-12-95.

49899 RK Mour, Arty, 15-12-95.

49900 G Shekdar, ASC, 15-12-95.

49902 JS Yadav, Arty, 15-12-95.

49903 R Gupta, AD Arty, 15-12-95.

49904 R Khullar, Inf, 15-12-95.

49905 L Singh, Inf, 15-12-95.

49908 V Agarwal, M/Inf, 15-12-95.

49909 DS Bajaj, M/Inf, 15-12-95.

49913 Arjun Singh, Inf, 15-12-95.

49917 BS Pundir, Arty, 15-12-95.

49919 H Singh, Inf, 15-12-95.

49920 N Bhatnagar, Sigs, 15-12-1995.

49921 S Sharma, AD Arty, 15-12-1995.

49922 M Dobhal, Inf, 15-12-1995.

49924 SS Dhadwal, ASC, 15-12-95.

49926 VK Purohit, Inf, 15-12-95.

49927 S Thakkar, Inf, 15-12-95.

49929 DD Pathak, Inf, 15-12-95.

49930 NK Wadhwa, AOC, 15-12-95.

49931 TJ Singh, ASC, 15-12-95.

49932 PS Bisht, Sigs, 15-12-95.

49934 HS Chauhan, AOC, 15-12-95.

49935 AS Janwal, Arty, 15-12-95.

49936 PVR Subramaniam, Engr, 15-12-95.

49937 TS Soin, AC, 15-12-95.

49938 AS Chauhan, Inf, 15-12-95.

49939 VS Sekhon, Inf, 15-12-95.

49940 SK Singh, ASC, 15-12-95.

- 49944 P Duggal, M/Inf, 15-12-95.  
 49946 GP Jacob, Engrs, 15-12-95.  
 49949 D. Chowdhury, Arty, 15-12-95.  
 49950 P Yadav, Engrs, 15-12-95.  
 49951 R Singh, Arty, 15-12-95.  
 49952 G Srinivas, Arty, 15-12-95.  
 49953 ADS Grewal, ASC, 15-12-95.  
 49955 Vivek Lall, Inf, 15-12-95.  
 49956 SK Singh, AOC, 15-12-95.  
 49957 VK Nagyal, AC, 15-12-95.  
 49959 P. Pankaj, AOC, 15-12-95.  
 49960 G Singh, AD Arty, 15-12-95.  
 49961 G. Trivedi, Arty, 15-12-95.  
 49962 M. Prakash, Inf, 15-12-95.  
 49963 R Singh, EME, 15-12-95.  
 49964 R Kaswan, Inf, 15-12-95.  
 49965 D Ahuja, Arty, 15-12-95.  
 49966 SS Negi, Inf, 15-12-95.  
 49967 AS Walia, Inf, 15-12-95.  
 49968 S Kumar, Sigs, 15-12-95.  
 49969 A Kamat, Inf, 15-12-95.  
 49970 SP Singh, AD Arty, 15-12-95.  
 49971 G Vakshalam, EME, 15-12-95.  
 49975 VS Dahiya, Inf, 15-12-95.  
 49976 SS Cheema, Inf, 15-12-95.  
 49978 D Pereira, Engrs, 15-12-95.  
 49980 AK Dalal, AC, 15-12-95.  
 49981 D Rawat, Arty, 15-12-95.  
 49982 NK Raijada, Arty, 15-12-95.  
 49983 A Ramakrishnan, Sigs, 15-12-95.  
 49984 Amit Dev, Inf, 15-12-95.  
 49986 AK Arora, Arty, 15-12-95.  
 49988 JS Minhas, Sigs, 15-12-95.  
 49989 P Singh, EME, 15-12-95.  
 49993 PV Sudhakar, Int, 15-12-95.  
 49995 A Kumar, EME, 15-12-95.  
 49997 GVS Rao, ASC, 15-12-95.  
 49998 N Jaryal, Inf, 15-12-95.  
 49999 R Bhanwala, Arty, 15-12-95.  
 50000 R Kumar, AOC, 15-12-95.  
 50001 AY Rajan, Inf, 15-12-95.  
 50003 PP Barik, Inf, 15-12-95.  
 50006 RK Ahlawat, Inf, 15-12-95.  
 50007 V Bhushan, EME, 15-12-95.  
 50008 SP Sinha, Inf, 15-12-95.  
 50009 S Dhillon, Inf, 15-12-95.  
 50010 S Balakrishnan, Inf, 15-12-95.  
 50011 V Kotiyal, Sigs, 15-12-95.  
 50013 JP Kaushik, M/ Inf, 15-12-95.  
 50014 WG Gulab, Engrs, 15-12-95.  
 50016 BS Siwach, Inf, 15-12-95.  
 50017 Vikas Puri, EME, 15-12-95.  
 50019 N Srinivasan, Arty, 15-12-95.  
 50020 P Mukhopadhyay, AOC, 15-12-95.  
 50024 Ravi Reddy, Engrs, 15-12-95.  
 50025 Vinay Gupta, EME, 15-12-95.  
 50026 DK Singh, Sigs, 15-12-95.  
 50027 AS Khangarot, Inf, 15-12-95.  
 50028 P Pathak, Inf., 15-12-95.  
 50029 P Seth, Arty., 15-12-95.  
 50030 S Patney, AOC, 15-12-95.  
 50031 R Kumar, ASC, 15-12-95.  
 50033 R Kataria, AC, 15-12-95,  
 50034 V K Nambiar, Inf., 15-12-95.  
 50035 A Mathur, Engrs., 15-12-95.  
 50036 V K Pundir, Arty., 15-12-95.  
 50037 S Pande, Inf., 15-12-95.  
 50038 N Chauhan, EME, 15-12-95.  
 50043 R S Dhaila, Arty., 15-12-95.  
 50044 A Tiwari, Inf., 15-12-95.  
 50045 NS P Bisht, Inf., 15-12-95.  
 50046 R P Raj, M/Inf., 15-12-95.  
 50047 U Verma, AC, 15-12-95.  
 50048 W J K Singh, AOC, 15-12-95.  
 50050 H Kapoor, Engrs., 15-12-95.  
 50051 S Das, Inf., 15-12-95.  
 50052 A K Raina, Arty., 15-12-95.  
 50054 S Anand, Inf., 15-12-95.  
 50055 M Chaubey, AOC, 15-12-95.  
 50056 V Samant, AD Arty., 15-12-95.  
 50059 Y K Ahuja, Engrs., 15-12-95.  
 50060 R Chawla, Inf., 15-12-95.  
 50062 G N Desouza, Sigs., 15-12-95.  
 50063 D J Ingawale, AC, 15-12-95.  
 50064 S Mukherjee, Engrs., 15-12-95.  
 50065 N Gopal, EME, 15-12-95.  
 50066 D Krishna, Inf., 15-12-95.  
 50069 A Thakur, Arty., 15-12-95.  
 60070 K V K Prakash, Inf., 15-12-95.  
 50071 A Dahiya, ASC, 15-12-95.  
 50072 G V Arudra, AD Arty, 15-12-95.  
 50075 G K Jha, ASC, 15-12-95.  
 50076 K S Ghuman, M/Inf., 15-12-95.  
 50077 R Sriram, Engrs., 15-12-95.  
 50078 V Sehgal, Arty., 15-12-95.  
 50080 Y S Ahlawat, Inf., 15-12-95.  
 50081 R Pathania, Arty., 15-12-95.  
 50082 OP Rai, Inf, 15-12-95.

550083 S Jain, Arty., 15-12-95.	50163 M V Ganapathy, Inf., 15-12-95.
50084 M K Kochhar, Sigs., 15-12-95.	50164 N Chakraborty, Engrs., 15-12-95.
50087 P P T Yeole, Engrs., 15-12-95.	50165 S S Chauhan, Inf., 15-12-95.
50088 S K Singh, Arty., 15-12-95.	50166 N S Bahchhal, EME, 15-12-95.
50090 G Mahajan, Sigs., 15-12-95.	50168 D Singh, Arty., 15-12-95.
50091 M R S Sarmal, AOC, 15-12-95.	50169 M S Gurung, Inf., 15-12-95.
50094 R S Kohli, EME, 15-12-95.	50170 V C Sharan, AOC, 15-12-95.
50095 R Batra, EME, 15-12-95.	50172 A Saksena, Sigs., 15-12-95.
50096 P Sharma, Inf., 15-12-95.	50175 R Budhani, Inf., 15-12-95.
50098 M T Swamy, ASC, 15-12-95.	50176 S Sharanappa, M/Inf., 15-12-95.
50099 I S Bhalla, Inf., 15-12-95.	50177 H P S Bhati, AD Arty., 15-12-95.
50100 R Mehta, Arty., 15-12-95.	50178 L K Deolal, Inf., 15-12-95.
50103 P Tiwari, Sigs., 15-12-95.	50179 P Gopalam, Arty., 15-12-95.
50104 D S Bisht, Inf., 15-12-95.	50180 G C D Raj, Inf., 15-12-95.
50105 S Singh, Inf., 15-12-95.	50184 A Shahi, Inf., 15-12-95.
50106 N Punetha, Inf., 15-12-95.	50186 K Singh, Inf., 15-12-95.
50107 G S Bachhal, Inf., 15-12-95.	50187 S N Shekhar, Arty., 15-12-95.
50108 R Kumar, Engrs., 15-12-95.	50188 R Gandhi, EME, 15-12-95.
50113 J S Kundwal, Inf., 15-12-95.	50189 R Singh, Inf., 15-12-95.
50114 G R Kesavan, Inf., 15-12-95.	50192 R Philipose, AOC, 15-12-95.
50115 S K Rai, AD Arty., 15-12-95.	50195 A Dhayani, ASC, 15-12-95.
50116 Neel Kamal, ASC, 15-12-95.	50196 S Kashyap, Sigs., 15-12-95.
50118 L C Naidu, ASC, 15-12-95.	50197 V Singh, Arty., 15-12-95.
50120 A M Shende, Arty., 15-12-95.	50198 C A B Rao, Inf., 15-12-95.
50122 M N Bhawe, AD Arty., 15-12-95.	50201 A Singh, AC, 15-12-95.
50127 A S Sambyal, Sigs., 15-12-95.	50202 S Singh, Inf., 15-12-95.
50128 R S Dhir, EME, 15-12-95.	50203 S S Bhadauria, Inf., 15-12-95.
50129 S Nagar, AC, 15-12-95.	50204 K D Singh, M/Inf., 15-12-95.
50130 A J K Bali, Sigs., 15-12-95.	50205 S Pal, Arty., 15-12-95.
50132 S S Yadav, EME, 15-12-95.	50208 V Veerabadhiran, M/Inf., 15-12-95.
50136 N Suda, Engrs., 15-12-95.	50209 A Sharma, Sigs., 15-12-95.
50137 N Reddy, Inf., 15-12-95.	50210 K Ganesh, Inf., 15-12-95.
50140 M R Rao, Arty., 15-12-95.	50214 A Ankur, Engrs., 15-12-95.
50141 S M Kumar, Inf., 15-12-95.	50217 V K Koul, Inf., 15-12-95.
50144 R K Malapati, ASC, 15-12-95.	50218 T S Bhandari, Inf., 15-12-95.
50145 R Singh, Inf., 15-12-95.	50219 U Verma, ASC, 15-12-95.
50146 R A Podram, Engrs., 15-12-95.	50222 K C Iyappa, AC, 15-12-95.
50147 A Roy, Sigs., 15-12-95.	50224 S Kumar, Arty., 15-12-95.
50149 R Kumar, Arty., 15-12-95.	50225 A Chandra, EME, 15-12-95.
50150 A Sehgal, Inf., 15-12-95.	50226 A K Singh, Inf., 15-12-95.
50151 V Gupta, Sigs., 15-12-95.	50228 V Chaudhary, Inf., 15-12-95.
50152 P S Shekhawat, Inf., 15-12-95.	50229 D Nag, Inf., 15-12-95.
50153 R Tuli, Sigs., 15-12-95.	50231 B P Singh, Engrs., 15-12-95.
50158 A Banerjee, Arty., 15-12-95.	50232 S Batra, Arty., 15-12-95.
50159 S Bose, Engrs., 15-12-95.	50235 R D S Rana, EME, 15-12-95.
50160 V S Brar, Inf., 15-12-95.	50237 V Sharma, Engrs., 15-12-95.
50161 M S Rawat, M/Inf., 15-12-95.	50262 G C Mohanta, AEC, 15-12-95.
50162 K N S Kumar, EME, 15-12-95.	49992 275 Yazdani, Arty.—15-12-95 (but for pay and allowances from 9-1-96).

51883 A Kumar, Engrs., 19-12-95.  
 51885 D C Nail, Engrs., 19-12-95.  
 51887 C Sheikher, FME, 19-12-95.  
 51896 A Mishra, Engrs., 19-12-95.  
 51897 S G Dūbagi, EME, 19-12-95.  
 51898 A Kakar, EME, 19-12-95.  
 51899 C George, Engrs., 19-12-95.  
 51900 R Shukla, EME, 19-12-95.  
 51901 A Srivastava, Engrs., 19-12-95.  
 51902 R K Yadav, Engrs., 19-12-95.  
 51903 A K Jain, EME, 19-12-95.  
 51905 K Kapur, FME, 19-12-95.  
 51907 A K Mishra, EME, 19-12-95.  
 51921 S V Kulkarni, EME, 19-12-95.  
 51922 A Srinivas, EME, 19-12-95.

## LT TO BE CAPT (SPECIAL LIST)

SL-3543 N Ramanaji—26 Jul 92.  
 SL-3691 VS Krishna, SL-3776 DS Dhaka, SL-3821 OP  
 Awasthi—01 Oct 94.

## SHORT SERVICE COMMISSION

## 2, LT TO BE LT

Vikash Katoch (SS-35668) Inf—21 Aug 95.  
 Rudradeep Dutta Roy (SS-35591) Inf—06 Mar 95.

S. D. RAI  
 CSO  
 DAMS 8C

No. 138, dated 6th February 1996.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## MILITARY NURSING SERVICE

(Permanent Commission)

Major to Lt Colonel (Time Scale)

Mrs Jaya Govind Rajan (NR-15512K), wef 1-12-94  
 Mrs Geeta P Dhavale (NR-15523W), wef 30-12-94  
 Mrs A Kohli (NR-15527M), wef 30-12-94  
 Mrs Mary Yohannan (NR-15530M), wef 30-12-94  
 Mrs K K Gill (NR-15533A), wef 30-12-94  
 Mrs Thulsi Vijayan (NR-15542F), wef 30-12-94  
 Mrs Vijay Kumari (NR-15549L), wef 30-12-94  
 Mrs M R Sood (NR-15554W), wef 30-12-94  
 Mrs H J Bhullar (NR-15556F), wef 30-12-94  
 Mrs Garud Manik (NR-15558M), wef 30-12-94  
 Miss V V Rane (NR-15657G), wef 14 Feb 95  
 Mrs D B Rajkumari (NR-15664L), wef 23 Mar 95  
 Mrs R Shantha (NR-15665N), wef 21 Mar 95  
 Mrs A B Mall (NR-15670Y), wef 15 Apr 95  
 Mrs K Anand (NR-15698Y), wef 18 Jun 95  
 \*Mrs S Sood (NR-15843), wef 21 Jan 95

\*Mrs K K Sharma (NR-15868), wef 16 Jun 95  
 \*Mrs D Manomani (NR-15881), wef 16 Jun 95  
 (Including one year seniority on account of BSc Nursing).  
 Mrs Lucy Rajan (NR-15599W), wef 30-12-94  
 Mrs E P Jagadamma (NR-15609P), wef 30-12-94  
 Miss S K Bhola (NR-15617N), wef 30-12-94  
 Mrs Vipin Yadav (NR-15619Y), wef 30-12-94  
 Mrs Nalini Kochunni (NR-15620N), wef 30-12-94  
 Mrs M Saraswathy (NR-15621W), wef 30-12-94  
 Mrs I Balakrishnan (NR-15627X), wef 30-12-94  
 Mrs Usha Rani (NR-15628A), wef 30-12-94  
 Mrs S Pushpavally (NR-15633L), wef 30-12-94

## TO BE CAPT

NR-19207 (Mrs) MV Swarna—29-12-93  
 NR-19208 (Miss) Shaista Nigar—29-12-93  
 NR-19210 (Mrs) Annamma Xavier—29-12-93  
 NR-19211 (Mrs) V Jeyalalitha—29-12-93  
 NR-19212 (Mrs) Valsamma Dominic—29-12-93  
 NR-19214 (Mrs) Kunjomana CS—29-12-93  
 NR-19216 (Miss) Manorama Singh—29-12-93  
 NR-19217 (Mrs) Sophia PG—29-12-93  
 NR-19218 (Mrs) Sushan Rekha—29-12-93  
 NR-19233 (Miss) Jaishri Devi—29-12-93  
 NR-19234 (Mrs) Jaya P—29-12-93  
 NR-19235 (Mrs) J Mary Babra—29-12-93  
 NR-19236 (Mrs) Annamma Mathew—29-12-93  
 NR-19237 (Mrs) Mayamol KG—29-12-93  
 NR-19238 (Mrs) Sophiamma John—29-12-93  
 NR-19239 (Mrs) Vimla Rawat—29-12-93  
 NR-19240 (Mrs) Juliamma Joseph—29-12-93  
 NR-19241 (Mrs) Mollyamma Thomas—29-12-93  
 NR-19242 (Mrs) Rubi Selva Kumari P—29-12-93  
 NR-19255 (Mrs) Mary PJ—29-12-93  
 NR-19256 (Miss) Sarla Chaurasia—29-12-93  
 NR-19258 (Mrs) VV Rooby—29-12-93  
 NR-19259 (Mrs) Radhamani PC—29-12-93  
 NR-19261 (Miss) Suman Lata—29-12-93  
 NR-19262 (Mrs) Aleyamma MN—29-12-93  
 NR-19263 (Mrs) Vilasini MS—29-12-93  
 NR-19264 (Miss) Gracy Joseph—29-12-93  
 NR-19265 (Mrs) Molly John—29-12-93  
 NR-19266 (Mrs) Anita Gupta—29-12-93  
 NR-19304 (Miss) B Beulah Usha Rani—29-12-93  
 NR-19306 (Miss) Thanakamani PM—29-12-93  
 NR-19307 (Mrs) Regina AJ—29-12-93  
 NR-19308 (Miss) Umesh Yadav—29-12-93  
 NR-19309 (Mrs) Asha Rani—29-12-93  
 NR-19310 (Mrs) Suja VK—29-12-93

NR-19311 (Miss) Leena Kumary—29-12-93  
 NR-19313 (Mrs) Gayatri Sinha—29-12-93  
 NR-19317 (Mrs) Luciamma CC—29-12-93  
 NR-19318 (Mrs) Shakuntala—29-12-93  
 NR-19319 (Miss) Sumesh Lata—29-12-93  
 NR-19320 (Mrs) Lakshmi P—29-12-93  
 NR-19321 (Mrs) Gangamma TB—29-12-93  
 NR-19323 (Mrs) Chander Kanta Pahwa—29-12-93  
 NR-19324 (Mrs) N. Jayanthi—29-12-93  
 NR-19326 (Miss) Shagi George—29-12-93  
 NR-19327 (Mrs) Kalyani Biswas—29-12-93  
 NR-19328 (Miss) Kamlesh Kaushal—29-12-93  
 NR-19329 (Mrs) AA Shalct—29-12-93  
 NR-19330 (Mrs) Rosilin Jose—29-12-93  
 NR-19331 (Mrs) Dayalsa Mathew—29-12-93  
 NR-19093 (Miss) Neelu Takkar—29-12-93  
 NR-19094 (Miss) Archana—29-12-93  
 NR-19096 (Mrs) Jscentha UA—29-12-93  
 NR-19098 (Miss) Sharma Praveena Shyamlal—29-12-93  
 NR-19099 (Miss) Elsamma George—29-12-93  
 NR-19100 (Miss) Pawar Meena Vaman—29-12-93  
 NR-19101 (Miss) Manisha Thakur—29-12-93  
 NR-19102 (Mrs) D. Nirmala—29-12-93  
 NR-19103 (Mrs) Helen Maria D' Souza—29-12-93  
 NR-19104 (Mrs) MH Latha—29-12-93  
 NR-19130 (Miss) Molley Kutty EC—29-12-93  
 NR-19131 (Miss) C Suseela—29-12-93  
 NR-19133 (Miss) Girija Kumari S—29-12-93  
 NR-19134 (Miss) Reena Goel—29-12-93  
 NR-19135 (Miss) Rathinammal R—29-12-93  
 NR-19136 (Miss) J Prema—29-12-93  
 NR-19137 (Mrs) Madhu Mahindroo—29-12-93  
 NR-19138 (Mrs) Savita Shivnanda—29-12-93  
 NR-19139 (Miss) Gracy PM—29-12-93  
 NR-19140 (Mrs) Sheela Godwin G—29-12-93  
 NR-19141 (Mrs) Latha Joseph—29-12-93  
 NR-19142 (Miss) Ancy Thomas—29-12-93  
 NR-19143 (Miss) Bandana Sen—29-12-93  
 NR-19144 (Mrs) Agnes Shanthi—29-12-93  
 NR-19145 (Mrs) Suma MD—29-12-93  
 NR-19146 (Miss) Girija Natarajan—29-12-93  
 NR-19147 (Mrs) Rosamma Scarla—29-12-93  
 NR-19148 (Miss) Immakulatamariam D—29-12-93  
 NR-19149 (Mrs) Beena NK—27-2-94  
 NR-19150 (Miss) R Ramp—29-12-93  
 NR-19163 (Mrs) Aniamma Joseph—29-12-93  
 NR-19164 (Miss) Usha Rajan—29-12-93  
 NR-19165 (Miss) Veena Bhatti—29-12-93  
 NR-19166 (Mrs) Rajini—29-12-93

NR-19167 (Miss) Usha—29-12-93  
 NR-19168 (Mrs) Arulna Yadava—29-12-93  
 NR-19169 (Mrs) Harjeet Walia—29-12-93  
 NR-19170 (Miss) Chaya Rani Singh—29-12-93  
 NR-19171 (Mrs) Sreelatha K—29-12-93  
 NR-19172 (Mrs) M Nirmala—29-12-93  
 NR-19173 (Mrs) Jainamma P Joseph—29-12-93  
 NR-19174 (Mrs) Usha PR—29-12-93  
 NR-19175 (Miss) Aarti—29-12-93  
 NR-19176 (Mrs) Lizy KJ—29-12-93  
 NR-19177 (Mrs) R Mohanambal—29-12-93  
 NR-19178 (Mrs) Lali P—29-12-93  
 NR-19182 (Miss) Treesa H Fernandez—29-12-93  
 NR-19183 (Mrs) Gurpreet Kaur—29-12-93  
 NR-19184 (Mrs) C Nirmala—29-12-93  
 NR-19185 (Mrs) Daisy Joseph—29-12-93  
 NR-19186 (Mrs) Shipra Das—29-12-93  
 NR-19187 (Miss) Joise TJ—29-12-93  
 NR-19188 (Miss) Jessy John—29-12-93  
 NR-19189 (Miss) R Vijaya Rani—29-12-93  
 NR-19190 (Mrs) Paru Tamang—29-12-93  
 NR-19191 (Mrs) Mercy Mathew—29-12-93  
 NR-19192 (Miss) Sunita Katoch—29-12-93  
 NR-19193 (Mrs) Sheeba John—29-12-93  
 NR-19194 (Mrs) Sherly PM—29-12-93  
 NR-19195 (Mrs) Shobhana P—29-12-93

P. F. SONABAI  
 Maj Gen  
 Addl DG MNS

(ARMY BRANCH)

No. 139, dated the 6th February 1996.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMOURED CORPS

(To be substantive Risaldars)

Naib Risaldar Chandrapal Singh (JC-195302K), 07th Jun 95.

Naib Risaldar Ratan Singh (JC-195332F), 07th Jun 95.

Naib Risaldar/Clk (GD) Ramanand Yadav (JC-200768Y), 07th Jun 95.

Naib Risaldar/Clk (GD) Prempal Sharma (JC-200769F), 07th Jun 95.

Naib Risaldar Gurdev Singh (JC-203186K), 07th Jun 95.

Naib Risaldar Ajit Singh Rathore (JC-206584W), 07th Jun 95.

Naib Risaldar Enlok Singh Nitwal (JC-219158F), 07th June 1995.

Naib Risaldar Chander Mani (JC-211548P), 07th Jun 95.

Naib Risaldar/Clk (GD) Gajendranath Thalukdar (JC-200770W), 07th Jun 95.

Naib Risaldar Jagbir Singh (JC-200686W), 07th Jun 95.

- Naib Risaldar Rang Lal Badhai (JC-181347Y), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Sardar Singh (JC-203172K), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Jaswant Singh (JC-200772F), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Charan Singh (JC-203274A), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Tek Singh (JC-203275H), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Thuru Ram (JC-219166A), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Om Prakash Dahiya (JC-203276L), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Subhash Chander Sharma (JC-203277N), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Ajit Singh (JC-203279Y), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Karnail Singh Rana (JC-203280N), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Lankeshwar Basumatary (JC-203281W), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Subhash Chandra Tiwari (JC-203282Y), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Karan Singh (JC-219171L), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Harminder Singh (JC-219109Y), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Pushpangathan K (JC-203284K), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Mansaram (JC-203285M), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Jaipal Sagwal (JC-219042L), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Madan Singh Vashith (JC-203286P), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Satbir Singh (JC-211503P), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Fauja Singh (JC-200688F), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Jai Ram Singh (JC-184059Y), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Pooniah Perumal (JC-203287X), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Anoop Ram Thakur (JC-203288A), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Birahm Singh (JC-203289H), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Mahipal Singh (JC-196761P), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Bir Singh (JC-189679X), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Janeshwar Dayal (JC-196731X), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Subhash Chander (JC-203263N), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Ishwar Singh (JC-206527P), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Surjit Singh Rana (JC-203291A), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Ishwar Singh Rana (JC-204579M), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Joginder Singh (JC-204580F), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Govind Singh (JC-219035P), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Sarbjit (JC-211568Y), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Subhash Chander Lakshak (JC-216345P), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Rattan Singh (JC-219191Y), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Bhagwan Singh Verma (JC-219196X), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Umed Singh (JC-194115Y), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Prem Singh (JC-196732A), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Khajana Ram (JC-211473H), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Samuel Dhanaraj (JC-204581K), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Dharam Pal Singh Yadav (JC-204582M), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Soran Singh (JC-211501K), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Amarpal Singh Malik (JC-219041H), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Govind Singh (JC-219113F), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Jasvir Singh (JC-222866Y), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Jai Parkash (JC-222868K), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Attar Singh (JC-219172N), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Avtar Singh (JC-222891X), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Balbir Singh (JC-222917F), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Basti Ram (JC-195349F), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Padam Ram (JC-195351M), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Sudarshan Prasad (JC-196754Y), 07th Jun 95.
- Naib Risaldar Onkar Singh (JC-206581A), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar Muchawad Janardhan Vithal Rao (JC-204537A), 01st July 95.
- Naib Risaldar Nawab Ali Khan (JC-204557N), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar Kuldeep Singh (JC-211509W), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar Surja Ram (JC-222919M), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar Prabhu Dayal Yadav (JC-203198Y), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar Mohan Singh Bist (JC-204561W), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Rai Singh Rana (JC-211443L), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar/Clk (GD) Rambir Singh (JC-204583P), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar Tarsem Singh (JC-211569L), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar Ravindra Amrut Rao Choudhari (JC-219106L), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar Prabh Dayal (JC-219213M), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar Surjan Singh (JC-222900N), 01st Jul 95.
- Naib Risaldar Sahab Singh (JC-235709L), 01st Aug 95.
- Naib Risaldar Hari Singh (JC-203259L), 01st Aug 95.
- Naib Risaldar Jagat Singh Bhatiya (JC-204562Y), 01st Aug 95.
- Naib Risaldar Ram Avtar Singh (JC-222918K), 01st Aug 95.
- Naib Risaldar Raghunath (JC-235519Y), 01st Aug 95.

To be substantive Risaldars

- Naib Risaldar Anup Singh (JC-166620L), 01st May 1994.
- Naib Risaldar Laxmi Narayan (JC-204527W), 01st Jul 1994.

Naib Risaldar Eshan Chand (JC-203235F), 01st Jan 1995.	Naib Risaldar Preet Singh (JC-235682Y), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Rameshwar Singh (JC-194122P), 30th Jan 1995.	Naib Risaldar Anil Chand Jat (JC-216526M), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Chhotu Ram Jat (JC-219097P), 01st Mar 1995.	Naib Risaldar Ran Singh (JC-219188Y), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Balkam Singh (JC-189618A), 01st Mar 1995.	Naib Risaldar Bhiku Ram (JC-235629W), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Jai Singh (JC-206573K), 01st Mar 1995.	Naib Risaldar Bajrang Singh (JC-223507X), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Shiv Prakash (JC-226983L), 01st Mar 1995.	Naib Risaldar Umrao Singh Sanewan (JC-206583N), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Munshi Ram (JC-203236K), 01st Mar 1995.	Naib Risaldar Dharamvir Singh (JC-200700X), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Kuldip Kumar Kesar (JC-189605H), 01st Apr 1995.	Naib Risaldar Karam Chand (JC-203182N), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Ram Asra (JC-206520L), 01st Apr 1995.	Naib Risaldar Jagraj Singh (JC-203222K), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Khazana Ram (JC-206521N), 01st Apr 1995.	Naib Risaldar Vinod Kumar (JC-211582P), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Bachitar Singh (JC-235619K), 01st Apr 1995.	Naib Risaldar Pritam Lal (JC-222860X), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Saubhi Singh (JC-206542K), 01st Apr 1995.	Naib Risaldar Jagan Nath (JC-222880I), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Fithu Ram Saklani (JC-206541I), 01st May 1995.	Naib Risaldar Shyam Singh (JC-222985P), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Jagdish Singh (JC-206582L), 01st Jun 1995.	Naib Risaldar Nazir Ahmed (JC-194153H), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Raja Ram (JC-206574M), 01st Jun 1995.	Naib Risaldar Jai Karan (JC-200692K), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Purn Chand (JC-211543N), 01st Jun 1995.	Naib Risaldar Muddugulla Subba Reddy (JC-219906W), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Sohan Lal Saini (JC-195303M), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Vijay Singh (JC-211577K), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Shoban Singh (JC-194165X), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Baxi Ram (JC-222935K), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Amar Singh Kushawah (JC-194166M), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Wazir Singh (JC-235632A), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Sahendra Pal Singh (JC-211508N), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Budhi Ram (JC-206549N), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Gurdeep Singh (JC-211567A), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Annwarul Haq (JC-204532L), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Dharam Prakash (JC-219117X), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Hukam Chand (JC-223484F), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Ambika Singh (JC-219165X), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Ram Kishan (JC-222957H), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Inderpal Singh (JC-222971P), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Norang Singh (JC-222937P), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Shri Narayan Mishra (JC-195403X), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Pritam Singh (JC-225628X), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Madan Lal Sharma (JC-195422H), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Bhup Singh Pasher (JC-226982Y), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Joginder Singh (JC-206530P), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Bishan Dass (JC-222995Y), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Zila Singh (JC-222896W), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Toga Ram (JC-225063K), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Rajendra Prasad Singh (JC-223501W), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Avadesh Bahadur Singh (JC-235502I), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Avtar Singh (JC-194167P), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Nain Singh (JC-219076Y), 07th Jun 1995.
Naib Risaldar Tara Datt (JC-211585H), 07th Jun 1995.	Naib Risaldar Surinder Singh (JC-203225X), 01st Jul 1995.



Naib Risaldar Daya Nand (JC-211547M), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Dharampal Singh (JC-219077F), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Bhag Chand (JC-196765L), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Jawan Singh (JC-211475N), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Amrik Singh (JC-211578M), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Balwant Rai (JC-222934F), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Kadam Singh (JC-225064A), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Suresh Chandra Yadav (JC-235517N), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Jit Singh (JC-235537F), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Hardip Singh Rana (JC-195353X), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Pritam Singh (JC-195354A), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Soowa Lal Yadava (JC-203191P), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Madan Mohan Panthari (JC-203221F), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Yasin Ali (JC-211469A), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Om Singh (JC-211514F), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Gavaale Krishna Vithoba (JC-211573N), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Kishore Singh (JC-219205N), 01st Jul 1995.

Naib Risaldar Suresh Kumar (JC-206533H), 01st Aug 1995.

Naib Risaldar Joinder Singh (JC-206546A), 01st Aug 1995.

Naib Risaldar Vijayan Nair PK (JC-222862L), 01st Aug 1995.

Naib Risaldar Sudanshu Chandra Mondal (JC-235674A), 01st Aug 1995.

Naib Risaldar Rachhpal Singh (JC-200732A), 01st Aug 1995.

Naib Risaldar Balu Singh (JC-206601L), 01st Aug 1995.

Naib Risaldar Ran Singh (JC-200735N), 01st Aug 1995.

Naib Risaldar Sawant Vasant Dhondiram (JC-206553W), 01st Aug 1995.

Naib Risaldar Mohinder Singh (JC-211456H), 14th Aug 1995.

Naib Risaldar Gopal Singh (JC-219032F), 01st Sep 1995.

Naib Risaldar Shyam Lal Dhiman (JC-219146H), 01st Sep 1995.

Naib Risaldar Dharampal Singh (JC-219131L), 01st Sep 1995.

Naib Risaldar Mam Chand (JC-211581M), 01st Sep 1995.

Naib Risaldar Major Singh (JC-206578H), 01st Oct 1995.

Naib Risaldar Ranjit Singh (JC-222873P), 01st Nov 1995.

Naib Risaldar Surinder Singh (JC-219071A), 01st Nov 1995.

Naib Risaldar Sarmukh Singh (JC-211474L), 01st Nov 1995.

Naib Risaldar Niranjan Singh Tanwar (JC-211529K), 01st Nov 1995.

Naib Risaldar Bahadur Singh (JC-211484P), 01st Nov 1995.

## To be Substantive Risaldars

Naib Risaldar SKT Jai Lal (JC-166596A), 01st Feb 94.

Naib Risaldar SKT Palkar Murlidhar (JC-166597H), 01st Feb 94.

Naib Risaldar Pritam Singh (JC-203170Y), 01st Mar 94.

Naib Risaldar Mohd Idris Khan (JC-189677M), 01st May 94.

Naib Risaldar Khachrnud Singh (JC-194149M), 01st Jun 94.

Naib Risaldar Mahipal Singh (JC-194160L), 01st Sep 94.

Naib Risaldar Ck (GD) Bir Singh Sinsinwar (JC-196715A), 01st Jan 95.

Naib Risaldar Ck (GD) Pritam Chand (JC-196716H), 01st Jan 95.

Naib Risaldar Ck (GD) Ghadage Vilas Narayan (JC-196717L), 30th Jan 95.

Naib Risaldar Itqad Hussain (JC-194158N), 15th Feb 95.

Naib Risaldar Ck (GD) Matura Datt (JC-196718N), 01st Mar 95.

Naib Risaldar Fateh Singh (JC-145262X), 01st Mar 95.

Naib Risaldar Ck (GD) Parameswaran Narayanan Pillai (JC-196720L), 01st Mar 95.

Naib Risaldar Ck (GD) Saminathan Vishwanathan (JC-196721N), 01st Mar 95.

Naib Risaldar Salwinder Singh (JC-195352P), 01st Mar 95.

Naib Risaldar Roop Singh (JC-195348M), 01st Mar 95.

Naib Risaldar Ram Krishan (JC-200765L), 01st Mar 95.

Naib Risaldar Ramvir Singh Yadav (JC-211542N), 01st Mar 95.

Naib Risaldar Mohinder Singh (JC-177470A), 01st Apr 95.

Naib Risaldar Ck (GD) Joinder Singh (JC-196722W), 01st Apr 95.

Naib Risaldar Ram Lal (JC-194109L), 01st Apr 95.

Naib Risaldar Hari Singh (JC-184095H), 01st Apr 95.

Naib Risaldar Ck (GD) Kulwaran Singh (JC-196723Y), 01st Apr 95.

Naib Risaldar Ck (GD) AG Unnikrishnan Pillai (JC-196725K), 01st Apr 95.

Naib Risaldar Ck (GD) Jagdish Chand (JC-196725M), 01st Apr 95.

Naib Risaldar Hamir Singh (JC-154843W), 01st Apr 95.

Naib Risaldar Shankar Lal (JC-211497M), 01st Apr 95.

Naib Risaldar GS Mankotia (JC-195367Y), 01st Apr 95.

- Naib Risaldar Hardev Singh (JC-203161X), 01st Apr 95.  
 Naib Risaldar Sabu Singh (JC-203248Y), 01st Apr 95.  
 Naib Risaldar Sawaran Singh (JC-211551P), 01st Apr 95.  
 Naib Risaldar Jagdish Prasad (JC-196759X), 01st Apr 95.  
 Naib Risaldar Munwar (JC-211513Y), 01st Apr 95.  
 Naib Risaldar DR Kotaiah (JC-175788Y), 01st Apr 95.  
 Naib Risaldar Garib Dass (JC-211463Y), 01st May 95.  
 Naib Risaldar Surrinder Kumar (JC-219149A), 23rd May 95.  
 Naib Risaldar Mohinder Singh (JC-154844Y), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar Bhim Singh Gurjar (JC-203166W), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar Bakhsish Singh (JC-219126Y), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar Jabar Singh (JC-154845F), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar Sajjan Singh (JC-219115M), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar Roop Singh Bisht (JC-154858Y), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar Aidan Singh Gogadey (JC-219136H), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar Amar Nath (JC-189666A), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar Har Gilas (JC-189676K), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar Jai Singh (JC-211540H), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar Hans Raj (JC-211466M), 01st Jun 95.  
 Naib Risaldar/SKT Sewa Singh (JC-166598L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/SKT Sewa Singh (JC-166598L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/SKT Parsram (JC-170245H), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/SKT Dayana Achaiyah Lingaraju (JC-173757X), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/SKT Mathura Dass (JC-175810Y), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Soom Nath (JC-196751L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Laxman Singh (JC-203273X), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Hanuman Singh (JC-211487H), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Suranjan Singh (JC-196727P), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Hari Singh (JC-196728X), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Liyakat Ali (JC-200712M), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Bhupinder Singh (JC-200714X), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Dilbag Singh (JC-200831H), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Gurbax Singh (JC-196752N), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Subba Paul Samy (JC-196766N), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Ram Nath Sharma (JC-200715A), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Clk (GD) Hargian Singh (JC-200716H), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Sube Singh (JC-200717L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Jai Singh Kotocha (JC-200718N), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Jarnail Singh (JC-211532K), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Prem Singh Rama (JC-206597N), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/SKT Shyam Singh Udawat (JC-175811F), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/SKT Manager Sharma (JC-181329W), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/SKT BS Uthappa (JC-181333Y), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Hans Raj (JC-203197W), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Arumugham Dural (JC-200719W), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Paramjit Singh (JC-200720L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Joga Singh Permar (JC-200721N), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Clk (GD) Guna Pratap Singh (JC-200722W), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Virinder Narayan Singh (JC-156774K), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Ram Bilas (JC-195385A), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Bakshi Ram (JC-195368A), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Raghunath Singh Rathore (JC-196757M), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Keshar Singh (JC-195438N), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Desh Raj Singh (JC-200684L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Magne Ram (JC-200815L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Ajit Singh (JC-203216W), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Brahm Pal Singh (JC-203218F), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Ved Parkash (JC-206534L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Bhim Singh (JC-206563A), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Parshotam Dass (JC-206580A), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Jarnail Singh (JC-206548L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Bal Singh (JC-211522A), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Bawa Singh (JC-219067X), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Sant Ram (JC-216359F), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Joginder Singh (JC-222899K), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Vijay Narain Singh (JC-219181F), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar M Parama Sivan (JC-219182X), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Sher Singh (JC-200687Y), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Ranjeet Singh (JC-200813A), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Nizamudin Khan (JC-203185P), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Paramanand (JC-206565L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Kulwant Singh (JC-219183A), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Raghunath Ram (JC-219127F), 07th Jun 95.

Naib Risaldar Balwinder Singh (JC-219119H), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Phool Chand Ambawat (JC-195387L), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Rajender Singh (JC-203253K), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Darshan Singh (JC-206566N), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Kurani Singh (JC-195424N), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar/Clk (GD) Shree Chand Chauhan (JC-200767W), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Sukhbir Singh Ahlawat (JC-211506H), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Man Singh (JC-222885K), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Raj Kumar (JC-206535N), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Bhanwar Singh (JC-183632W), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Birander Singh (JC-200825P), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Ajit Singh (JC-219120X), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Rohitas Singh (JC-219130F), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Shankar Gurav (JC-235591P), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Patil Vinayak Shankar (JC-235592X), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Shimbhu Dayal Singh (JC-235641P), 07th Jun 95.  
 Naib Risaldar Daljit Singh (JC-222991H), 07th Jun 95.

The Mechanised Infantry Regiment

To be Substantive Subedar Major

Sub Sunder Singh Mudgal (JC-152366F), 01st Aug 1995.  
 Sub Om Prakash (JC-157232M), 01st Oct 1995.  
 Sub Patil Maruti Kisan (JC-148285K), 01st Oct 1995.  
 To be Substantive Subedar  
 Nb Sub Nachhater Singh (JC-173733W), 01st Jul 1994.  
 Nb Sub Kunhanandan K (JC-184116Y), 01st Dec 1994.  
 Nb Sub Devi Prasad (JC-184121Y), 01st Jun 1995.  
 Nb Sub Onkar Singh (JC-189704L), 01st Jun 1995.  
 Nb Sub Goru Ram (JC-189705N), 01st Jun 1995.  
 Nb Sub Laxman Singh (JC-189707Y), 01st Jun 1995.  
 Nb Sub Tika Ram (JC-195449A), 01st June 1995.  
 Nb Sub Har Swaroop Gurjar (JC-195468L), 01st Jun 1995.  
 Nb Sub Rajinder Singh (JC-195461F), 01st Jul 1995.  
 Nb Sub Dilbag Singh (JC-201568P), 01st Aug 1995.  
 Nb Sub Jang Bahadur (JC-181404P), 01st Aug 1995.  
 Nb Sub Om Parkash (JC-200842P), 01st Nov 1995.  
 Nb Sub Jai Ram Tanwar (JC-216415H), 01st Dec 1995.  
 Nb Sub Nar Nath (JC-200863L), 01st Dec 1995.  
 Nb Sub Jagjit Singh (JC-206643X), 01st Jan 1996.

To be Naib Subedar

Hav Narain Sing Gurung (No. 5747316Y now JC-418515W), 11th Oct 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 22nd Jun 1994 without effect on pay and allowances.)

Hav Hukam Singh (No. 4545288Y now JC-418516Y), 24th Oct 1995.\*  
 \*(Granted Notional seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Aug 1994 without effect on pay and allowances).  
 Hav Chandra Sing Pun (No. 5747467X now JC-418517F), 11th Oct 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11th Aug 1994 without effect on pay and allowances).  
 Hav Khauka Bahadur Thapa (No. 5747172F now JC-418518A), 27th Oct 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03rd Oct 1994 without effect on pay and allowances).  
 Hav Khemi Bahadur Gurung (No. 5747082H now JC-418519M), 16th Oct 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 13th Nov 1994 without effect on pay and allowances).  
 Hav Jai Lal (No. 4058354M now JC-418520F), 30th Oct 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 5th May 1995 without effect on pay and allowances).  
 Hav Uma Datt (No. 4058551P now JC-418521K), 30th Oct 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 31st May 1995 without effect on pay and allowances).  
 Hav Manohar Singh (No. 2868499A now JC-418522M), 20th Nov 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 1995 without effect on pay and allowances).  
 Hav Hari Kishan Singh (No. 3170341A now JC-418523P), 10th Nov 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 1995 without effect on pay and allowances).  
 Hav Jagdish Singh (No. 13737964Y now JC-418524A), 22nd Nov 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jul 1995 without effect on pay and allowances).  
 Hav Parshotam Dass (No. 13737970M now JC-418525A), 22nd Nov 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jul 1995 without effect on pay and allowances).  
 Hav Manbar Singh (No. 4347657K now JC-418526H), 25th Oct 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jul 1995 without effect on pay and allowances).  
 Hav Govind Singh (No. 4548012F now JC-418527L), 31st Oct 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jul 1995 without effect on pay and allowances).  
 Hav Bharat Singh (No. 4057847F now JC-418528N), 30th Oct 1995.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 05th Jul 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Girish Chandra (No. 4549518Y now JC-418529W), 25th Oct 1995.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 09th Jul 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Bal Bahadur Thapa (No. 5747730X now JC-418530L), 01st Oct 1995.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 06th Aug 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Jagat Singh (No. 4170268H now JC-418531N), 03rd Nov 1995.\*

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Oct 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Parma Nand (No. 13738988P now JC-418532W), 22nd Nov 1995.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Oct 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Mehar Chand (No. 3974520Y now JC-418533Y), 11th Nov 1995.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Nov 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Gurdev Singh (No. 3974563N now JC-418534F), 01st Nov 1995.

#### Corps of Military Police

##### To be Naib Subedar

Hav Tope Mahadu Vithoba (No. 7768552A now JC-818158M), 1st Apr 1995.

Hav Subash Chander (No. 7767814Y now JC-818159P), 1st Apr 1995.

Hav Krishna Kumar (No. 7768099N now JC-818160K), 1st May 1995.\*

Hav Shende Vasant Bapu (No. 7768259H now JC-818162J), 1st Apr 1995.

Hav Shyamal Choudhary (No. 7768124F now JC-818163X), 1st Apr 1995.

Hav P. Raghavan Nair (No. 7767950P now JC-818164A), 1st Apr 1995.

Hav Tarlok Singh (No. 7768491N now JC-818165H), 2nd July 1995.\*

Hav Tarlochan Singh Dial (No. 7768582X now JC-818166L), 23rd June 1995.\*

Hav Ram Karan (No. 7768583A now JC-818167N), 1st Apr 1995.

Hav Ram Phal (No. 7768581P now JC-818168W), 15th June 1995.\*

Hav Sumer Singh (No. 7768585L now JC-818169Y), 14th Apr 1995.\*

Hav Satya Pal (No. 7768587W now JC-818170N), 12th June 1995.\*

Hav Sures Chandra Saha (No. 7768593K now JC-818171W), 1st Apr 1995.

Hav Ashok Kumar Singh (No. 7768594M now JC-818172Y), 3rd July 1995.\*

Hav Kana Ram (No. 7768600P now JC-818173F), 1st Apr 1995.

Hav Ram Naresh (No. 7768604L now JC-818174K), 1st Apr 1995.

Hav Shankar Lal (No. 7768652L now JC-818175M), 1st May 1995.

Hav Suresh Kumar (No. 7768611F now JC-818176P), 1st June 1995.

Hav Jat Parkash (No. 7768638Y now JC-818177X), 8th July 1995.@

Hav Dharambir Dogra (No. 7768629X now JC-818178A), 1st June 1995.

Hav Omkar Singh (No. 7768641Y now JC-818179H), 1st June 1995.

Hav Bhoj Raj Singh (No. 7768246L now JC-818180X), 7th Aug 1995.@

Hav Manvir Singh (No. 7768679H now JC-818181A), 1st Aug 1995.

Hav Kharpattu Ram (No. 7768679H now JC-818182H), 1st Aug 1995.

Hav Balakrishnan K P (No. 7768759A now JC-818183L), 1st Aug 1995.

Hav Aftan Prakash (No. 7768767Y now JC-818184N), 1st Aug 1995.

Hav Randeher Singh (No. 7768779N now JC-818185W), 1st Aug 1995.

Hav Pan Singh (No. 7768783W now JC-818188K), 4th Aug 1995.

Hav Hari Singh (No. 7768786K now JC-818189M), 1st Sep 1995.

Hav Ram Kishan (No. 7768794H now JC-818190F), 1st Sep 1995.

Hav Brij Lal (No. 7768300N now JC-818191K), 1st Sep 1995.

Hav Chitta Ranjan Biswas (No. 7768288X now JC-818193P), 13th Oct 1995.£

Hav Munshi Lal (No. 7768329M now JC-818194X), 13th Oct 1995.£

Hav Vishwa Chandra (No. 7768556W now JC-818195A), 13th Oct 1995.£

\*(Granted seniority with effect from 1st Apr 1995 without effect on pay and allowances).

@(Granted seniority with effect from 1st June 1995 without effect on pay and allowances).

£(Granted seniority with effect from 1st Oct 1995 without effect on pay and allowances).

##### To be Naib Subedar/Clerk (GD)

Hav Phanihar Kalita (No. 7770258Y now JC-818161M), 1st Apr 1995.

Hav Bhagirathi Mohanty (No. 7770283X now JC-818186Y), 2nd Aug 1995.\*

Hav Yaminam Bidyut Babu Singh (No. 7770318H now JC-818187F), 1st Aug 1995.

Hav Jagdish Chand Rana (No. 7769915L now JC-818192M), 1st Sep 1995.

\*(Granted seniority with effect from 1st Aug 1995 without effect on pay and allowances).

R. G. HEGDE,  
Under Secy.

No. 140, dated the 7th February 1996.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

##### Infantry

##### The Parachute Regiment

##### To be Subedar

Nb' Sub' S Arockiya Samy (JC-198637H), 01 May 1995.

Nb Sub Chate Dasharath Shankar Rao (JC-188606Y),  
01 May 1995.

Nb Sub Bapu Karale (JC-167404K), 01 Jul 1995.

Nb Sub Sarup Singh (JC-196372P), 01 Oct 1995.

Nb Sub Mahipal Singh (JC-210895L), 01 Oct 1995.

Nb Sub Asha Ram (JC-194506K), 01 Nov 1995.

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Dharam Singh (JC-151614A), 01st Aug 1995.

Sub Sajjan Singh Gill (JC-145373P), 01st Aug 1995.

Sub Bhag Singh (JC-151623F), 01st Sep 1995.

Sub Man Chand (JC-151596H), 01st Oct 1995.

Sub Joginder Singh (JC-151571W), 01st Oct 1995.

Sub Nihal Singh (JC-124575H), 01st Oct 1995.

Sub Tholu Ram (JC-174963W), 01st Nov 1995.

To be Subedar Clerk

Nb Sub Ck Mohinder Singh (JC-199195L), 01st Sep 1995.

To be Subedar

Nb Sub Gurnam Singh (JC-201799L), 01st July 1995

Nb Sub Joginder Singh (JC-192881W), 01st Oct 1995.

Nb Sub Amarjit Singh (JC-178431N), 07th Oct 1995.

Nb Sub Balvinder Singh (JC-196835Y), 20th Oct 1995.

Nb Sub Sahib Singh (JC-203964K), 01st Dec 1995.

Nb Sub Parkash Chand (JC-208003M), 01st Dec 1995.

Nb Sub Ram Saran (JC-210926W), 01st Dec 1995.

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Thomas John (JC-129425W), 1st Dec 1995

To be Sub

Nb Sub Ravindran P (JC-178203L), 1st Jun 1995.

Nb Sub Annamony P (JC-176284X), 1st Oct 1995.

Nb Sub Subashchandra Patnaik (JC-178196A), 1st Oct 1995.

#### THE GRENADIERS

To be Subedar Major

Sub Hasam Ali Khan (JC-116057N), 01st Nov 1995.

Sub Prithvi Singh (JC-127512L), 01st Nov 1995.

Sub Hari Chand (JC-130583X), 01st Nov 1995

To be Subedar

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-164492A), 01st Nov 1995.

Nb Sub Jaisi Ram (JC-175313M), 01st Nov 1995.

Nb Sub Dhaj Singh (JC-178973X), 01st Nov 1995.

Nb Sub Aliz Mohammad (JC-205096F), 01st Nov 1995.

Nb Sub Bishumber Dayal (JC-193695M), 01st Nov 1995.

Nb Sub Rajbir Singh (JC-174995Y), 01st Nov 1995.

Nb Sub Surendra Bahadur Singh (JC-173827N), 01st Nov 1995.

Nb Sub Kamal Kishore (JC-178969P), 01st Nov 1995.

Nb Sub Rumal Singh (JC-178482F), 01st Nov 1995.

Nb Sub Anop Khan (JC-210971H), 01st Nov 1995.

To be Subedar Major

Sub Umed Singh (JC-114175H), 01st Dec 1995.

To be Subedar

Nb Sub Suraj Bhan Singh Gautam (JC-193640H), 01st Nov 1995.

Nb Sub Beli Ram (JC-183410F), 01st Dec 1995.

Nb Sub Mali Ram (JC-178974A), 01st Dec 1995.

Nb Sub Abdul Sattar (JC-192901Y), 01st Dec 1995.

Nb Sub Mohd Hanif Ali (JC-218426N), 01st Dec 1995.

Nb Sub Ekram Ali Ansari (JC-193678M), 01st Dec 1995.

Nb Sub Mohd Altaf (JC-216513H), 01st Dec 1995.

Nb Sub Mata Deen (JC-205098M), 01st Dec 1995.

Nb Sub (Cik) (JC-208302L), 01st Dec 1995.

#### THE RAJPUT REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Shiv Raj Singh (JC-156012W), 1st Aug 1995.

To be Sub Ck

Nb Sub Ck Bal Ram Singh (JC-203669F), 1st Feb 1995.

Nb Sub Ck Bijendra Singh (JC-201900A), 1st Feb 1995.

The Jat Regt

To be Sub (Musn)

Nb Sub (Musn) Jaman Singh (JC-192939H), 1st Jan 1993.

#### THE SIKH REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Rajjit Singh (JC-151322K), 1st Oct 1995.

Nb Sub Ajit Singh (JC-192967P), 1st Oct 1995.

Nb Sub Hardev Singh (JC-193773Y), 1st Oct 1995.

Nb Sub Balbir Singh (JC-171949Y), 1st Nov 1995.

Nb Sub Kunal Singh (JC-204290K), 1st Nov 1995.

To be Subedar Major

Sub Jagrup Singh (JC-151312N), 1st Oct 1995.

Sub Rulda Singh (JC-162302K), 1st Nov 1995.

Sub Chand Singh (JC-143645L), 1st Nov 1995.

To be Subedar

Nb Sub Sukdev Singh (JC-183466L), 1st Sep 1995.

Nb Sub Makhan Singh (JC-192612K), 1st Dec 1995.

#### THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Kapoor Chand (JC-152876H), 1st Dec 1995.

Sub Shiv Parsad Sharma (JC-145500Y), 1st Dec 1995.

To be Sub

Nb Sub Gurdev Singh (JC-179375M), 1st Dec 1995.

Nb Sub Raghbir Singh (JC-180885A), 1st Dec 1995.

Nb Sub Sukh Lal (JC-185794A), 1st Dec 1995.

Nb Sub Manmohan Singh Salaria (JC-192623W), 1st Dec 1995.

Nb Sub Zulfi Ram (JC-201063Y), 1st Dec 1995.

Nb Sub Balbir Singh Ranout (JC-201966W), 1st Dec 1995.

Nb Sub Udham Singh (JC-201968F), 1st Dec 1995.

Nb Sub Jeet Ram Chandel (JC-205960M), 1st Dec 1995.

Nb Sub Sat Paul (JC-183019K), 1st Jan 1996.

#### THE GARHWAL RIFLES

##### To be Sub Maj

Sub Mool Raj Sharma (JC-152963W), 1st Feb 1995.

Sub Ramendra Singh Negi (JC-137618L), 1st Apr 1995.

Sub Yashwant Singh (JC-132383A), 1st Apr 1995.

Sub Mahipal Singh (JC-141856P), 1st May 1995.

Sub Mohan Singh Rawat (JC-132384H), 1st June 1995.

##### To be Sub

Nb Sub Sarat Chandra Singh Gusain (JC-185541L), 1st Feb 1995.

Nb Sub Sachida Nand Thapliyal (JC-192645P), 1st Apr 1995.

Nb Sub Pan Singh (JC-192646X), 1st Apr 1995.

Nb Sub Maharaj Singh (JC-194634F), 1st May 1995.

Nb Sub Mohan Singh Negi (JC-196531F), 1st June 1995.

Nb Sub Yashwant Singh (JC-201999F), 1st June 1995.

Nb Sub Hobat Singh Rawat (JC-205982L), 1st June 1995.

Nb Sub Trilok Singh Gusain (JC-211217N), 1st June 1995.

Nb Sub Gobind Singh (JC-188527K), 1st June 1995.

Nb Sub Dev Singh Bhandari (JC-196534P), 1st June 1995.

Nb Sub Vinod Singh Gusain (JC-179002Y), 1st June 1995.

Nb Sub Bachan Singh Bhandari (JC-179402L), 1st June 1995.

Nb Sub Ganga Datt (JC-183036K), 1st June 1995.

Nb Sub Kunwar Singh Bisht (JC-185531F), 1st June 1995.

Nb Sub Ranjit Singh Bisht (JC-185811P), 1st June 1995.

Nb Sub Raghubir Singh Rana (JC-192648H), 1st June 1995.

Nb Sub Jagat Singh (JC-193806Y), 1st June 1995.

Nb Sub Dilwar Singh Rawat (JC-196535X), 1st June 1995.

#### JAK LI

##### To be Subedar

Nb Sub Tara Singh (JC-185104L), 09th Jul 1995.

Nb Sub Amant Ali (JC-205321L), 09th Jul 1995.

Nb Sub Ujjagar Singh (JC-178328H), 09th Jul 1995.

Nb Sub Bansi Lal (JC-201868H), 09th Jul 1995.

Nb Sub Sharief Din (JC-172094N), 09th Jul 1995.

Nb Sub Fiqir Chand (JC-172831K), 23rd Aug 1995.

Nb Sub Nain Singh (JC-201171H), 23rd Aug 1995.

Nb Sub Mirza Mohd Afzal (JC-205730Y), 23rd Aug 1995.

#### 11 GR

##### To be Subedar Major

Sub Dil Kumar Subba (JC-179060N), 01st Oct 1995.

Sub Prem Kumar Rai (JC-134825M), 01st Oct 1995.

Sub Binod Kumar Rai (JC-147554Y), 01st Nov 1995.

##### To be Subedar

Nb Sub Pujendra Singh Basnet, SM (JC-193922F), 01st Oct 1995.

Nb Sub Santa Kumar Limbu (JC-194708L), 01st Oct 1995.

Nb Sub Dil Bahadur Chamling (JC-205754H), 01st Oct 1995.

Nb Sub Gopal Rai (JC-196932W), 01st Nov 1995.

Nb Sub Rajen Tamang (JC-196650X), 01st Nov 1995.

#### 11 GR

##### To be Subedar Major

Sub Nima Singh Tamang (JC-108813A), 01 Nov 1995.

Sub Jatna Prasad Rai (JC-155161X), 01 Dec 1995.

Sub Kamal Kumar Tamang (JC-145634X), 01 Dec 1995.

##### To be Subedar

Nb Sub Chamu Narayan Rai (JC-193029F), 01 Dec 1995.

Nb Sub Naresh Kumar Rai (JC-196933Y), 01 Dec 1995.

Nb Sub Bishnu Prasad Rai (JC-196934F), 01 Dec 1995.

Nb Sub Padam Bahadur Limbu (JC-196935K), 01 Dec 95.

Nb Sub Deepak Jang Thapa (JC-168957M), 01 Dec 95.

Nb Sub Dil Bahadur Rai (JC-205757W), 01 Dec 95.

Nb Sub Chitang Rai (JC-202144L), 01 Dec 95.

Nb Sub Kamal Kumar Rai (JC-202145N), 01 Dec 1995.

Nb Sub Kamal Kumar Rai (JC-202146W), 01 Dec 95.

Nb Sub (Clk) Bansi Rana (JC-205756N), 01 Dec 95.

Nb Sub Ajit Kumar Subba (JC-205735X), 01 Dec 95.

Nb Sub (Clk) Ram Nagina Rana (JC-205763K), 01 Dec 1995.

Nb Sub (Clk) Viswambharan K (JC-205764M), 01 Dec 95.

Nb Sub Kashi Bahadur Dewan (JC-205736A), 01 Dec 95.

Nb Sub Dil Bahadur Limbu (JC-205737N), 01 Dec 95.

Nb Sub Dhan Bahadur Rai (JC-205738L), 01 Dec 95.

##### To be Subedar Major

Sub Nahakul Deo Rai (JC-132813Y), 01 Dec 95.

##### To be Subedar

Nb Sub Fek Nath Rai (JC-196651A), 01 Dec 95.

Nb Sub Dhan Bahadur Rai (JC-196653L), 01 Dec 95.

Nb Sub Suhur Man Rai (JC-184525F), 01 Dec 95.

Nb Sub (Clk) Krishan Pal Singh (JC-205755L), 01 Dec 95.

Nb Sub Dhan Bahadur Rai (JC-205765P), 01 Dec 95.

Nb Sub Ganesh Bahadur Rai (JC-205766X), 01 Dec 95.

Nb Sub Bhuwana Kumar Rai (JC-205767A), 01 Dec 95.

Nb Sub Krishna Bahadur Thapa (JC-205769L), 01 Dec 95.

Nb Sub Dinesh Tamang (JC-205770A), 01 Dec 1995.  
 Nb Sub Man Bahadur Rai (JC-205768H), 01 Dec 1995.  
 Nb Sub Kharka Prasad Limbu (JC-205773N), 01 Dec 95.  
 Nb Sub Ran Bahadur Rana (JC-205774W), 01 Dec 95.  
 Nb Sub Bir Man Rai (JC-208227M), 01 Dec 95.

## 4 GR

To be Subedar

Nb Sub Ram Kumar Rana, SM (JC-162240P), 01st Oct 1995.

Nb Sub Jivan Kumar Dewani (JC-181919P), 01st Nov 1995.

Nb Sub Kunden Singh (JC-162338H), 01st Nov 1995.

Nb Sub Anil Kumar Thapa (JC-196657F), 01st Nov 95.

Nb Sub Dhan Bahadur Gurung (JC-193952Y), 01st Nov 1995.

Nb Sub Dev Bahadur Gurung (JC-181916F), 01st Nov 1995.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Banka Prasad Yadava (JC-203374K), 01st Nov 1995.

## 5 GR (FF)

To be Sub Maj

Sub Bhupal Singh Thapa (JC-138166A), 1st Oct 1995.

To be Subedar

Nb Sub Indra Bahadur Thapa (JC-205793F), 1st Oct 1995.

## 8 GR

To be Sub Maj (GD)

Sub Harka Bahadur Pun (JC-129314Y), 1st Aug 1995.

To be Subedar

Nb Sub Ganga Lal Pun (JC-173282F), 1st Aug 1995.

## 9 GR

To be Subedar

Nb Sub Lalit Kumar Chhetri (JC-185581M), 01st Jan 1994.

Nb Sub Bal Bahadur Karki (JC-208451X), 01st Aug 1994.

Nb Sub Damar Bahadur Chhetri (JC-185127M), 01st Sep 1994.

Nb Sub Som Nath Subedi (JC-185128P), 01st Sep 1994.

Nb Sub Hari Lal Karki (JC-185901W), 01st Nov 1994.

Nb Sub Om Bahadur Chhetri (JC-185129X), 01st Mar 1995.

Nb Sub Chandra Bahadur Chhetri (JC-185905M), 01st Mar 1995.

Nb Sub Rajinder Singh Khattri (JC-185582P), 01st Mar 1995.

Nb Sub Binod Kumar Thapa (JC-185583X), 01st Apr

Nb Sub Machindra Bahadur Chhetri (JC-185584A), 01st Apr. 1995.

Nb Sub Tara Singh Khattri (JC-185585H), 01st May 1995.

Nb Sub Hazari Prasad (JC-185906P), 01st May 1995.

To be Sub Major

P/A/Sub Maj Om Prakash Khattri (JC-133646A), 01st Dec 1994.

P/A/Sub Maj Dal Bahadur Chhetri (JC-138588L), 01st July 1995.

P/A/Sub Maj Dil Bahadur Sen (JC 129323A), 01st Oct 1995.

P/A/Sub Maj Durga Bahadur Adhikari (JC-130028K) 01st Oct 1995.

Brigade of the Guards

To be Nb Subedar

Hav Ramesh Chandra (No. 13673721K now JC-402315W), 01st Apr 1995.

Hav Monuj KR Borah (No. 13675277X now JC-402316Y), 29th Apr 1995.

Hav Raju TR (No. 13677357N now JC-402317F), 10th May 1995.\*

\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 03rd May 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Kashmir Singh (No. 13672806N now JC 402318K), 11th Jul 1995.

Hav Lakha Masih (No. 13670879F now JC-402319M), 23rd Jul 1995.

Hav Amar Singh (No. 13673321X now JC-402320F), 23rd Jul 1995.

Hav Raj Kumar Singh Yadav (No. 13676778K now JC-402322M), 01st Aug 1995.

Hav Virender Singh (No. 13676191L now JC-402323P), 10th Sep 1995.

Hav Ambika Prasad Joshi (No. 13671977N now JC-402324X), 14th Sep 1995.

Hav Bisban Singh Adhikari (No. 13672413X now JC-402325A), 15th Oct 1995.

Hav Satya Prasad (No. 13672585M now JC-402326H), 11th Nov 1995.

Hav Jose KT (No. 13675919F now JC-402327L), 01st Dec 1995.

Hav Biddappa BU (No. 13676757N now JC-402328N), 02nd Dec 1995.

To be Nb Sub/Clk

Hav (Clk) Sajjad Alam Khan (No. 13674084L now JC-402321K), 01st Aug 1995.

## THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Milap Chand (No. 2467049H now JC-428343A), 23rd July 1995.

Hav Karam Chand (No. 2466102W now JC-428344H), 01st Sep 1995.

Hav Swarn Singh Manhas (No. 2466723P now JC-428345L), 01st Sep 1995.

Hav Harmail Singh (No. 2469444P now JC-428346N), 21st Sep 1995.

Hav Pritam Singh (No. 2464877H now JC-428347W), 01st Oct 1995.

Hav Gurbachan Singh (No. 2467987H now JC-428348Y), 01st Oct 1995.

Hav Karaj Singh (No. 2465613N now JC-428349F), 01st Oct 1995.

Hav Ram Niwas (No. 2465979L now JC-428350W), 01st Oct 1995.

Hav Joginder Singh (No. 2464067A now JC-428351Y), 01st Oct 1995.

Hav Ranbir Singh Lagwal (No. 2466682W now JC-428352F), 01st Oct 1995.

Hav Surinder Singh Mankoti (No. 2467047X now JC-428353K), 10th Oct 1995.

Hav Ramesh Chand (No. 2467376N now JC-428354M), 23rd Oct 1995.

Hav Sansar Chand (No. 2463978K now JC-428355P), 16th Dec 1995.

(Granted ante date of seniority wef 17 Nov 95 without effect on pay and allowances).

Hav Narinder Singh (No. 2467351F now JC-428356X), 30th Nov 1995.

Hav Pritam Singh (No. 2466171M now JC-498357A), 1st Dec 1995.

Hav Nand Lal (No. 2466935A now JC-428358H), 01st Dec 1995.

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Hoovappa Jiddimani (No. 2582183A now JC-438355H), 1st Jun 1995.

Hav Nedunchezian A (No. 2577097L now JC-438356L), 1st Dec 1995.

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Bogani Pullajah (No. 2576175L now JC-438357N), 1st Jan 1996.

#### THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Yoginder Pal Guleria (No. 2667158Y now JC-448416H), 18th Apr 1995.

Hav Teju Singh (No. 2667726Y now JC-448417L), 06th Dec 1995.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Banarsi Dass (No. 2664769H now JC-448418N), 10th Oct 1995.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Mahabir Singh (No. 2669393W now JC-448419W), 16th Oct 1995.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Jagbir Singh (No. 2665025K now JC-448420L), 1st Oct 1995.

Hav Parmar Mannu Bhai Makana Bhai (No. 26673191M now JC-448421N), 1st Oct 1995.

Hav Nathu Ram (No. 2666373P now JC-448422W), 1st Oct 1995.

#### The Rajput Regiment

To be Nb Sub

Hav Talsa Singh (No. 2970627A now JC-478344Y), 1st Mar 1995.

Hav Kameshwar Singh (No. 2972852N now JC-478345F), 28th Aug 1995\*.

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Apr 95 without effect on pay and allowances).

Hav Vijender Singh (No. 2976501W now JC-478346K), 21st May 1995.

Hav Shiv Kumar (No. 2974746N now JC-478347M), 15th Aug 1995\*.

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Chhaur Pal Singh (No. 2973318H now JC-478348P), 1st Aug 1995.

Hav Sauraj Singh (No. 2977134F now JC-478349X), 1st Aug 1995.

Hav Jag Ram (No. 2971799F now JC-478350M), 08th Sep 1995\*.

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Sep 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Rajpal Singh (No. 2972334N now JC-478351P), 11th Oct 1995\*.

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Sep 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Krishan Pal Singh (No. 2974144A now JC-478352X), 29th Sep 1995.

Hav Jagat Singh (No. 2970681N now JC-478353-A), 1st Oct 1995.

Hav Mahavir Singh (No. 2972481W now JC-478354H), 1st Oct 1995.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Gir Raj Singh (No. 2972023K now JC-478355L), 1st Nov 1995.

The Jat Regt

To be Nb Sub

Hav Rajender Singh (No. 3173865M now JC-488345P), 1st Nov 1995.

Hav Raghbir Singh Budania (No. 3166983X now JC-488346X), 6th Nov 1995.

Hav Ishwar Singh (No. 3166142P now JC-488347A), 10th Dec 1995.

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

Hav Gurnam Singh (3372742X now JC-498349Y), 1st Oct 1995.

Hav Pritam Singh (3372935X now JC-498350), 1st Oct 1995.

Hav Sardara Singh (3373630K now JC-498351W), 1st Dec 1995.

To be Nb Sub

Hav Kirpal Singh (3373177X now JC-498352Y), 14th Dec 1995\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Gurmail Singh (3375523F now JC-498353F), 4th Dec 1995. @

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2nd Dec 1995 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Jag Mohan (3374005P now JC-498354K), 1st Jan 1996.

Hav Clk Milap Chand Rana (3975520I now JC-498355M), 1st Jan 1996.

Hav Clk Nand Lal (3167990A now JC-498356P), 1st Jan 1996.



## The Sikh LI

## To be Nb Sub (GD)

Hav Rashpal Singh (No. 4461147Y now JC-508315F), 05 Aug 1995

Hav Dasanda Singh (No. 4433306W now JC-508316K), 02 Sep 1995.

Hav Baldev Singh (No. 4455557Y now JC-508317M), 02 Sep 1995.

Hav Sohan Singh (No. 4456529Y now JC-508318P), 02 Sep 1995.

CHM Sukhpal Singh (No. 4454628A now JC-508319X), 18 Oct 1995\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 8th October 1995 without effect on pay and allowances).

## The Dogra Regiment

## To be Nb Sub

Hav Uttam Singh (No. 3974865A now JC-518457M), 30th Sep 1995

Hav Ram Lal (No. 3980787K now JC-518458P), 1st Nov 1995.

Hav Parkash Chand (No. 3972967X now JC-518459X), 1st Dec 1995.

## The Garhwal Rifles

## To be Nb Sub

Hav Chatur Singh (No. 4056332P now JC-528387M), 27th Nov 1995\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 19th July 1995 without pay and allowances).

Hav Makah Singh (No. 4057897M now JC-528388P), 13th Oct 1995@.

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26th Sep 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Sant Lal (No. 4057053W now JC-528389X), 3rd Dec 1995£.

£(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Mangal Singh (No. 4058826X now JC-528393A), 1st Dec 1995.

## To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Ramesh Chandra (No. 4056875F now JC-528390M), 24th Nov 1995.

Hav (Clk) Prem Singh (No. 4057079L now JC-528391P), 1st Dec 1995.

Hav (Clk) Chait Singh (No. 4057096K now JC-528392X), 1st Dec 1995.

## The Kumaon Regiment

## To be Nb Sub

Hav Daya Nand (No. 4170036K now JC-538388H), 1st June 1995.

CHM Nanda Ballabh (No. 4171880Y now JC-538389L), 8th July 1995\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 1995 without effect on pay and allowances).

CHM Kirpal Singh (No. 4167768P now JC-538390A), 1st Nov 1995.

## The Naga Regiment

Hav Ram Singh (No. 4165698H now JC-590023F), 10th May 1995.

CHM LH Goloverson Anal (No. 14700558X now JC-590024I), 1st Oct 1995.

Hav Hevito Sema (No. 14701039F now JC-590025N), 1st Oct 1995.

## The Assam Regiment

## To be Nb Sub

Hav Nitya Nanda Gogoi (No. 4350462P now JC-548213N), 1st Apr 95.

Hav Girish Chandra Das (No. 4350208W now JC-548214W), 1st Jun 95.

Hav Matiram Kalita (No. 4350202P now JC-548215Y), 1st Jun 95.

Hav Dy Biren Anal Naga (No. 4348133I, now JC-548216F), 1st Aug 95.

Hav Rama Kanta Ray (No. 4349420F now JC-548217K), 21st Sep 95\*.

Hav Binay Kumar Deka (No. 4349346I, now JC-548218M), 1st Aug 95.

Hav Nar Bahadur Thapa (No. 4346950I now JC-548219P), 1st Aug 95.

Hav Krishna Kanta Boro (No. 4349121H now JC-548220K), 1st Nov 95.

\*Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 95.

## 11 GR

## To be Nb Sub

Hav Amir Rai (No. 9415298N now JC-634122N), 5th Apr 95.

Hav (Clk) Kiran Rai (No. 9414688K now JC-634123W), 1st Sep 95.

Hav Krishna Prakash Rai (No. 9413325N now JC-634124Y), 1st Nov 95.

Hav Bimal Rai (No. 9414671W now JC-634125F), 02 Dec 95@.

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 95.

Hav Tej Bahadur Rai (No. 9414446F now JC-634126K), 13th Nov 95.

Hav Jiwan Kumar Rai (No. 9414506L now JC-634127M), 1st Jan 95.

Hav Kumar Singh Limbu (No. 9414523L now JC-634128P), 1st Apr 95.

Hav Tirtha Man Rai (No. 9414597A now JC-634129X), 1st Jun 95.

Hav Raj Kumar Rai (No. 9414340P now JC-634130M), 1st Sep 95.

## 9 GR

## To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk Nirmal Singh (No. 5843151W now JC-629125X), 1st Aug 95.

Hav Clk Shreeram Godiyala (No. 5842974W now JC-629126Y), 1st Nov 95.

## 3 GR

## To be Nb Sub

Hav Bhim Bahadur Gurung (No. 5241782P now JC-607096W), 1st Sep 95.

Hav Jace Bahadur Thapa (No. 5242153K now JC-607102W), 1st Sep 95.

No. 141, dated 9th February 1996.—The President is pleased to make the following nominations:

**REGULAR ARMY**

**CORPS OF ENGINEERS**

**BENGAL ENGINEER GROUP**

To be Sub Maj (GD)

Sub Diwan Singh Sunsal (JC-159505H), 01 Aug 95

Sub Janardhan Singh (JC-159756M), 01 Nov 95.

Sub Govind Ballabh (JC-159679H), 01 Dec 95.

To be Sub Maj Ck (GD)

Sub Ck (GD) Ajaib Singh Kalsi (JC-139818A), 01 Aug 95.

Sub Ck (GD) Soban Singh Poudir (JC-138730P), 01 Aug 95

Sub Ck (GD) Sarjit Singh (JC-138692Y), 01 Aug 95.

Sub Ck (GD) Amarjit Singh Minhas (JC-142693Y), 01 Aug 95.

Sub Ck (GD) Mohan Singh (JC-142254N), 01 Aug 95.

Sub Ck (GD) Shiv Datt Pathak (JC-145670H), 01 Sep 95.

Sub Ck (GD) Ramesh Chandra (JC-142701M), 01 Oct 95.

Sub Ck (GD) Balkar Singh (JC-145667H), 01 Oct 95.

Sub Ck (GD) Gurdial Singh (JC-142706L), 01 Oct 95.

Sub Ck (GD) Bhanucharan Guchhait (JC-142704A), 01 Oct 95.

Sub Ck (GD) Satey Singh (JC-143963P), 01 Oct 95.

Sub Ck (GD) Shobh Nath Singh (JC-142703X), 01 Nov 95.

Sub Ck (GD) Gurbachan Singh (JC-165403L), 01 Nov 95.

Sub Ck (GD) Man Mohan Gugral (JC-159408L), 01 Dec 95.

Sub Ck (GD) Harbans Lal (JC-159375F), 01 Dec 95.

Sub Ck (GD) Munnar Singh (JC-162903P), 01 Dec 95.

To be Sub Maj Svy

Sub Svy Swami Sharan Singh (JC-166801A), 01 Aug 95.

Sub Svy Narayan Datt Pant (JC-162901K), 01 Aug 95.

Sub Svy Ramesh Chander Gera (JC-177134M), 01 Aug 95.

To be Sub (GD)

Nb Sub Narendra Singh (JC-177150L), 01 Aug 95.

Nb Sub Rattan Singh Solanki (JC-191349X), 01 Aug 95.

Nb Sub Narotam Ram (JC-191477P), 01 Aug 95.

Nb Sub Gurmail Singh Gill (JC-191478Y), 01 Aug 95.

Nb Sub Kulwanti Singh (JC-197123H), 01 Aug 95.

Nb Sub Bhanu Pratap Singh (JC-199686F), 01 Aug 95.

Nb Sub Ganga Datt (JC-197162F), 01 Aug 95.

Nb Sub Jogeshwar Prasad (JC-197163K), 01 Aug 95.

Nb Sub Joginder Singh (JC-197164M), 01 Aug 95.

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-197167A), 01 Aug 95.

Nb Sub Jai Ram Ram (JC-197171H), 01 Aug 95.

Nb Sub Bhinder Singh (JC-199831N), 01 Aug 95.

Nb Sub Umar Datt Sharma (JC-197176F), 01 Aug 95.

Nb Sub Bachan Singh Bhandari (JC-199689P), 01 Aug 95.

Nb Sub Tejender Singh (JC-199762D), 01 Aug 95.

Nb Sub Shubh Raj Singh (JC-197187N), 01 Aug 95

Nb Sub Abilakh Verma (JC-197181M), 01 Aug 95.

Nb Sub Ram Pradhan Singh (JC-199692P), 01 Aug 95.

Nb Sub Jagtar Singh (JC-199693N), 01 Aug 95.

Nb Sub Kamal Singh (JC-199694A), 01 Aug 95.

Nb Sub Janardhan Prasad Kotnala (JC-199699Y), 01 Aug 95.

Nb Sub Tara Chand (JC-199704Y), 01 Aug 95.

Nb Sub Lal Singh (JC-199705F), 01 Aug 95.

Nb Sub Beni Prasad Singh (JC-199763I), 01 Aug 95.

Nb Sub Genda Lal (JC-199707M), 01 Aug 95.

Nb Sub Uttam Singh (JC-199708P), 01 Aug 95.

Nb Sub Kanhaya Singh (JC-199709K), 01 Aug 95.

Nb Sub Bhim Singh (JC-199765W), 01 Aug 95.

Nb Sub Gopi Nath Singh (JC-199767F), 01 Aug 95.

Nb Sub Babu Ram (JC-199713A), 01 Aug 95.

Nb Sub Lakshman Prasad Shahi (JC-199716N), 01 Aug 95.

Nb Sub Sohan Lal (JC-199719F), 01 Aug 95.

Nb Sub Chhote Lal (JC-199721Y), 01 Aug 95.

Nb Sub Chandi Prasad (JC-199727K), 01 Aug 95.

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-199729L), 01 Aug 95.

Nb Sub Makhtul Singh (JC-199730A), 01 Aug 95.

Nb Sub Charan Singh (JC-191436I), 01 Aug 95.

Nb Sub Jai Dev Ram (JC-191437N), 01 Aug 95.

Nb Sub Gurmeet Singh (JC-197182P), 01 Aug 95.

Nb Sub Charanjit Singh (JC-199818K), 01 Aug 95.

Nb Sub Prem Singh Bisht (JC-199819M), 01 Aug 95.

Nb Sub Rajbir Singh (JC-199771K), 01 Aug 95.

Nb Sub Jaspal Singh (JC-199772M), 01 Aug 95.

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-199782W), 01 Aug 95.

Nb Sub Hardial Singh Sandhu (JC-199820F), 01 Aug 95.

Nb Sub Baldev Singh (JC-199824X), 01 Aug 95.

Nb Sub Chinkaji Gurung (JC-199784F), 01 Aug 95.

Nb Sub Mukh Ram Ram (JC-199785K), 01 Aug 95.

Nb Sub Giri Bahdur Chhetry (JC-199786M), 01 Aug 95.

Nb Sub Shyam Singh (JC-199828N), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Mohan Singh Chauhan (JC-199829W), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Kotwal Singh (JC-199836M), 01 Oct 95.  
 Nb Sub Tara Bahadur Thapa (JC-199789A), 01 Oct 95.  
 Nb Sub Ram Singh (JC-199837P), 01 Oct 95.  
 Nb Sub Mahesh Chander Dhyani (JC-199839A), 01 Nov 95.  
 Nb Sub Ganesh Singh Rawat (JC-202911Y), 01 Nov 95.  
 Nb Sub Shiv Saran Singh (JC-202910W), 01 Nov 95.  
 Nb Sub Chaman Singh (JC-202913K), 01 Nov 95.  
 Nb Sub Jasmer Singh (JC-202914M), 01 Nov 95.  
 Nb Sub Tarkeshwar Prasad (JC-202915P), 01 Nov 95.  
 Nb Sub Swaran Singh (JC-202916X), 01 Nov 95.  
 Nb Sub Her Mohinder Rant (JC-202917A), 01 Nov 95.  
 Nb Sub Swaran Singh (JC-202918H), 01 Nov 95.  
 Nb Sub Parminder Singh (JC-202919L), 01 Dec 95.

To be Sub Ck (GD)

Nb Sub Ck (GD) Ishwar Singh Shamrwal (JC-191384A), 01 Jan 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Alam Singh Rawal (JC-202941W), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Sarabjit Singh (JC-202874W), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Udai Singh (JC-207881W), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Mahendra Singh (JC-202876F), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Daya Nand Gahlawat (JC-202877K), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Madan Gopal Pat (JC-202882P), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Brahma Nand Singh (JC-202883X), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Taqdir Singh Dhadwal (JC-202884A), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Desh Raj Barthwal (JC-202885H), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Vijay Kumar Singh (JC-202886L), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Dharamvir Khatri (JC-202887N), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Attar Singh (JC-202891W), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Satya Singh (JC-202892Y), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Raj Kumar Singh (JC-202894K), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Shri Krishan Sharma (JC-202895M), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Pritam Singh (JC-207883F), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Ananta Kumar Ghosh (JC-207884K), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Rajindra Singh (JC-202900M), 01 Aug 95.

Nb Sub Ck (GD) Ram Sewak Yadav (JC-207889H), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Shital Prasad Pandey (JC-207890X), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Chandra Shekhar Singh (JC-202902X), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Ajit Chand (JC-191510F), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Vijay Kumar (JC-202903A), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Gurmail Singh (JC-210499L), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Rajinder Singh (JC-210500P), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Om Prakash Choudri (JC-210738P), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Daya Nand Singh (JC-210506W), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Kailash Bihari Saha (JC-210507Y), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Rattan Singh (JC-210509K), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Kashi Natu Pegu (JC-210510Y), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Sasanka Sekhar Garnaik (JC-210512K), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Kala Chand De (JC-210513M), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Phool Chand (JC-210516A), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Prasanna N (JC-210520H), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Ashok Kumar (JC-210739X), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Charan Singh (JC-210522N), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Dharam Singh (JC-210523W), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Haren Chandra Mahilary (JC-210525F), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Darshan Lal Sharma (JC-210526K), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Amar Singh (JC-210531P), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Kulwant Singh (JC-210538Y), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Ved Prakash (JC-210540W), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Jaspal Singh (JC-210543K), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Dhirendra Kumar Das (JC-210546X), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Ram Mehar (JC-210547A), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Sarnath Choubey (JC-210552A), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) Mohd Yousuf Mir (JC-210555Y), 01 Aug 95.  
 Nb Sub Ck (GD) MD Ohidul Haq (JC-210561M), 01 Sep 95.

Nb Sub Clk (GD) Prem Shankar Singh (JC-210567N), 01 Oct 95.

Nb Sub Clk (GD) Satya Prakash (JC-210568W), 01 Oct 95.

Nb Sub Clk (GD) Jyoti Prakash Mohanty (JC-210569Y), 01 Nov 95.

Nb Sub Clk (GD) Jatindra Nath Sharma (JC-210570N), 01 Nov 95.

Nb Sub Clk (GD) Swapan Kumar Mandal (JC-210571W), 01 Nov 95.

Nb Sub Clk (GD) Ramendra Kumar Chakraborty (JC-210572Y), 01 Dec 95.

Nb Sub Clk (GD) Jawahar Lal Shukla (JC-210574K), 01 Dec 95.

Nb Sub Clk (GD) Damodar Singh (JC-210575M), 01 Dec 95.

Nb Sub Clk (GD) Amar Singh (JC-210576P), 01 Dec 95.

Nb Sub Clk (GD) Kulwant Singh (JC-210577X), 01 Dec 95.

Nb Sub Clk (GD) Diganta Kumar Saikia (JC-210578A), 01 Dec 95.

To be Sub SKST

Nb Sub SKT Sher Singh (JC-191455W), 01 Aug 95.

Nb Sub SKT Milap Chand Sharma (JC-191454N), 01 Aug 95.

Nb Sub SKT Awadh Nath Singh (JC-191387N), 01 Aug 95.

Nb Sub SKT Nirmal Singh Guleria (JC-197139N), 01 Aug 95.

Nb Sub SKT Ram Prakash Kandwal (JC-191456Y), 01 Aug 95.

Nb Sub SKT Nirmal Kan Saha (JC-191457F), 01 Aug 95.

Nb Sub SKT Kushala Nand Maithani (JC-197140H), 01 Aug 95.

Nb Sub SKT Pradeep Kumar (JC-197141L), 01 Nov 95.

To be Sub Svy

Nb Sub Svy Satya Narain Prasad (JC-162898P), 01 Aug 95.

Nb Sub Svy Nag Narain Singh (JC-166804K), 01 Aug 95.

Nb Sub Svy Ram Sewak (JC-210625M), 01 Aug 95.

Nb Sub Svy Dilbag Singh (JC-171491A), 01 Aug 95.

Nb Sub Svy Man Singh (JC-224826W), 01 Aug 95.

Nb Sub Svy Ram Khilari (JC-224835X), 01 Aug 95.

MN VIJAYAN  
Desk Officer

(ARMY BRANCH)

No. 142, dated 14th February, 1996.—The President is pleased to make the following promotions :

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATION CORPS

TO BE SUB MAJ

PA Sub Maj Shakti Singh Mehta (JC-145799W), 01st Dec, 1994.

PA Sub Maj Ramesh Chandra Verma (JC-145815H) 01st Jul, 1995.

PA Sub Maj Pratap Singh (JC-147852P) 01st Sep, 1995.

TO BE SUB

PA Sub Hrushikesh Rout (JC-198462P) 01st Dec, 1994.

PA Sub Prabhakaran R (JC-198878M) 01st Dec, 1994.

PA Sub Dharam Vir Singh (JC-198891W) 01st Dec 1994.

PA Sub Vishnu Datt (JC-198892Y) 01st Dec, 1994.

PA Sub Mohinder Paul (JC-198907W) 01st Dec, 1994.

PA Sub Satbir Singh (JC-200562F) 01st Dec, 1994.

PA Sub Darshan Singh (JC-200571H) 01st Dec, 1994.

PA Sub Joseph KJ (JC-200583X) 01st Dec, 1994.

PA Sub Harpal Singh Negi (JC-201616K) 01st Dec, 1994.

PA Sub Nalla Pothula Bhoomanna Chowdary (JC-201622X) 01st Dec, 1994.

PA Sub Chatter Singh Seemar (JC-206138P) 01st Dec, 1994.

PA Sub Harparkash Ahlawat (JC-206139X) 01st Dec, 1994.

PA Sub Vinod Kumar (JC-206322A) 01st Dec, 1994.

PA Sub Amar Nath Sharma (JC-206147W) 01st Dec, 1994.

PA Sub Ratan Singh (JC-206149F) 01st Dec, 1994.

PA Sub Benarsi Lal (JC-211919M) 01st Feb 1995.

PA Sub Gouranga Bandyopadhyay (JC-206110P) 01st Mar, 1995.

PA Sub Harpal Singh (JC-206118F) 01st Jun, 1995.

PA Sub Pyare Lal Raiwar (JC-206825L) 01st Aug, 1995.

PA Sub Nihal Singh Negi (JC-207059M) 01st Sep, 1995.

PA Sub Shiv Ram Singh Chauhan (JC-198885H) 01st Dec, 1994.

PA Sub Jagmal Singh (JC-198898A) 01st Dec, 1994.

PA Sub Karan Singh Panwar (JC-200568H) 01st Dec, 1994.

PA Sub Jagdish Chander Sharma (JC-200570A) 01st Dec, 1994.

PA Sub Narsinh Narayan Mishra (JC 200576F) 01st Dec, 1994.

PA Sub Prem Chand (JC-206122K) 01st Dec, 1994.

PA Sub Om Prakash (JC-201625L) 01st Dec, 1994.

PA Sub Umed Singh (JC-201634M) 01st Dec, 1994.

PA Sub Jata Shankar Jha (JC-206073M) 01st Dec, 1994.

PA Sub Krishan Chand (JC-201617M) 01st Dec, 1994.

PA Sub Jata Shankar Jha (JC-206073M) 01st Dec, 1994.

PA Sub Radhey Shyam (JC-203974N) 01st Dec, 1994.

PA Sub Satya Singh Negi (JC-203975W) 01st Dec, 1994.

PA Sub Om Prakash (JC-203365K) 01st Dec, 1994.

PA Sub Braj Kishore Singh (JC-203978K) 01st Dec, 1994.

PA Sub Ishwar Singh (JC-207054N) 01st Dec, 1994.

PA Sub Anand Prakash (JC-206797K) 01st Dec, 1994.

PA Sub Sarb Mohan Singh (JC-206319A) 01st Dec, 1994.

PA Sub Arjun Singh Negi (JC-206090M) 01st Dec, 1994.

PA Sub Surat Ram (JC-206091P) 01st Dec, 1994.

PA Sub Satyavir Singh Sangwan (JC-206132N) 01st Dec, 1994.

PA Sub Hisham Singh (JC-211918K) 01st Dec, 1994.

PA Sub Rajvir Singh (JC-206799P) 01st Dec, 1994.

PA Sub Amar Dass (JC-206153K) 01st Jan, 1995.  
 PA Sub Ansuya Prasad (JC-206083W) 01st Feb, 1995.  
 PA Sub Hoshiar Singh (JC-206341L) 01st Mar, 1995.  
 PA Sub Pilla Samuel Banerjee (JC-206084Y) 01st Apr, 1995.  
 PA Sub Ram Janm Tiwari (JC-206836X) 01st Nov, 1995.  
 PA Sub Bhagwan Dass (JC-206807H) 01st Nov, 1995.

RAM KISHAN  
 Under Secy.

Ser. No. 2 wef 25 Jul 94.  
 Ser. No. 3 to 22 wef 01 Sep 94.  
 Ser. No. 23 wef 14 Sep 94.  
 Ser. No. 24 to 25 to 25 wef 01 Oct 94.  
 Ser. No. 26 to 27 wef 30 Nov 94.  
 Ser. No. 28 wef 02 Jan 95.  
 Ser No, 29 wef 12 Jan 95.  
 Ser. No. 30 to 31 wef 18 Feb 95.

No. 143, dated 13th February, 1996.—The President is pleased to make the following promotions :

REGULAR ARMY

ARMY POSTAL SERVICE CORPS

WOs/Hav/Clks to be Nb Sub Clk (Postal)

Shiv Ram 8370469K Now (JC-834108L), 18 May 94.  
 K Natarajun 8372580M Now (JC-834109N), 25 Jul 94.  
 P Jegaselvam 8370198X Now (JC-834110H), 01 Sep 94.  
 Vijay Kumar 8370461X Now (JC-834111L), 01 Sep 94.  
 SL Khajuria 8369090N Now (JC-834112N) 01 Sep 94.  
 Kuldip Singh 8371009P Now (JC-834113W), 01 Sep 94.  
 US Kanyal 8371060P Now (JC-834114Y), 01 Sep 94.  
 AN Singh 8371101N Now (JC-834115F), 01 Sep 84.  
 PK Gupta 8371168M Now (JC-834116K), 01 Sep 94.  
 Kamaljit Singh 8371241A Now (JC-834117M), 01 Sep 94.  
 Jai Ram Gupta 8371248K Now (JC-834118P) 01 Sep 94.  
 Bassanna Sonth 8371309W Now (JC-834119X), 01 Sep 94.  
 D Jegannathan 8371382P Now (JC-834120M) 01 Sep 94.  
 Bunwari Lal 8371488F Now (JC-834121P), 01 Sep 94.  
 Suraj Bhan Nagar 8371535N Now (JC-834122X), 01 Sep 94.  
 Manvir Sharma 8371607M Now (JC-834123A), 01 Sep 94.  
 Gangadharan Nair 8371628H Now (JC-834124H), 01 Sep 94.  
 JP Regar 8371662H Now (JC-834125L), 01 Sep 94.  
 R Subramani 8372057F Now (JC-834126N), 01 Sep 94.  
 SM Ali 8372297Y Now (JC-834127W), 01 Sep 94.  
 Madan Singh 8372600P Now (JC-834128), 01 Sep 94.  
 SS Jaswal 8373417Y Now (JC-834129F), 01 Sep 94.  
 D Raviselvam 8371963M Now (JC-834130W), 14 Sep 94.  
 PVN Murthy 8370661N Now (JC-834131Y) 01st Oct 94.  
 C Surya Narayana 8371325N now (JC-834132F), 01 Oct 94.  
 K Veeraiah 8371397X Now (JC-834133K), 30 Nov 94.  
 SK Dubey 8371455W Now (JC-834134M), 30 Nov 94.  
 MR Kanwar 8369461I. Now (JC834135P) 02 Jan 95.  
 Sat Pal Yadav 8371741X Now (JC834136X), 12 Jan 95.  
 KS Ramulu 8371326W Now (JC-834137A), 18 Feb 95.  
 RN Sharma 8373152A Now (JC834138H), 18 Feb 95.

Granted seniority in the rank of Naib Subedar/Clerk (Postal) wef date noted as under without effect on pay and allowances :—

Ser. No. 1 wef 18 May 94

Defence Security Corps

To be Subedar Major

Sub Sabhapati Roy (JC-127186-N), 01 Sep 1995.  
 Sub Prem Naraiyan (JC-127185-L), 01 Oct 1995.  
 Sub Jai Krishnan (JC-92002-H), 01 Oct 1995.  
 Sub Hari Singh (JC119704-N), 01 Oct 1995.  
 Sub Santa Bahadur Subba (JC127195-P), 01 Oct 1995.  
 Sub Gurdip Singh (JC-94704-A), 01 Oct 1995.

To be Subedar

Nb Sub Chuni Lal (JC-155790-P), 01 July 1995.  
 Nb Sub Dip Kumar Rai (JC-108815-L), 01 July 1995.  
 Nb Sub Mani Ram Rathore (JC-176958-K), 01 Aug 1995.  
 Nb Sub Bhoop Singh (JC-176967-L), 01 Sep 1995.  
 Nb Sub Sarjit Singh (JC-176984L), 01 Sep 1995.  
 Nb Sub Narinjan Singh (JC-176990-Y), 01 Sep 1995.  
 Nb Sub Sardera Singh (JC-107006-Y), 01 Sep 1995.  
 Nb Sub Hira Chand (JC-100647-H), 01 Sep 1995.  
 Nb Sub Samarendra Chandra Chanda (JC-80345-M), 01 Sep 1995.  
 Nb Sub Parameswaran Nair Radhakrishnan Nair (JC-113085-P), 01 Sep 1995.  
 Nb Sub Joga Singh (JC-88995-P), 01 Sep 1995.  
 Nb Sub Santokh Singh (JC-113705-A), 01 Sep 1995.  
 Nb Sub Dalip Ram (JC-123903-Y), 01 Oct 1995.  
 Nb Sub Deo Murti Misra (JC-126968-X), 01 Oct 1995.  
 Nb Sub Govind Prasad (JC-96610-F), 01 Oct 1995.  
 Nb Sub Ghano Pradhan (JC-113990-K), 01 Oct 1995.  
 Nb Sub Basudeo Bhagat (JC-134205-W), 01 Oct 1995.  
 Nb Sub Jeet Pal Singh (JC-152900-N) 01 Oct 1995.  
 Nb Sub Gurnam Singh (JC-152795-H), 01 Oct 1995.  
 Nb Sub Rohtas Singh (JC-144527-K), 01 Oct 1995.  
 Nb Sub Dewarka Nath (JC-178116-X), 01 Oct 1995.  
 Nb Sub Pritam Singh (JC-149022-X), 01 Oct 1995.  
 Nb Sub Nebhar Singh (JC-155417-P), 01 Oct 1995.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk P Surendran (JC-160004-P), 01 Nov 1995.  
 Nb Sub Clk Jagan Nath Sharma (JC-175380-A), 01 Nov 1995.

PRAKASH CHAND  
 Under Secy.

## NATIONAL CADET CORPS

No. 144, dated 9th February, 1996.—The President is pleased to promote the following officers to the selection rank of Lt Col in accordance with Govt of India letter No. 5431/Promotion/DGNCC/MS(B)/818/AD(GS-VI) dated 07 April 1981. Their scale of pay will be regulated as per Govt of India Min. of Def. letter No. 5431/Promotion/DGNCC/MS(B)/1257/A/D(GS-VI) dated 03 Jun 1981. Their seniority for promotion and pay in permanent cadre will be as per Min. of Defence letter No. 5110/81/DGNCC/Pers.(A)/1117/D(GS-VI) dated 13 May 1981.

NCC WHOLE TIME PERMANENT COMMISSION  
OFFICER

## (ARMY WING)

(Maj to Lt Col by selection)

- RS Revankar (NCC/PC-12239), 27 May 95.  
IP Bhalla (NCC/PC-12356), 22 May 95.  
OP Gupta (NCC/PC-12233), 01 Jun 95.  
BS Sandhu (NCC/PC-12326), 18 May 95.  
KK Mehra (NCC/PC-12282), 30 May 95.  
KS Mall (NCC/PC-12253), 30 May 95.  
S Das (NCC/PC-12252), 24 May 95.  
JKD Garg (NCC/PC-12281), 22 May 95.  
P Saporì (NCC/GD-PC-6607), 31 May 95.

GAUTAM RAY  
Dy. Dir. Gen. (P&F)

## AIR BRANCH

No. 145, dated 3rd January, 1996.—The President is pleased to make the following substantive Promotions :—

## INDIAN AIR FORCE

## FLYING BRANCH

To be Substantive Air Cmde in Flying Branch

JV Singh (9097) F(N)—01-9-94.

[His name will appear below Air Cmde AL Dooskar (9058) F(P) in the gradation list].

RC Gosain, Vrc, VM (9447) F(P)—01-09-94.

SS Sobti (9488) F(N)—01-09-94.

PC Prasad (8444) F(P)—19-09-94.

[His name will appear between Air Cmde SS Tyagi (9467) F(P) and AV Sathaya (9039) F(P) in the gradation list].

LH Dixon (9078) F(P)—19-09-94.

[His name will appear below Air Cmde AV Sathaya (9039) F(P) in the gradation list].

BS Merwaha (9714) F(P)—02-01-95.

MK Saini (9779) F(P)—27-03-95.

KS Mandla, VM (9827) F(P)—27-03-95.

PK Pinto (8419) F(P)—05-06-95.

## AE BRANCH

To be Substantive GP Capt.

DK Sharma (11473) AB(L)—11-07-94 (01-08-92) (NS).

[His name will appear between Gp Capts IK Kapur (11833) AE(L) and HCR Dasari (7913) AE(L) in the gradation list].

RP Batra (11199) AE(L) 18-07-94 (28-12-93) (NS).

[His name will appear between Gp Capts AR Bhujang (11901) AE(L) and T Sovakar (12265) AE(L) in the gradation list].

BB Swain (12259) AE(M) A 19-09-94 (28-12-93) (NS).

[His name will appear below Gp Capt Deepak Kumar Sen (11915) AE(L) in the gradation list].

BR Pillai (12113) AE(L) 18-07-94 (28-12-93) (NS).

[His name will appear between Gp Capts BB Swain (12259) AE(M) and AC Barua (12283) in the gradation list].

OP Sharma (12263) AE(L) 18-07-94 (28-03-94) (NS).

[His name will appear between Gp Capts R Srinivasa (11917) AE(L) (RETD) and BB Swain (12256) AE(M) in the gradation list].

A Bhargava (10785) AE(L) 01-09-94 (05-05-94) (NS).

[His name will appear between Gp Capts A Gupta (10562) AE(L) and MGK Hori (7859) AN(M) in the gradation list].

JP Gulati (10281) AE(L) 18-07-94.

AK Khanna (10401) AE(L) 18-07-94.

## ACCOUNTS BRANCH

To be Substantive Gp Capts in Accounts Branch

Surjit Singh (11123) Accts—26-06-95.

V. ELISHA  
Asstt. Dir. of Pernl. (Offrs)-(2)A

## (AIR BRANCH)

No. 146, dated 2nd February, 1996.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from Flying (Pilots) Branch to Logistics Branch, in Permanent low medical category, with effect from the date indicated against his name; but with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in Logistics Branch vide Government of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/21901/16991/PO3(D)/1186/US/D(Air-III) dated 18 Jul 95.

## INDIAN AIR FORCE

## F(PILOT) BRANCH

Flt Lt (Actg Sqn Ldr) PK Dudeja (16991) wef 31 Mar 95

The President is pleased to transfer the undermentioned officer from Flying (Pilots) Branch to Logistics Branch, in Permanent low medical category, with effect from the date indicated against his name; but with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in Logistics Branch vide Government of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/21901/16680/PO3(D)/1290/US/D(Air-III) dated 28 Jul 95.

## INDIAN AIR FORCE

## F(N) BRANCH

Sqn Ldr VK Singh (16680) wef 22 Feb 95.

The President is pleased to transfer the undermentioned officer from Flying (Pilots) Branch to Logistics Branch, in Permanent low medical category, with effect from the date indicated against his name; but with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in Logistics Branch vide Government of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/21901/16973/PO3(D)/1185/US/D(Air-III) dated 18 Jul 95.

## INDIAN AIR FORCE

## F(PILOT) BRANCH

Sqn Ldr TPS Arora (16973) wef 20 Jan 95.

The President is pleased to retain the undermentioned officer in Flying (Pilots) Branch in permanent low medical category with effect from the date indicated against his name vide Government of India, Ministry of Defence, letter No. Air HQ/21901.12040/PO3(D)/863/US/D(Air-III) dated 14 Jun 95.

## INDIAN AIR FORCE

## F(P) BRANCH)

Wg Cdr GR Mallesh (12040) wef 04 Feb 95.

The President is pleased to retain the undermentioned officer in Flying (Pilots) Branch in permanent low medical category with effect from the date indicated against his name vide Government of India, Ministry of Defence, letter No. Air HQ/21901/10949/PO3(D)/1076/US/D(Air-III) dated 06 Jul 95.

## INDIAN AIR FORCE

## F(P) BRANCH)

Wg Cdr RM Chatterjee (10949) wef 29 Mar 95.

H. B. SHARMA  
Sqn Ldr ADPO 3(D)

## ARMY BRANCH

No. 147, dated 6th February, 1996.—The President is pleased to permit undermentioned officers to resign their commission from the Army service with effect from the dates noted against them earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons.

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

- IC-43178 A/Maj SS Pandian EME 22-12-93 (AN).  
IC-43356 Capt Shamsheer S Ahmed Engrs 22-06-95 (AN).  
IC-44453 A/Maj Anil Kumar Sunkara Engrs 13-07-96 (FN).  
IC 47240 A/Maj Vijay P Adsule Punjab 31-05-95 (AN).  
IC-48106 Capt Rahul Sinha Dogra 12-07-95 (AN).  
IC-49515 A/Capt Maninder Singh Gill Ad Arty 30-09-95 (AN).  
IC-52177 2/Lt MS Sandesh Kumar JAK LI 26-05-95 (FN).

P. K. RAMPAL  
Col, Col MS(R&P)

## ARMY HEADQUARTERS

## QMG's BRANCH

No. 148, dated 31st January, 1996.—On attaining the age of superannuation i.e. 58 years on 06-01-1996 (Date of Birth being 06-01-1938) Shri Tota Ram, Assistant Civilian Staff Officer, QMG's Branch retired from service with effect from 31-01-1996 (AN) and transferred to Pension Establishment with effect from 01-02-1996 (FN).

RENU K RAJU  
Dy Chief Administrative Officer

## (AIR BRANCH)

No. 149, dated 2nd February, 1996.—The President is pleased to release the undermentioned officer from service on ground of ill health with effect from the date indicated against his name.

## INDIAN AIR FORCE

## FLYING (PILOT) BRANCH

Sqn Ldr M Bahuguna (16076) wef 23 Jun 95 (AD).

## LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Saljit Singh (17724) wef 15 Feb 95 (AN).

H. B. SHARMA  
Sqn Ldr ADPO3(D)

## "NATIONAL CADET CORPS"

No. 150, dated 12th February, 1996.—The undermentioned Vice Chancellors are granted honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Honorary Colonel Commandant of the University shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University.

Name of the Vice Chancellor, Name of the University and Date of Appointment as VC

Prof Mahmoodur Rahman Vice Chancellor, Aligarh Muslim University Aligarh, 01 May 95.

Dr. Dharam Pal Vice Chancellor, Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar, 01 Jul 93.

Prof GK Das Vice Chancellor, Utkal University, Vani Vihar, Bhubaneswar, 16 Aug 95.

Prof Dhananjay Varma Vice Chancellor, Dr. Harisingh Gour University, Sagar (MP), 10 May 95.

Dr. Prakash Singh Bisen Vice Chancellor, Jiwaji University, Gwalior, 05 Jul 94.

Dr. Ishwar Singh Chauhan Vice Chancellor, Barkatullah University, Bhopal, 24 Aug 94.

Dr. Kulbir Singh Johar Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, 06 Apr 92.

Dr. Janardan Madhavrao Waghmare Vice Chancellor, Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded, 17 Sep 94.

Dr. Shivraj Basettiappa Nakade, Vice Chancellor, Dr. B Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, 04 Nov 94.

Dr. SK Dorge Vice Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri, Ahmednagar, 07 Mar 90.

Dr. (Smt.) Snehalata S Deshmukh Vice Chancellor, University of Bombay, 05 May 95.

Dr. ST Deshmukh Vice Chancellor, Amravati University, Amravati, 10 Sep 95.

Dr. S Shanmugasundaram Vice Chancellor, Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, Madras, 14 Sep 95.

Prof S Gopal Vice Chancellor, Mangalore University, Mangalagangothri, 27 Nov 95.

Prof R Ramamurthi Vice Chancellor, Sri Venkateswara University, Tirupati, 10 Oct 95.

R. K. JAIN  
Colonel, Offg DDG (MS)

## ARMY BRANCH

## CORRIGENDUM

No. 15, dated 8th February, 1996.—In the Gazette of India Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 07 Oct 95 under the heading 'Permanent Commission' in the Regular Army is hereby amended:—

For: BAYAS Shatrughnasingh Prithviraj (IC-53199N), AD.

Read: BAYAS Shatrughnasingh Prithviraj (IC-53199N), AC.

A DUTTA  
Major, Offg AMS 8B

## CORRIGENDUM

No. 152, dated 8th February, 1996.—In Ministry of Defence Notification number 767 dated 26 Sep 95 published in the Gazette of India serial No. 45 dated 11th November 1995 under heading 'Regular Army' Sub heading 'Infantry' The Mechanised Infantry Regiment below:—

To be Substantive Subedar Clerks

For: Nb Sub (Clk) Gopala Krishnan Nair KK (JC-200835YY), 01 Mar 95.

Read: Nb Sub (Clk) Gopala Krishnan Nair KK (JC-200835Y), 01st Jun 1995.

R. G. HEGDE  
Under Secy.

